



॥ श्रीः ॥  
इन्द्रजिदिवितः  
**क्षिर्योङ्गीर्थाः ।**

पं० लालमनश्चमृतभापाटीकासमेतः  
तथा

पं० बलदेवप्रसादमिथसंरोधितः ।  
स चायं

श्रीकृष्णदासात्मज-गङ्गायिणोः  
अध्यक्ष “लक्ष्मीवेंकटेश्वर” सुद्रणागरे  
मेनेजर पं० शिवदुलरेवाजपेयी इत्यनेन स्वाम्यवे  
सुद्रयित्वा प्रकाशितः ।

संवत् १९८०, शकाब्दः १८४८.

**कर्लयाण-सुंबहि ।**

अस्य ग्रन्थस्य सर्वेऽधिकारा यंत्राधिकारिणा  
स्यायतीकृताः ।

✓  
SRI SAKET VIDYARSHI  
Central Library  
Access No. 17385  
Date 19-12-1988  
✓

ॐ नमौ गणेशाय ।

क्रियोङ्गीशः ।

भाषाटीकासमेतः ।

---

आनन्दशिखरारुदं पार्वत्या सह शंकरम् ।

पश्चच्छ गिरिजा कान्ता पुनर्नत्वा वृषध्वजम् ॥ १ ॥

आनन्दशिखरके ऊपर विराजमान श्रीपार्वतीसे शोभित  
श्रीशंकरजी महाराजको नमस्कार कर श्रीमहारानी पार्वतीजी  
पूछने लगीं ॥ १ ॥

पार्वत्युवाच—भगवन्सर्वदेवा सर्वज्ञानमय प्रभो ।

इदानीं श्रोतुमिच्छामि क्रियोङ्गीशं विभो वद ॥ २ ॥

श्रीपार्वतीजी कहनेलगीं हे भगवन ! हे सर्वदेवा ! हे सर्व-  
ज्ञानमय ! हे प्रभो ! इस समय क्रियोङ्गीश सुननेकी मरी आति  
इच्छा है कृपा कर वर्णन कीजिये ॥ २ ॥

ईश्वर उवाच—शृणु हेवि प्रवक्ष्यामि उङ्गीशं तन्मु-  
त्तम् । शोपितच्यं प्रथत्तेज सम स्वप्राणवल्लभे ॥ ३ ॥

श्रीशिवजी घटनेलगे, हे दोष ! श्रवण करो तन्त्रोंमें उत्तम  
उड्डाश तन्त्रका कहता है, हे प्राणवलभे ! यह तन्त्रोत्तम  
उड्डाश तन्त्र सर्वथा गापनार्थ है ॥ ३ ॥

शान्त्यादि पद कर्माणि तेषां लक्षणं च ।  
स्वदेवतार्दक्षात्यादि ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत् ।  
शीर्नाश्चसालउक्षाणोत्योपवायुहविभुजः ॥४॥ एतेषां  
बाजयोगेन ग्रथनार्दिक्रमण कर्म साधयेत् । ठं वं  
लं हं यं वं ।

शांति आदि पद कर्म और उनका लक्षण कहाजाता है ।  
निजदेवता, दिक्, ऋत्यादिकों जानकर कर्म साधन करे ।  
चन्द्र, जल, पृथ्वी, व्याम, वायु, अग्नि ॥ ४ ॥ इन छःके  
बाजयोगसे ग्रथनार्दिक्रमपृष्ठक कर्म साधन करे । ठं, वं, लं, हं,  
यं, वं, यह छः इन छहों देवताओंके बीज हैं ।  
तत्तदेवता-रतिवाणी रमा ज्येष्ठा मातृज्ञी कुलका-  
मिनी । दुर्गा चेव भद्रकाली कर्मादी ताः प्रपूज-  
येत् ॥ ५ ॥ वसन्ताद्यतुकालनियमः ।

रति, वाणी, रमा, ज्येष्ठा, मातृज्ञी, कुलकामिनी, दुर्गा,  
भद्रकाली हृत द्युसार्णीका कर्मादी लाहौरे पूजन करे ॥ ५ ॥

पसन्त आदि ऋतु कालनियममें ग्रहण किये हैं ।

इति क्रियोहीशो महातन्त्रराजे देवीश्वरसंवादे प्रथमः पटलः ॥१॥

अथ सर्वरोगमुक्तिकवचम् ।

श्रीदेव्युवाच—देवदेव महादेव सुरासुरनमस्कृत ।

इदानीं श्रोतुष्मिच्छामि रोगमुक्तः कर्थं प्रभो ॥२॥

श्रीपार्वतीजी कहनेलगीं । हे देवदेव ! हे महादेव ! हे सुरासुरनमस्कृत ! हे प्रभो ! इस समय मेरी यह इच्छा है कि, रोगमुक्तिका उपाय आपके मुखारविन्दसे सुनूँ अर्थात् साधक लोग किस प्रकार रोगमुक्त होते हैं ॥ २ ॥

नास्ति ब्राता च जगतां त्वां विना परमेश्वर ।

ज्वरादिवारणं शीत्रं कृपया परया वद् ॥ ३ ॥

हे परमेश्वर ! आपके विना त्रिलोकरक्षक अन्य नहीं हैं अतः हे प्रभो ! कृपापूर्वक ज्वरादि रोगोंकी निवृत्तिका उपाय वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥

ईश्वर उवाच—कर्थयामि तव स्नेहात्कवचं वारणं  
महत् ॥

श्रीशिवजी कहने लगे हे प्रिये ! हम्हारे स्नेहसे मैं ज्वराविरोगाशक कवचको कहता हूँ ।

ॐ नमो भगवति वज्रशृंखले हन्तु भक्षतु खादतु अहो  
रक्तं पिब पिन वरवक्षास्थिरक्तपटे भस्माङ्गि भस्मलि-  
तशरोरि वज्रायुधे वज्रप्राकारनिचिते पूर्वान्दिशं सुञ्चतु  
दक्षिणां दिशं सुञ्चतु पश्चिमां दिशं सुञ्चतु उत्तरा  
दिशं सुञ्चतु नागार्थं धनय्रहपति बन्धतु नागपीटं  
बन्धतु यक्षराक्षसपिशाचान् बन्धतु प्रेतभूतगन्धर्वा  
दयो ये केचिद् उपद्रवास्तेभ्यो रक्षतु ऊर्ध्वं रक्षतु  
अधो रक्षतु श्येनिकां सुञ्चतु ज्वल महाबले एतेहि तु  
मोटि मोटि सटावलि वज्राग्निवज्रप्राकारे ऐं फट हीं  
हीं श्रीं फट हं हं फुं फें फः सर्वग्रहेभ्यः सर्वव्या-  
धिभ्यः सर्वदुष्टो पद्मवेभ्यः हीं अशेषेभ्यो मा रक्षतु ॥

इतीदं कवचं देवि सुरासुरसुखुर्लभम् ।

अहज्वरादिभूतेषु सर्वकर्त्तु योजयेत् ॥ ७ ॥

हे देवि । देवताओंकोभी वडी कठिनतासे प्राप्त होनेलायक इस

भाषादीकासमैतः । . . ( ७ )

कवचके पाठं करनेसे सर्व प्रकारके ज्वरादिक सहसा दूर होजाते हैं अतः सर्वकर्मोंमें इस कवचका प्रयोग करे ॥ १ ॥

न देयं थस्य कर्स्यापि कवचं मन्मुखाच्युतम् ।  
तदत्ते सिद्धिहानिः स्यायोगिनीनां भवेत्पशुः ॥ २ ॥

मेरे मुखारविन्दसे निर्गलित यह कवचराज हरएकको न देने चाहिये क्योंकि हरएकको देनेसे सिद्धिहानि होतीहै और दाता-को योगिनियोंका पशु होना पडता है ॥ २ ॥

दद्याच्छान्ताय वीराय सत्कुलीनाय योगिने ।  
सदाचाररता ये च निर्जिताशेष एव हि ॥ ३ ॥

यह कवचराज शांतप्रकृति, वीर, सत्कुलीन, योगी, सदाचार-रत, जितेन्द्रियको ही प्रदान करना चाहिये अन्यको नहीं ॥ ३ ॥

ऐकाहिको द्वचाहिकश्च ज्याहिकश्चालुराहिकः ।  
सर्वे ज्वरा विनश्यन्ति कवचं धारयेद्यदि ॥ ४ ॥

इस कवचराजके धारण करनेसे प्रतिदिन आनेवाला ज्वर, दूसरे दिन आनेवाला ज्वर, तिजारी ज्वर, चौथे दिन आनेवाला एवं सर्व प्रकारके ज्वर सहसा दूर होजाते हैं ॥ ४ ॥

(८)

क्रियोङ्गीशः ।

स्त्रिया वासवरे धार्यं पुंसा च दक्षिणे करे ।  
अवद्यमेव सिद्धिः स्यात्सत्यं सत्यं वरानने ॥ ६ ॥

यह क्वचराज स्त्रियोंको धार्यं और पुरुषोंको दक्षिण हस्तमें धारण करना चाहिये, हे वरानने । अवद्य इस क्वचके धारण करनेसे साधकवर्गको सिद्धिलाभ होगा ॥ ६ ॥

इति क्रियोङ्गीशमहातन्त्रराजे देवीश्वरसंवादे द्वितीयः पटलः ॥ २ ॥

अथ सर्वरोगविनाशाय पार्थिवशिवलिंगपूजनप्रकरणम् ।  
अतः परं महेशानि पूजनं पार्थिवं शिवम् ।  
विशेषतः सर्वरोगे ऋष्म्बकरूप प्रपूजनम् ॥ १ ॥

अब सर्व रोगोंकी शांतिके लिये पार्थिव शिवलिंगके पूजनका प्रकरण कहाजाता है हे महेशानि ! पार्थिव [ मृत्तिकके बनाये हुए ] शिवपूजनका प्रकार कहाजाता है । विशेषतासे समस्त रोगोंके उत्पन्न होतेही ऋष्म्बक शिवजी महाराजका पूजन करना योग्य है ॥ १ ॥

यत्कृत्वा सर्वतः शान्तिर्भवेद्देवि न संशयः ।  
ततः प्रयोगं सर्वेषां वद्यादीनां च कारणेत् ॥ २ ॥  
हे देवि ! जिस पार्थिव विधान करनेमें सर्व प्रकारके रोगोंकी

शांति होती है, इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं तत्पश्चात् सम-  
स्त वश्यादिकोंका प्रयोग करावे ॥ २ ॥

**विधानं तत्र वक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने ।**

हे कमलानने ! मैं पार्थिवपूजनके विधानका वर्णन करताहूँ  
अवण करो ।

**शिवपूजाविधानम् ।**

सृदा लिङ्गं विनिर्माय शततोलकमानया । तत्रा-  
नीय सृतं मुण्डं स्थापयित्वा ममाञ्जनम् ॥ १ ॥  
पूर्वमधिं च लंस्थाप्य यज्ञस्थानं चतुर्विधम् । उत्तरे  
दक्षिणे वापि पूर्वे च पथिमे तथा ॥ २ ॥ सर्वका-  
मेषु होतव्यदन्यथा निष्फलं भवेत् । घटं संस्थाप्य  
मम पूजां यथाशक्ति कुर्यात् । ततो वह्निस्थाप-  
नम् । मुण्डस्थापनम् । नरमहिषमार्जारमुण्डत्रयम् ।  
अथवा चृषुण्डत्रयम् । एकमुण्डं वा तदुपरि मां  
संपूज्य गन्धोदकैः स्नापयित्वा वितर्स्तमित्परा-  
त्तुले पोथयित्वा तस्योपरि वेद्धीं कल्पयेत् । तत्रैव

भूतनाथादीन् चतुर्दिशु लग्नव्ययेत् । पूर्वे अँ भूत-  
नाथाय नमः इति पाद्यादिभिः पूजयित्वा बलि-  
दद्यात् । एवं दक्षिणे इमशानाधिपाय । पश्चिमे  
कालभैरवाय । उत्तरे च ईशानाय । वेदीपध्ये हौं  
प्रेतबीजं विलिख्य तत्रैव भारतीं पूजयेत् ।

१०० ( सौ ) तोले 'मृत्तिकाके शिवलिंगको बनाकर और  
सृतक पुरुषके कपालमें स्थापन कर अगाड़ी कहेहुए विधानके  
अनुसार पूजन करे ॥ १ ॥ पूर्व अग्निको स्थापन कर चारों दिशा-  
ओंमें हवन करे क्योंकि यह चारों दिशा यज्ञस्थान कहाती हैं ।  
सर्व प्रकारकी कामनाओंमें पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, अष्टश्य  
इन चारों दिशाओंमें हवन करे इन दिशाओंमें हवनके न करनेसे  
समस्त कियाहुआ कर्म निष्फल होजाते हैं, प्रथम घट स्थापन  
कर यथाज्ञकि मेरा पूजन करना चाहिये तत्पश्चात् अग्नि स्थापन  
करे । पुनः मुङ्ड स्थापन करे । नर, महिष, मार्जार इन तीनोंके  
मुण्डको स्थापन करे । अथवा तीनों नरमुङ्डही स्थापन करने  
चाहिये यदि किसी कारणसे ३ नर मुङ्ड प्राप्त न होसकें तो एक  
नरमुण्ड अवश्यही स्थापन करे और उस मुङ्डके ऊपर श्रीपा-

थिंव शिवजी महाराजका पूजन कर गन्धोदक आदिसे स्नान करावे ( पुनः ) वितस्तिमान्न पृथिवीको खोदकर उक्त पार्थिव-प्रतिमाको उत्कस्थानमें गाढ़कर वहीं वेदी निर्माण करे और भूतनायादिकोंका चारों दिशाओंमें यथावत् पूजन करे । ॐ भूत-नायाय नमः इस नाममंत्रसे पाद्यादि प्रदान कर पूर्वदिशाओंमें पूजन करे, बलिदान करे ॐ नमः इमशानाधिपाय इस नाममंत्रसे उत्कविधानपूर्वक दक्षिण दिशामें पूजन कर बलिप्रदान करे । कालभैरवाय नमः इस नाममन्त्रसे पश्चिममें बलिप्रदान करे । ईशानाय इस नाममंत्रसे उत्तर दिशामें बलिप्रदान करे । वेदीके मध्यमें हीं इस प्रेतबीजको लिखकर वहींपर सरस्वतीका पूजन करे ।

पुष्पांजलिः ।

ऐ वीर श्व देवेश सुण्डरूप जगत्पते । दयां कुरु  
महाभाग सिद्धिदो भव मज्जेपे ॥ इति शुष्पाञ्जलि-  
ब्रथं दत्त्वा आग्नेयां हीं \* \* \* नमः नैऋत्या  
हीं चण्डकायै नमः । वायव्यां हीं भद्रकाल्यै नमः ।  
ईशाने हीं दयामय्यै नमः । ईमशानयादिनो ये ये  
देव । देवाश्च भैरवाः । दयां कुर्वन्तु ते सर्वे सिद्धिदाश्च

( ३२ )

क्रियोङ्गीशः ।

भवन्तु मे । अनेन प्रणवाद्येन पुष्पाजलित्रयं  
स्थिपेत् । ततः स्थानं तु संलपुद्धय वद्यो भव वदे-  
दिति ।

रे वीर शव ! रे देवेश ! सुंडरूप ! जगत्पते महाभाग ! दया  
कर और मेरे इस जपविधानमें सिद्धि दे, इस प्रकार तीन पुष्पां  
जलि प्रदान कर इन वीजमंत्रोक्ता उच्चारण कर । आयेयां हीं नमः ।  
नैऋत्यां हीं चंडिकायै नमः । वायाव्यां हीं भद्रकालये नमः ।  
ईशाने हीं दयामर्यै नमः । जो २ इमशानवासी देव अथवा अदेव  
भैरव हैं वह समस्त मेरे ऊपर कृपा कर सिद्धि प्रदान करे । इस  
प्रणवादिसे तीन पुष्पांजलिको छोड़े तत्पश्चात् स्थानको स्पर्शकर  
कहै “वश्या भव” अर्थात् मेरे वशमें हो ।

तदनन्तरं स्नानं तत्र लिङ्गं संस्थाप्य परमेश्वरि ।  
स्नानं तु पञ्चगव्येन दधिङुध्वादिकं तथा ॥ अथ-  
वा परमेश्वानि शक्तिरामधुना युतश्च । पञ्चाष्टौस्ततः  
स्नानं कारयेत्परमेश्वरि ॥ ईशानाय प्रथमं स्नानं  
वामदेवाय द्वितीयकम् । तृतीये सद्योजाताय चतुर्थे च

पिनाकधृक् ॥ पंचमं देवदेवेशं पूजयेत्पार्थिवं  
शिवम् ॥ अधुना मूलमन्त्रेण शुर्वरया गायत्रिकं  
परम् । ततो जीवन्यासं कृत्वा न्यासादिकं ततः परम् ॥

हे परमेश्वरि ! तत्पथात् लिंगको स्थापन कर स्नान करावे ।  
दधि हुग्ध आदि पंचशब्दसे स्नान करावे । हे परमेश्वानि !  
अथवा मधुमिश्रित शर्कराहीसे स्नान करावे, हे परमेश्वरि !  
तत्पथात् पञ्चमृतसे स्नान करावे, ‘ईशानाय’ इस मन्त्रसे प्रथम  
स्नान करावै, ‘वामदेवाय’ इस मन्त्रसे दूसरा स्नान करावै ‘सद्यो  
जाताय’ इस मन्त्रसे तीसरा स्नान करावे, ‘पिनाकधृक्’ इस  
मन्त्रसे चौथा स्नान करावै, ‘देवदेवेश’ इस मन्त्रसे पांचवां स्नान  
करावै, पार्थिव श्रीशिवजीका पूजन करे । अब मूलमन्त्र अथवा  
गायत्रीमन्त्रको उच्चारण कर शर्करासे स्नान करावै, तत्पथात्  
जीवन्यास कर न्यासादिक करै ।

ध्यानं शृणु महादेवि रुनेहेन कथितं मया ।  
षुस्ताभ्यां कुलशद्वयामृतसैराप्नावयन्तं शिरो द्वाभ्यां  
तौ दधतं मृगाक्षवलये द्वाभ्यां वहन्तं परम् । अंके

( १४ )

क्रियोङ्गुचिः ।

न्यरतकरद्यासृतघटं कैलासकान्तं शिवं स्वच्छा-  
म्भोजगतं नवेहुसुकुटं देवं त्रिवें लजे ॥ पुनर्ध्यात्वा  
तु उपूज्य अंगन्यासं ततः परम् ।

हे देवि ! तुम्होरे स्नेहसे बद्ध मैं अब ध्यान कहता हूँ, श्रवण  
करो । दोनों हाथोंसे दो असृतके कलशोंमेंसे असृतरसको अपने  
शिरपर छिड़कते हुए, और दोनों हाथोंमें असृतवलशको धारण  
करते हुए, दोनों हस्तक्षमलके मणिवन्धमें सृगाक्षवलयको धारण  
करते हुए अंक.( गोदी ) में रखताहै असृत कलश जिनके नवीन  
चन्द्र है सुकुटमें जिनके ऐसे कैलासकान्तं श्रीशिवजी महारा-  
जको भजते हैं । फिर ध्यान और पूजन कर अंगन्यास करे ।

अंगन्यासः—अँ तत्सवितुर्वरेण्यं हृदयाय नमः ।  
इद्यवकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्द्धनं शिरसे स्वादा ।  
भगोदेवस्य धीमहि शिखायै वृद्ध । उर्वारुक्षामिववन्ध-  
नात् क्षवचाय हुं । धियो यो नः प्रचोदयात् नेत्रवयाय

वौषट् । सूत्योरुक्षीय मासृतात् अस्त्रायषट् एवं  
करन्यासः ।

इसी प्रकार करन्यास भी करे ।

ततः षोडशोपचारैः पूजा ।<sup>०</sup> ज्यापशाजिता कृष्ण-  
विल्वपत्रं च पिप्पलम् । अपामार्गं वर्वर्वां प्रत्येकं  
जुहुयान्दिवे । अष्टाधिकशतनैव पूजयेत् ।

हे शिवे ! ज्या, अपराजिता, कृष्ण, विल्वपत्र, पीपल,  
अपामार्ग ( चिरचिदा ), कनेर प्रत्येकसे १०८ हवन करे ।

अतः परं महेश्वानि मधु देयं विशेषतः । गुडार्ड  
करसनैव सुरास्तु ब्राह्मणस्य तु ॥ नारिकेलोदकं चैव  
कांस्ये तु क्षाविस्य च । कांस्यस्थं माक्षिकसु  
बैह्यस्य । शूद्रस्य ताम्रपात्रे तु मधुयुक्तं निवेदयेत् ।  
द्वथवा सार्पं तैलमाज्येन होमयेद्विजः । जुहुया-  
त्सर्वकर्माणि कृथितानि महेश्वरि ।

( १६ )

क्रियोङ्गीशः ।

हे महेशानि ! इसके पश्चात् मधु देना चाहिये । गुड और अदरखके रसमें मिश्रित सुरा ब्राह्मणको दे । नारियलका जल कांस्यपात्रमें क्षत्रीयोंको दे । कांसीके पात्रमें सहत वैश्यको दे, शूद्रको तांबेके पात्रमें मधु देवे, अथवा ब्राह्मण सरसोंका तेल और घृतसे समस्त कर्मोंमें हवन करे हे महेश्वर ! यह अति गोपनीय विषय हुम्हारी प्रीतिके वश होकर मैंने तुमसे कहाहै ।

मन्त्र—मंत्रं शृणु महादेवि क्लिथितं तत्पश्चद्या ।

हे महादेवि ! मंत्रको सुनो मैं हुम्हारी श्रद्धासे कहता हूँ ।

ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं ऋष्मस्वकं यजामहे सुगन्धि  
पुष्टिवर्धनं भगोदेवस्य धीमहि उर्वारुकमिव बंधनाद्  
धियो यो नः प्रचोदयात् सृत्योर्मुक्षीयमासृतात् ।

पुश्चरणके साथ इस मंत्रको १००००८ जपे उपरोक्त विधान सब कर्मोंमें है ।

स्थानभेदकष्ट—शून्याशारे नदीतीरे पर्वते वा चतु-  
ष्पथे । विल्वसूले इमज्ञाने वा निर्जने च प्रपूजयेत् ।  
अणिमाद्यपूजात्मि च ॥ वन्ध्या वा सृतवत्सा वा बछो

वा राजशाहुके । सर्वज्ञान्तिकरं देवि पूजनं ऋथस्वके  
शिवे ॥ अत एव क्थितं मे च सत्यं सत्यं वरानने ॥

शून्यस्थान, नदीके किनारे, पर्वत, चौराहे, बेलके वृक्षकी  
जड़में, इमशान या एकांतमें अणिमादि आठ शक्तियोंकी पूजा  
करे । वंध्या मृतवत्साका इस पूजनके करनेसे दोष निवारण  
होताहै, राजभय शत्रुभय दूर होताहै । हे शिवे ! हे देवि ! शिवका  
यह पूजन सब भांतिको शांतिको करनेवाला है । हे वरानने  
मैंने यह सत्य कहाहै ।

इति कियोड़ीशे महातन्त्रराजे देवीशरसंबादे तृतीयः पटलः ॥५॥

अथ सर्वव्याधिमोचनम् ।

शृणु वक्ष्यामि चार्णगि सर्वव्याधिविमोचनम् ।  
एकादशा पूजयेद्गुद्रान्दशांशुं गुग्गुलैर्घृतैः ॥ चत्वारः  
कुम्भाः कंस्थाप्याः पञ्चपल्लवसंयुताः ॥ उत्तमं वै  
रैप्याष्टदलपद्ममध्ये लिङं पूजयेत् । प्रतिवासरं सप्त-  
लिंगं पूजयेत् लक्ष्मं जप्त्वा ॥ पलाशासमिधां द्वाषेषु

उत्तर्येण तत्क्रमात् ॥ अब पीठे यजमानमभिपेक-  
येत् । दक्षिणां दद्याहो भूहेमा तिलांजलीनि ब्राह्मणेभ्यः  
विच्चिदेया आचार्याय दद्यात् ॥

हे श्रेष्ठ धंगवाली ! अब सब व्याधियोंसे छूटनेका उपाय  
कहताहैं दशांश गृगल और धीसे ११ स्ट्रोंकी पूजा करनी  
चाहिये । पश्चपल्लवयुक्त पांच घट स्थापन करे । उपरोक्त मंत्रसे  
चांदीके अष्ट दलवाले पश्चमें लिंगको पूजे । एक लक्ष जप  
करके पलाशकी समिधाहारा उक्त मंत्रसे क्रमानुसार होम करे ।  
फिर यजमानका अभिपेक करे । गौ, पृथ्वी, हेम ( सुषर्ण )  
तिलांजलि दक्षिणामें दे । कुछ ब्राह्मणको देकर वाकी आचा-  
र्यको दे दे ।

इति क्रियोहीशो महातंत्राजे देवीभरसंवादे चतुर्थः पटलः ॥४॥

अथ क्रियोपदेशः ।

वशीकरणादिकर्माणि वारतिथिनक्षत्रमण्डलवि-  
शेषे कर्तव्यानि । स्फाटिकी याला सर्वसिद्धिदा ।  
माणिसंख्या । पञ्चविंशतिभिमोक्षं पुष्टौ तु सप्तविंश-  
तिः । त्रिशङ्खिर्धनतिद्विस्तु पञ्चाशन्मन्त्रसिद्धये ॥  
अष्टोत्तरशतैः सर्वसिद्धिः ।

बंब क्रियोपदेश कहाजाता है । वशीकरण आदि कर्म वार, तीर्थि, नक्षत्र और मण्डलविशेषमें करना चाहिये, स्फटिककी मालासे जप करने पर सर्वसिद्धि प्राप्त होती है । दोनोंकी गिनती २५ दानेकी मालासे जप करने पर मोक्षसुख प्राप्त होता है पौष्टिक कर्ममें २७ दानोंकी माला होनी चाहिये । धनसिद्धिमें तीस दानोंकी माला होनी चाहिये । मन्त्रसिद्धिमें ९० दानोंकी माला लेनी चाहिये । १०८ दानोंकी माला सर्वसिद्धिमें लेनी चाहिये ।

शिव्यन्त्रसमायुक्तमौषधं सफलस्थवैत् । सूलिको-  
त्पाठनच्छेदनादिविधिः पूर्वतन्त्रे कथितः । बन्धा-  
दिदोषनिवारणम् । स्त्रीणां बाधकमोचनम् । स्त्रीमा-  
द्रचादिचतुर्विधबाधकदोषनिवारणम् । तन्त्र यन्त्रम् ।  
त्रिकोणमथषट्कोणं नवकोणं मण्डलाङ्काति । यन्त्रा-  
ण्येतानि संलिख्य बाहयेन्मन्त्रपूर्वकम् । तंवपूजनात्  
औषधादिभक्षणादोषशान्तिः ।

( २० )

क्रियोङ्गीशः ।

शिवमन्त्रके जपपूर्वक यदि औषधि उत्पादन कीजाय तो सफल हो । मूलिका ( जड ) के उखाडनेकी विधि पूर्वतन्त्रमें कहचुके हैं । बन्ध्यादि दोष निवारणके अर्थ और स्त्रियोंकी वाधा मोचनेके अर्थ इस मूलिकाका प्रयोग करे माद्रि आदि चार प्रकारके दोषोंका यथार्थ निवारण होता है । अब यन्त्र कहजाता है मण्डलाकृति, त्रिकोण, पट्कोण अथवा नवकोण मन्त्रसहित यन्त्र लिखकर पूजन करे और औपधी भक्षण करे तो सर्व प्रकारके रोग शात होयँ ।

इति क्रियोङ्गीशे महातन्त्रराजे देवीश्वरसंवादे पञ्चमः पटलः ॥५॥

अथ सृतवत्सादिशांतिक्रवचम् ।

सृतवत्सासृतगर्भपुत्रहीनानां शान्तिः क्रवचधार-  
गात् । क्रवचं प्रथमष् । अँ नमो नरसिंहाय नमो  
महाविपद्माशाय दिव्यरूपाय नरसिंहाय नमः । स्थौं  
स्थौं क्षौं रामाय नमः । रामाय नमः । अँ हीं श्रीं  
फणं हुं हों फेतकारशब्देन सर्वबालकस्य सर्वभयोपद्र-  
वनाशाय इमां विद्यां पठति धारयति यदि तदा  
नरसिंहो रक्षति सदा हुं फह स्वाहा ।

अब मृतवत्सादि शान्तिकवच कहाजाता है । जिन छियोंके  
गर्भमेंही पुत्रादिक मरजाते हैं उन्हें मृतवत्सा कहते हैं उन्हींका  
शांतिविधान कहाजाता है । उनको ही इस कवचके धारण  
करनेसे शांतिलाभ हो सकता है ।

प्रकारांतरेण, द्वितीयकवचम् ।

अब प्रकारान्तरसे दूसरा कवच कहाजाता है ।

ॐ नमो नरसिंहाय हिरण्यकशीपोर्वक्षः स्थलविदा-  
रणाय त्रिभुवनव्यापकाय भूतप्रेतपिशाचडाकिनीकु-  
छनाशाय स्तम्भोद्भवाय समस्तदोषान् हरहर विष  
विष पचपच मथमथ हलहन फट हुँ फट ठःठः एहि  
रुद्रो ज्ञापयाति स्वाहा ।

ॐ क्षौ नमो भगवते नरसिंहाय ज्वालामालिने  
दीपदंप्राय आग्नेत्राय सर्वरक्षोद्ग्राय सर्वभूतविनाशाय  
सर्वज्वरविनाशाय दहदह पचपच रक्षरक्ष हुँ फट  
स्वाहा ।

( १२ )

क्रियोङ्गीशः ।

गोरोचनया भूजै विलिख्य स्वर्णस्था गुटिका स्त्रिया  
वामकरे पुरुषेण दक्षिणे करे धार्या कदापि न दोषः ।

इस कवचराजको भोजपत्रके ऊपर लिखकर सोनेके ताबी-  
जमें बंद कर स्त्रियां बायें और पुरुष दक्षिणभुजदण्डमें धारण  
करें किसी अवस्थामें भी यह अपवित्र न होगा ।

इति क्रियोङ्गीशे महातन्त्रराजे देवीश्वरसंवादे षष्ठः पटलः॥६॥

श्रीदेव्युवाच—श्रुतं कवचचरितमपूर्वे देववाञ्छि-  
तश् । इदानीं श्रोतुमिच्छामि यन्त्रं कथय मे प्रभो ।

श्रीदेवीजी कहने लगी । हे देव ! मनोवाञ्छितदायक अपूर्व  
कवच चरित सुना, हे प्रभो ! अब मेरी यन्त्र सुननेकी इच्छा है  
कृपा कर कहिये ।

( यन्त्रम् ) ईश्वर उवाच—मात्राहीनं रकारं तु  
पाइर्वे द्विर्वितथा पुनः । मायात्मकं तेन भवेत्  
षट्कोणं यन्त्रमुत्तमम् । माया बीजं हीं गर्भेषु ।

पट्कोण यन्त्र लिखकर हीं वीजको मध्यमें लिखे, शेष सुगम है ।

स्त्रिया वामहस्ते धारणाद्वया एउत्रवती भवेत् ।  
बालाया बालकस्यापि कण्ठे सन्धार्य सुखी भवेत् ।  
भूजे गोरोचनया विलिख्य स्वर्णस्थं धारयेत् । पोड-  
शीचक्रस्य गोरोचनया भूजे विलिख्य धारणात्  
स्त्रीणां सौभाग्यवृद्धिः । चतुष्कोणचक्रं संलिख्य न्हाँ  
गर्भं बाहौ धारणात् नारी जीवत्पुत्रिका अथवा चतु-  
ष्कोणे प्रणवादि क्षं पुनः । मनिचक्रं संलिख्य धार-  
णात् वन्ध्या जीवत्पुत्रिका भवति ।

इस यंत्रराजको भोजपत्रके ऊपर लिखकर यदि स्त्री अपने  
वायं हाथमें बांधे तो वन्ध्याके भी एउत्र पैदा हो गोरोचनसे  
भोजपत्रके ऊपर लिखकर सोनेके तावीजमें बन्द कर बाला  
अथवा बालकके कण्ठमें यदि यह यन्त्रराज पहनाया जाय तो  
सुख प्राप्त हो । पोडशीचक्रको गोरोचनसे भोजपत्रके ऊपर  
लिखकर धारण करनेसे स्त्रियोंको सौभाग्य प्राप्ति होती है ।  
चतुष्कोण चक्रके मध्यमें हीं वीज लिखकर बाहुमें धारण  
करनेसे स्त्री जीवत्पुत्रिका होती है मीन चक्रके चारों कोनेमें

( २४ ) क्रियोङ्गीशः ।

प्रणवादि क्षं वीज लिखकर धारण करे तो बन्धा स्त्रीभी  
सन्तानसुखको प्राप्त हो ।

अतः परम् अष्टदलकर्णिकामध्ये माया । ततः परं  
दलमध्ये द्वे द्वे मायावीजे पुनः पुनः । इतः परं नव-  
दलं मायावीजं लिखित्य बाहौ धारणात् मृतवत्सा  
जीवत्वत्सा ॥ गोरोचनाकुंकुमेन सांलिख्य इत्तद्वृत्तेण  
संबोध्य गुटिकां पञ्चामृतैः पञ्चगव्यैः स्नापयित्वा ।  
प्रणवेन तु संमन्ध स्नापयेद्वन्धद्रव्यकैः । प्राणान्  
श्रतिष्ठाप्य देवतारूपां गुटिकां सम्पूज्य धारयेत् ।

तत्पश्चात् अष्टदल कर्णिकामध्यमें मायावीज लिखे और दल-  
मध्यमें दो दो मायावीज लिखे । एवं नवदलमें मायावीज लिख-  
कर और रक्त सूत्रसे लपेटकर गुटिकाको पञ्चामृत तथा पञ्च-  
गव्यसे स्नान कराकर प्रणवसे अभिसंन्नित कर पुनः गन्धद्र-  
व्योंसे स्नान करावे । प्राणप्रतिष्ठा करके देवतारूप गुटिकाका  
पूजन कर धारण करे ।

शिखस्नानम्—घृतेन सहुना वापि स्नापयेद्वन्ध-

कर्मणि । हुग्धादिना तथा देवि शान्तौ सृत्युज्जयेऽपि  
स्थ ॥ आकर्षणे तु मधुना भस्मना क्रूरकर्मणि ।

अब शिवस्नान कहाजाता है । वश्यकर्ममें घृत और मधुसे  
स्नान करावे, शांति तथा सृत्युज्जयजप कर्ममें हुग्धादिकसे  
स्नान करावे, आकर्षण कर्ममें मधुसे स्नान करावे, क्रूर कर्ममें  
भस्मसे स्नान करावे ।

अस्य परिक्षणम्—शततोलकमानेन द्रव्यमेतत्पूर्ण-  
कीर्तितम् । तन्मानं सम्बिदाच्छूर्णे नेवेद्यं च सुरेश्वरि ॥  
विल्वपत्रं तथा पुष्पं दद्यादप्तोत्तरं शतम् । शांतिकादौ  
द्वोणपुष्पं बर्वश चाभिचारके ॥ स्तम्भने मोहने चैव  
धूरं कनकाह्वयम् । विद्वेषोच्चाटने देवि विजयाप्य-  
पराजिता ॥ चतुर्दश्यां समारम्भ्य यावदन्या चतुर्दशी ॥  
एकैकं क्रमशो लिङं पूजयेद्भूलिभावतः । अष्टाधिक-  
सहस्रं तु जपं कुर्याद्विनोदिने ॥ सप्ताहे सप्त लिङ्गानि

( ९६ ) क्रियोङ्गीशः ।

पंचाहे वाथ पञ्चकम् । चण्डोग्येण विधानेन जपपूजा-  
दिक्षं समृतम् ॥ बटुकेन तु मंत्रेण मंजुघोषेण वा  
भिये । वैयम्बकेण देवोशि शान्तिके जपपूजनम् ॥  
तत्तत्कल्पविधानेन जपं पूजां समाचरेत् । जातिव्यंसे  
कुलोच्छेदे ज्वरादौ रोगरांकटे ॥ महाभये समुत्पन्ने  
सर्वाभिचारसम्भये । यत्नेन पूजयेदेवि लिङ्गमष्टोत्तरं  
शतम् । अतिरुद्रप्रयोगादौ रुद्राध्यायेन वा पुनः ॥  
नीलकृष्णेन वा देवि स्तवेन तोषयेच्छवम् ।

हे देवोशि ! अब रनान द्रव्यके तोलेका परिमाण कहाजाता  
है, सौ तोले परिमाण स्नानद्रव्य होना चाहिये । तत्परिमाणही  
नैवेद्य होना योग्य है । विल्वपत्र और पुष्प १०८ होना  
चाहिये । शान्ति आदिमें द्रोणपुष्प, अभिचार प्रयोगमें वर्षा  
पुष्प, स्तम्भन और मोहन कर्ममें धतूरेके पुष्प, विद्वेष और  
उद्घाटन कर्ममें विजया तथा अपराजिताके पुष्प होने योग्य  
हैं । एक पक्षकी चतुर्दशीमें प्रयोग आरम्भ करे और  
दूसरे पक्षकी चतुर्दशीमें प्रयोग समाप्त करे । क्रमानुसार  
भक्तिपूर्वक एक २ लिंगका पूजन करे प्रतिदिन अष्टोत्तर

भाषादीकासमेतः । ( २७ )

शत जप करे । सप्ताहमें सात और पञ्चाहमें पांच लिङ्गक पूजन करे । चण्डोग्र विधानपूर्वक जप पूजन करना चाहिये । हे मिथ्ये ! शुद्ध और साफ २ उच्चारण कियेहुए बटुक मन्त्र अथवा व्यस्त्रक मंत्रसे शांति कर्ममें जप और पूजन करे । तत्त्व कल्पानुसार पूजा जप करना योग्य है । जातिधर्मस, कुलोच्छेद, महाज्वर, संदद, भहाभयकी प्राप्ति, सर्वे प्रकारके अभिचार आदि प्रयोगमें यत्नपूर्वक अष्टोत्तर शत १०८ लिंगका पूजन करे । हे देवि ! रुद्राध्याय, अथवा नीलकण्ठस्तवसे स्तुतिकर श्रीशिवजी महाराजको प्रसन्न करे ।

स्तव—सर्वज्ञज्ञानविज्ञानप्रदानैक्यहात्मने । नमस्ते देवदेवेश सर्वभूतहिते रत । अनन्तकांतिसम्पन्न अनन्तासनंस्थित । अनन्त क्वान्तिसम्भोग परमेश नमोऽस्तु ते । परापरतरातीत उत्पत्तिरिथतिकारक । सर्वार्थसाधनोपाय विश्वेश्वर नमोऽस्तु ते । सर्वार्थनिर्मलाभोग सर्वव्याधिविनाशन । योगियोगी लक्ष्मीयोगी वोशीश्वर नमोऽस्तु ते । कृत्वा लिङ्गप-

तिष्ठात्वा ध्यात्वा देवं सदाशिवम् । पूजायित्वा विधा-  
नैन स्तवपाठमुदीरयेत् । लिंगस्तवं महापुण्यं यः  
शृणोति सदा नरः । नोत्पव्यते च संसारे स्थानं  
प्राप्नोति शाश्वतम् । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन शृणुयात्वा  
सुसंस्तवम् । पापकर्ता कल्पेसुक्तः प्राप्नोति परमं  
पदम् ।

अब स्तव कहाजाता है । हे सर्वज्ञ ! हे सर्वदेवेश ! हे सर्व-  
भूतहितेरत ! ज्ञान विज्ञान देनेवाले आपको नमस्कार है ।  
अनन्तकान्तिसम्पन्न ! हे अनन्तासनसंस्थित ! अनन्तकान्ति-  
सम्भोग ! परमेश्वर ! आपको नमस्कार है । हे परापर !  
परातीत ! हे उत्पत्तिस्थितिकारक ! हे सर्वार्थ साधनके उपाय !  
विशेषधर आपको नमस्कार है । हे सर्वार्थ निर्मलाभोग ! हे  
सर्वव्याधिविनाशन ! योगियोंके योगी, महायोगी ! योगीश्वर  
आपको नमस्कार है । लिंगकी प्रतिष्ठा और सदाशिवका ध्यान  
कर विधानपूर्वक पूजन कर इस स्तवका पाठ करे । यह लिंग-  
स्तव महापुण्यदायक है जो नर एव आचित्त हो इस स्तवका पाठ  
करते हैं फिर उनको इस संमारके दुःख नहीं भोगने पड़ते,  
किन्तु शाश्वत शिवलोकको प्राप्त होति हैं । इस कारण प्रयत्न-  
पूर्वक इस मनोहर स्तवराजका पाठ फरता और शदण पारंगो

भाषाटीकासमेतः । ( २९ )

अत्यावश्यक है क्योंकि महापापी मनुष्यभी इस संसारके हुःखों  
को तुणवत् त्यागकर परम पदको प्राप्त होजाता है ।

इति कियोङ्गीश महातंत्रराजे देवीश्वरसंवादे सप्तमः पटलः ॥७॥

अथ रुद्रकवचम् ।

भैरव उवाच--वक्ष्यामि देवि कवचं मंगलं प्राण-  
रक्षकम् । अहोरात्र महादेवरक्षार्थं देवमण्डितम् ॥  
अस्य श्रीमहादेवकवचस्य वासदेवऋषिः पंक्ति-  
शुचन्दः सौः बीजं रुद्रो देवता सर्वार्थसाधने विनि-  
योगः ।

भैरवजी कहनेलगे कि हे देवि ! मंगलरूप प्राणरक्षक रुद्रक-  
वचको कहता हूँ । यह कवच रात्रि दिन रक्षा करनेमें समर्थ है ।  
यह श्रीमहादेवजीकी रक्षाके लिये देववृन्दसे मण्डित है इस  
कवचका वामदेव ऋषि, पंक्ति छंद, सौः बीज, रुद्र देवता है ।

रुद्रो मामश्रुतः पातु पृष्ठतः पातु शंकरः ॥  
कपर्दी नक्षिणे पातु वामपार्थं तथा हरः ॥ १ ॥  
शिवः शिरसि मा पातु ललाटे नीललोहितः ॥ नेत्रं  
मे श्यम्बकः पातु बाहुयुग्मं लहेश्वरः ॥ २ ॥ हृदये

( ५० )

क्रियोहुतीशः ।

च महादेव ईश्वरं तथोदरे ॥ नाभौ कुक्षौ कटि-  
स्थाने पादौ पातु महेश्वरः ॥ ३ ॥ सर्वं रक्षतु  
भूतेशः सर्वगात्राणि से हरः ॥ पाञ्चं शूलञ्च  
दिव्यास्त्रं खड्गं वज्रं तथैव च ॥ ४ ॥ नमस्करोमि  
भूतेश रक्ष मां जगदीश्वर ॥ पापेभ्यो नरकेभ्यश्च  
त्राहि मां भक्तवत्सल ॥ ६ ॥ जन्मसृत्युजराच्याधि-  
कामक्रोधादपि प्रभो ॥ लोभमोहन्महादेव रक्ष मां  
त्रिद्वजेश्वर ॥ ६ ॥ त्वं गतिस्त्वं भूतिश्वैव त्वं भूमि-  
स्त्वं परायणः ॥ कायेन मनसा वाचा त्वयि भक्ति-  
द्वारास्तु से ॥ ७ ॥

मेरे अग्रभागमें रुद्रदेव मेरी रक्षा करें, मेरे पृष्ठभागमें शंकर देव  
मेरी रक्षा करें, कपदीं देव मेरे दक्षिण भागमें मेरी रक्षा करें, मेरे  
वामभागमें हर देव मेरी रक्षा करें, शिवजी महाराज मेरे शिरकी  
रक्षा करें, नीललोहित मेरे ललाटकी रक्षा करें, ऋष्यम्बक नेत्रकी रक्षा  
करें, महेश्वर दोनों वाहुकी रक्षा करें, मेरे हृदयकी महादेव रक्षा करें  
ईश्वर उदरकी रक्षाकरें नाभि, झुक्षि, कटि ( कमर ) हाथ पैरल्ही

महेश्वर रक्षा करें, सर्वथा भूतेश मेरी रक्षा करें, हरदेव समस्त गात्रकी  
रक्षा करें, हे भूतेश ! पाश, शूल, दिव्यास्थ, खड्ड, वज्र, आदिकी  
रक्षाकरो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, हे भक्तवत्सल ! पाप  
और नरकसे सदा मेरी रक्षा करो, हे प्रभो ! जन्म, मृत्यु, जरा,  
व्याधि, काम, क्रोधसे भी मेरी रक्षा करो हे त्रिदेशेश्वर ! लोभ  
मोहसे भी रक्षा करो, हे भगवन् ! आपही मति हैं आपही मति  
हैं, अपही भूमि हैं और आपही हमारे मुख्य आश्रय हैं । हे  
प्रभो ! मन, वचन, कायकरके मेरी भक्ति आपमें दृढ़ हो ॥ १-१७ ॥

**फलश्रुतिः—**इत्येतदुद्ग्रक्षवचं पाठनात्यापनाश-  
नम् । महादेवप्रसादेन भैरवेन च कीर्तितम् ॥ न  
तस्य पापं द्वेषेषु न भयं तस्य विद्यते । प्राप्नोति  
सुखमारोग्यं पुत्रमायुःप्रवर्द्धनम् ॥ पुत्रार्थी लभते  
पुत्रान्धनार्थी धनमाप्नुयात् । विद्यार्थी लभते विद्यां  
मोक्षार्थी मोक्षमेव च ॥ व्याधितो मुच्यते रोगाद्वद्धो  
मुच्येत बन्धनात् । ब्रह्महत्यादि पापं च पठनादेव  
नश्यति ।

( १२ )

कियोऽर्हीशः ।

अब कवचपाठका फल कहाजाता है इस रुद्रकवचके पाठ करनेसे पाप नष्ट होते हैं । श्रीमहादेवजीकी प्रसन्नताके लिये यह कवच श्रीभैरवजीने कहा है । इसके पाठ करनेवालोंका शरीर पांपोंसे स्वच्छ होजाता है जैसे कि मैलके कट जानेसे सुवर्ण स्वच्छ होत्ताता है, इसके पाठ करनेवालोंको कहीं किसी प्रकारका भय नहीं होता सुख और बारोग्यताको प्राप्त होता है, पुत्रार्थी युवको प्राप्त होता है, धनार्थी धनको प्राप्त होता है, विद्यार्थी विद्याको प्राप्त होता है, मोक्षार्थी मोक्षको प्राप्त होता है । रोगी रोगसे छूट जाता है, वन्धनग्रसित वन्धनसे छूटजाता है, विशेष वया इस कवचके पाठ करनेसे ब्रह्महत्यादिक पापभी नष्ट होजाते हैं ।

अथात्सनम् ।

एकं सिद्धासनं प्रोक्तं द्वितीयं क्लम्भासनम् ।  
 व्याप्राजिने सर्वसिद्धिर्वानसिद्धिर्वृग्माजिने । वस्त्रासनं  
 शोगहरं वेत्रजं प्रीतिवद्वेनम् । कौशेयं पुष्टिं प्रोक्तं  
 क्लम्भलं सर्वसिद्धिकम् ॥ शुक्लं वा यदि वा कूर्णं  
 विशेषाद्रक्षकम्बलम् । सेपासनं तु वङ्गार्थमाकृष्टौ

व्याघ्रचर्म च । शांतौ लृगाजिनं शहतं मोक्षार्थं  
व्याघ्रचर्म च । गोचर्म स्तम्भने देवि वाजं चोच्चाटने  
तथा । (विद्वेषे इवानचर्मं च) माशणे माहिषं चर्मं  
क्षमोद्दिष्टं समाचरेत् । सर्वकादार्थदं देवि पद्मवद्वासनं  
तथा । कुशासनं कृष्णलं वा लर्वकर्मसु पूजितय् ॥  
दुःखदारिद्वनाङ्गतु काष्ठपाषाणजाक्षनय् ।

अब आसनविधान कहाजाता है । पूजनकर्ममें एक सिद्धासन  
अथवा दूसरा कमलासन प्रशंसनीय है । व्याघ्रचर्मके आसनपर  
जप करनेसे सर्वसिद्धि प्राप्त होती है । सृगचर्मपर पूजन करनेसे  
ज्ञानप्राप्ति होती है । वस्त्रासनपर पूजन करनेसे रोग दूर होता  
है । वेत्रके आसनपर जप करनेसे प्रीतिकी वृद्धि होती है । कुशके  
आसनपर जप करनेसे पुष्टि प्राप्त होती है । कस्त्रलक्षे आसनपर  
जप करनेसे सर्वसिद्धि प्राप्त होती है । शुक्र अथवा कृष्ण इन  
दोनों प्रकारके कम्बलोंसे रक्त कम्बल श्रेष्ठ है । वश्यकर्ममें मेष  
आसन, आकर्षण कर्ममें व्याघ्रचर्मका आसन, स्तम्भनर्ममें गोच-  
र्मका आसन, उच्चाटनमें अश्वचर्मका आसन, विद्वेषणमें शान-  
चर्मका आसन, मारणकर्ममें महिषीके चर्मका आसन ग्रहण

( ३४ )

कियोङ्गीशः ।

करे । हे देवी ! रेशमीन वस्त्रका आसन सर्व कामनाओंका देने-  
बाला है । तुशासन वथवा कम्बलासन सर्व कर्मोंमें पूजनीय है ।  
काठ तथा पापाणका आसन दुःख और दारिद्र्यनाशक है ।

अथ होमघटादिस्थापनम् ।

नित्यं नैमित्तिकं कार्यं स्थण्डिले वा समाचरेत् ।  
हस्तमात्रेण तत्कुर्याद्वालुकाभिः सुक्ष्मोभनम् । तोय-  
पूर्णान्धटान्पञ्च स्थापयेत्परमेश्वरि । एकेन सञ्चयु-  
ज्ञेन रथापिता रथुः सप्तष्टीवः । अज्ञात्कौ च महादेवि  
एकेकेन च वाससा । कदाचिदपि चेकेन सर्वान्ना-  
च्छादयेच्छिवे । अनाच्छादिततोषानि रथापयित्वा  
त्रजत्यधः ।

अब होमघटादिकका स्थापन कहाजाता है । हे परमेश्वरि !  
नित्य तथा नैमित्तिक कर्म समाप्तकर पुनः हस्तमात्र वालुकासे  
स्क्षमोभित स्थण्डिल निर्माण कर उसके ऊपर जलसे भरे पांच घट  
धारित करे, एक मध्यवा दो मंत्रोंसे आभिमंत्रित कर उक्त पांच

कलशोंके मध्यमें पंचपलुत्र प्रवेश करे, हे महादेव ! यदि पृथक्करे कलशके आच्छादनार्थ वस्त्राची आकृति न हो तो एकही वस्त्रसे पांचों कलशोंको लपेटदे वर्याँके स्थापित जलको आच्छादन न करनेसे स्थापनकर्ता अधोगतिको प्राप्त होताहै ।

ततः स्थां स्थीं इति श्रीभिति मन्त्रेण घटं स्थिरी-  
कृत्य । क्लीं इति घटप्रोक्षणम् ॥ क्राभिति घटाभि-  
मन्त्रणम् । हीं इत्यारोपणम् । हीं जलेन पूरणम् ।  
ततः कृताञ्जलिः पठेत् ।

त नन्तर स्थां स्थीं इन बीजमन्त्रोंसे और श्रीं इस मन्त्रसे घटको स्थिर कर छीं इस बीजमन्त्रसे घटको प्रोक्षण करे । क्रां इस बीजमन्त्रसे घटको अभिमंत्रित कर हीं इस बीजमन्त्रसे घटको स्थापन करे । पुनः हीं भंग्रसे जलसे पूर्ण करे फिर अंजलि वांधकर मार्यनामंत्र पढ़े ।

गंगाद्याः सरितः सर्वाः समुद्राश्च सरासि च । सर्वे  
समुद्राः सरितः सरासि जलदा नदाः ॥ हृदाः प्रस-  
वणाः पुण्याः स्वर्गपातालभूगताः । सर्वतीर्थार्णि  
पुण्यानि घटे कुर्वन्तु सान्निधियः ॥

( ३६ )

कियोद्दीशः ।

ततः श्रीमिति पल्लवम्, हुमिति फलम्, रमिति सिन्धूरम्, धमिति पुण्पम् मूर्लेन, दूर्वाम्, ओं ओं ओं इत्यभ्युक्त्वा अँ फटू स्वाहा इति कुरुन ताडनम् । शान्त्यर्थं स्नापयेत्कुम्भम् ।

पुण्याहं वाचयित्वा कर्म कुर्यात् दिग्बन्धनादि गणेशग्रहदिवपालादीन्प्रतिकुण्डे पूजयेत् । स्थणिडले पूजयेलिङ्गं सर्वापत्तिविनाशनम् । कुम्भे चापि पूजयेत् । ततः अग्निमानीष संस्कृत्य द्वोमं कुर्यात् ।

हे घट ! गंगा आदि नदियाँ, चारों समुद्र, तालाव, शेष समुद्र क्षीरसागर आदि, सरितांयं, छोटी छोटी नदी, नाले, पक्के तालाव झरने, स्वर्ग, पाताल और मर्त्यलोकके समस्त वावडी आदिजलस्थान, समस्त काशी आदि पुण्यक्षेत्र तुम्हारेमें आकर वास करे ।

पुनः श्री वीजसे पश्चपल्लव स्थापन करे । हूं इस वीजमंत्रसे घटके भीतर फलस्थापन करे । रं इम वीजमंत्रसे घटके ऊपर सिन्धूर घटावे । वं वीजमंत्र उच्चारण कर पुण्प चढावे । मूलगन्त्रसे दूर्वा

चद्वावे । अँ अँ अँ इन तीन प्रणवोंको उच्चारण कर अभ्यु-  
क्षण करे । अँ फट् इस वीजमंत्रको पढ़कर कुम्हारे घटको ता-  
डन करे । शान्तिके लिये कुम्हस्को स्नान करावे । पुण्याहवा-  
चन कर दिग्बन्धनादि कर्म करे । गणेश, ग्रह, दिवपालादि-  
कोंकी प्रीतिके वर्य कुंभमें पृजन करे स्थंडिलगं लिंगका पृजन  
करनेसे सर्व प्रकारकी आपत्तियाँ दूर रहती हैं । कुंभमें भी पृजन  
करना चाहिये फिर अग्निको ताप्रपात्र द्वारा लाकर संस्कार  
कर हवन करे ।

महाविपत्तौ जुहुयात् जवा कृष्णपराजिताम् ।  
द्रोणं वा करवीरं वा मनोऽभीष्टफलं लभेत् ॥ कर-  
वीरैः श्वेतरत्तेः रक्तचन्दनमिश्रितैः । द्राणेश्व केत-  
कीपुष्पैः होमो रोगं विमोचयेत् ॥ चम्पकैः श्वेत-  
पद्मैश्व कोकनदं च वन्धुकम् । विलवपत्रं कुरुवकं  
मुनिपुष्पं च केसरम् ॥ हुत्वा यदि महादेवि अवश्यं  
पुत्रवान्भवेत् । रक्तोत्पलं विलवपत्रं काञ्चनं रक्तव-  
र्णकम् ॥ शान्तिमंत्रविं चापि शतसंख्याक्रमेण  
लू । जुहुयात् महेशानि सर्वासिद्धिर्भवेत्तदा ।

( ३८ )

क्रियोहीशः ।

महाविपत्तिमें जवाकुसुम, तथा विष्णुक्रान्ताके पुष्पसे हवन करे । मनवांछितकी प्राप्तिके लिये द्रोणपुष्प, तथा कनेरके पुष्पोंसे हवन करे । वा श्वेत, अथवा रक्तचन्दनमिथ्र कनेरके पुष्पोंसे हवन करे, रोग शान्तिके अर्थ द्रोणपुष्प अथवा केत-कीके पुष्पोंसे हवन करे । पुत्रप्राप्तिके अर्थ चंपाके पुष्प, श्वेत पद्म, कोकनद, कन्दूरीके पुष्प; विल्वपत्र, कुरुवक, अगस्तवृ-क्षके पुष्प केशरसे हवन करे । सर्व सिद्धिके अर्थ रक्तकमल, विल्वपत्र धनुरोके पुष्पोंसे हवन करे । परन्तु एकही शांतिमंत्रसे अष्टोत्तर शत १०८ वार हवन करना चाहिये ।

इति क्रियोहीशे महातंत्रराजे देवी श्वरसंघादे नवमः पटलः ॥ ९ ॥

अथ शाक्ताभिषेकः ।

शाक्ताभिषेको वन्ध्यासृतवत्सारोगिणीनां शान्ति-करः । धनकीर्त्यार्थुवृद्धिसौभाग्यजननः सर्वाशापूर्णो मन्त्रदोषनिवारणोऽभिचारहरी ग्रहदोषनाशनः सर्वसिद्धिशदोऽभिषेकः ॥

अब शाक्ताभिषेक कहाजाता है । यह शाक्ताभिषेक वंध्या, सृतवत्सा रोगिणी स्त्रियोंको शांतिप्रदान करनेवाला है । धन, कीर्ति, आयुवृद्धि करनेवाला है । सर्वपूर्ण आशा पूर्ण करनेवाला है । मन्त्रदोष निवारक है । अभिचार और ग्रहदोष दूर कर सर्व सिद्धि प्रदान करता है ।

मापादीकासमेतः ।

( ३९ )

अथ नयनरञ्जनम् ।

दीपं कूत्वा ताम्रपात्रे कज्जलं पातयेदथ । गवां ..  
घृतेन चालोडय चक्षुपी अथ रञ्जयेत् । पूर्वे च  
यादृशं हृष्टं तादृशं च प्रपश्यति ।

दीपक जलाकर ताम्रके पात्रमें कज्जल पांडे, फिर उसी  
कज्जलको घृतमें मथकर नेत्रोंको आंजे, जैसा कि पूर्वमें देखा  
था वैसा ही देख सकता है ।

प्रकारात्तरे—रक्तचन्दनसंयोगान्मधुना सह रोदुके।  
किञ्चृष्टप्रज्ञनञ्च तिमिरं हन्ति सुन्दरि ।

अंजनका द्वितीय प्रकार रक्तचन्दन और शहतको मिला-  
कर धूपमें सुखाले पुनः नेत्रोंमें आंजे तो रत्ताधी दूर हो ।

अथान्यः—पुनर्नवाघृतं सद्यश्वशुत्तेजः करं  
भवेत् ।

पुनर्नवामें रिच्छकिया हुआ घृत शीघ्र नेत्रकान्ति बढ़ानेवाला है ।

अथ ज्वरहरणम् । अपासागस्य सूलं च कल्प-

( ४० )

क्रियाहुर्शः ।

क्षासूत्रवन्धने । रूवात्या तथा वैष्णवे च ज्वरं हान्ति  
सुदारुणम् ।

ज्वरहरण चिकित्सा कही जाती है । अपामार्गकी जड़को कुमारी कन्याके हाथसे कते सूत्रमें बांधकर स्वाती अथवा विष्णु नक्षत्रमें यदि शिरोभागमें धारण करें तो सहसा ज्वर दूर हो ।

अथ सर्वज्वरनिवारणम् । रक्तवाटया मूलमर्क्ख-  
वारे कद्लीसूत्रैः शश्यायां दापयेत् सर्वज्वरं तापज्वर  
हरेत् ।

अब सर्वज्वर शान्ति प्रकार कहा जाता है । लाल वाडीकी जड़को मंगलवारके दिन केलेके सूत्रमें लपेटकर यदि शश्याके एकदेश ( पायेमें ) बांधे तो तापज्वर आदि सर्व प्रकारके ज्वर शांत हों ।

अथोदररोगप्रशासनम्—नागेश्वरमूलं मधुना सह  
पानादुदररोगशांतिः ।

उदररोग शान्ति कही जाती है । नागेश्वरकी जड़को सहतमें मिलाकर पान करनेसे उदररोगशांत होता है ।

अथ तृष्णानाशः—रक्तचन्द्रं धर्षित्वा  
तोलकं जलसंमिश्रं वाप्त्वस्ते गृहीत्वा यदुम्

घोत्तरशतं संज्यप्य एवित् । सप्ताहात्तस्य तृष्णा-  
नाशो भविष्यति ।

अब तृष्णानाशप्रकार कहाजाताहै । रक्तचंदनको पानीमें  
धिस कर और एक तोला मात्र पानी मिलाकर वांये हाथमें लेकर  
१०८ बार अगाड़ी कहे मंत्रका जप कर अभिमन्त्रित कर पान  
करे एक सप्ताहके बीच तृष्णानाशांति होगी ।

मन्त्रस्तु—शब्दवीजद्वयं भद्रे नाशयद्वितयं वदेत् ।  
तृष्णेति पदसुचार्यं ततः खाहा मनुर्मतः । अनेन  
मनुना देवि तृष्णानाशो भविष्यति ।

हे भद्रे ! अब मंत्रोद्धार कहाजाता है । दो शब्दवीज दोघार  
नाशयपद, तृष्णापद स्वाहापद इनको जोड़ देनेसे मंत्रोद्धार होता  
है, हे देवि ! इस मन्त्रसे पान करनेसे तृष्णानाश होती है ।

अथ सर्वोपच्छान्तिकरं महास्वस्त्वयनम् ।

अथ वक्ष्ये महेशानि महास्वस्त्वयनं शृणु । सर्व-  
सिद्धिकरं पुण्यं सर्वपापविनाशनम् ॥ सर्वोपद्रवशमनं  
सर्वारिष्टविनाशनम् । महाव्याधिप्रशामनमपरमार-

( ४२ )

क्रियोहीशः ।

विनाशनम् ॥ योगिनीभूतवेताल्यः प्रेतकूण्डमाण्डप-  
द्वजाः । तत्र स्थाने न तिष्ठन्ति द्वाक्षिन्याद्या विशेषतः ।

हे महेशानि ! अब सम्पूर्ण आपत्ति दूरकर ज्ञानितप्रदान करने वाला स्वस्त्ययन कहा जाता है । हे देवि ! ज्ञानितप्रद महास्वस्त्ययन श्रवणकरो ( सुनो ) इस स्वस्त्ययनके पाठ करनेही मात्रसे सर्वसिद्धि प्राप्त होती है । यह परम पवित्र और सम्पूर्ण पापनाश करनेवाला है । यह सम्पूर्ण उपद्रव और सम्पूर्ण अरिष्ट विनाशक है इसके उचारण करनेसे महाव्याधि और अपरमार ( सृगी ) दूर रहते हैं । योगिनी, भूत, वेताल, प्रेत, कूण्डमाण्ड, पद्मगादि कदापि उस स्थानमें नहीं वास करते जिस स्थानमें निरन्तर इस महास्वस्त्ययनवा पाठ होता रहता है ।

कृत्यामभ्यच्चर्येदेवि यथाविधिपुरःसरम् । पोड-  
शारं लिखेत्पद्मं योनियुग्मं सविन्दुकम् ॥ तन्मध्येऽ-  
ष्टुदुलं लिख्य यक्षागदीन्यसेत्कमात् । तन्मध्ये वैव  
पद्मकोणं लिखेन्द्रुलमनुस्मरन् ॥ चन्द्राविष्वं लिखे-  
न्नमध्ये लसाध्ये पार्थिवं शिवम् । तस्य भूध्ये न्यसेत्

कुंभं गरु लग्नामभूपितम् । तस्य मध्ये न्यसेत् कृत्या  
सर्वलक्षणसंयुताद् । पूजयेच्च यथान्यासं पायसन्तु  
निवेदयेत् ॥ परितोष्य घटे न्यस्य असितांगा-  
दिभैरुखान् । गन्धपुष्पादिनाभ्यच्चर्य तद्वाही  
क्षेत्रपालकान् । लोकपालं यजेदेवि तदये होम-  
माचरेत् । जुहुयादाज्यापामार्गेण रक्षतां भिद-  
मष्णो ॥ द्वौर्यग्रसदिराश्वत्थं प्रत्येकन्तु शता-  
दिकम् । कुण्डे वा स्थणिडले वापि होमकर्म समा-  
चरेत् । तस्य दक्षिणपार्श्वे तु लक्ष्मीं ध्यायेद्यथाविधि।  
कुण्डमध्ये न्यसेद्वीर्णि दक्षिणे च श्रियं स्मरेत् ॥ वाम-  
पार्श्वे स्मरेद्वीर्णि हृष्टेतां परमेश्वरस्मि । तस्यैव वाम-  
पार्श्वे तु पूजयेदशनायकम् ॥ अयुतं शूलसंबन्ध जपे-  
न्मृत्युविनाशनम् । अयुतं शूणहत्यायां जपेत् परि-  
माणं विद्वः ॥ महाव्याधिमश्मनं तावजप्त्वाभिषेकतः ।

एवं यः कुरुते मर्त्यः पुण्यां गतिस्वामुयात् ॥ तस्या-  
वश्यं न विद्येत व्याधिभ्योऽपि भयव्याहि ।

हे देवि ! यथाविधान कृत्या देवीका पूजनकरे । पोङ्शा दल  
कमल लिख सविन्दु चोनियुग्म लिखै । उस चोनियुग्मके मध्यमें  
अष्टदल कमल लिख क्रमानुसार यकारादिक लिख उसके मध्यमें  
पट्कोण यन्त्र लिख मन्त्रका ध्यान करे । मध्यमें चन्द्रबीम्ब  
लिखे अशक्तिमें पार्थिव शिव लिंगही, स्थापन करदे ॥ उसके  
मध्यमें कुम्भ स्थापन कर कंठदेशमें पुष्पमालासे विभूषित करे ।  
कलशके ऊपर कृत्या देवीको स्थापन करे जो कि सर्वलक्षणयुक्त  
है । यथान्यास पूजन कर पायस प्रदान करे । घटके ऊपर  
न्यासकर असितांग (उज्ज्वल वण) भरवका ध्यान कर । गन्ध-  
पुष्पादि प्रदानकर वाह्य प्रदेशमें क्षेत्रपालका पूजन करे । अग्र  
भागमें लोकपालोंको पूजन कर हवन करे । उसक दक्षिण भागमें  
यथाविधान लक्ष्मीजीका ध्यान करे । कुण्डके मध्यमें देवीजीको  
स्थापन कर दक्षिणभागमें श्रीका ध्यान करे । हृदयमें स्थित  
देवीजीका वास भागमें ध्यान करे । उसीके वासभागमें दशना-  
यकोंका पूजन करे । मृत्यु विनाशक मूल १०००० जप करे ।  
झूणहत्या दोपकी नवृत्तिके अथ भी १०००० ही जप  
करे । महाव्याधिकी शांतिके अथ १०००० जप कर अभिषेक

करे । इस प्रकार करनेसे उत्तम गति प्राप्त होतीहै । जप करनेवालेको व्याधियोंसे भय नहीं होता ।

इति श्रीक्रियोहुई महातंत्रराजे देवीश्वरसंवादे दशमःपटलः ॥१॥

---

अथ कुमार्यवेशनम् ।

श्रीईश्वर उवाच—अथ वक्ष्यामि संक्षेपात् कुमार्यवेशनं शृणु । कुण्डले विजने देशे गोमयेनोपलेपिते ॥  
 आचार्यः प्रयतो भूत्वा कुस्त्नातो विजितेन्द्रियः ।  
 नवकुम्भान् समादाय शुद्धकुम्भेन पूरयेत् ॥ नवं  
 शरावमानीय कपिलाघृतपूरितम् । कुम्भोपरि समारोप्य दीपं प्रज्वालयेत्ततः ॥ शताष्टमन्त्रजापेन कुमारा  
 वा कुमारिकाः । अतीतानागतञ्चैव वर्तमानं च यद्भवेत् ॥ शुभाशुभानि सर्वाणि पश्यन्ति नात्र संशयः ।  
 सम्यग्ध्यात्वा गणेशानं गते याये जपेन्निश्च ॥ शुभा-  
 शुभानि कर्माणि कथयन्ति न संशयः । कन्यकार्थी

( ४६ )

क्रियोङ्गीशः ।

शुचिभूत्वा सन्त्रसाजं गणेशितुः ॥ जप्त्वा दृशसह-  
स्थाणि भासुरतोऽवभावजैः । पुष्टैर्देशांशाहवनात् ता-  
कन्थां लभते ध्रुवम् ।

श्रीशिवजी कहने लगे । हे देवि ! अब संक्षेपसे कुमारी आवेशन कहाजाता है सुनो । सुगुप्त (अच्छे प्रकार रक्षा कियाहुआ) एकान्त स्थानको गोवरसे लीपकर आचार्य । उक्त नियमानुसार स्नान करे और जितेन्द्रिय रहे । पुनः नवीन कुंभको शुद्ध जलसे पूर्ण कर स्थापन करे और उसी घटके ऊपर नई सराईमें कपिला गौके घृतसे दीपकको प्रज्वलित कर स्थापन कर १०८ बार मन्त्रका जप करे । यदि जपके समय कुमार अथवा कुमारी दोनोंमेंसे एक अथवा दोनोंही स्वयं पूजा स्थानमें आकर उपस्थित हों तो यथाविधान उनका पूजन करे । पूजनके करनेसे और उनके प्रसादसे वीतेहुये अथवा आनेवाले और वर्तमान शुभाशुभ समस्तही स्वयं दृष्टि पड़ेंगे इसमें किसी प्रकारका संदह नहीं है । तत्पश्चात् भले प्रकार गणेशजीका ध्यान कर एक प्रहर रात्रि वीते जप कर्ममें रह हो, इस विधानके करनेसे देवता प्रसन्नहो स्वयं सन्सुख आकर समस्त शुभ अशुभ जैसा होना है कहेगा । परन्तु देवताके रूपको देखकर डरना मत देवता

मारता नहीं है । कन्याधीं पुरुषको योग्य है कि पवित्र हीं  
गणेश मन्त्र जपै, मन्त्र जपनेके पश्चात् सूर्यमुखीके पुष्पोंसे  
दशांश हवन करे तो अवश्य उस कन्याको प्राप्त होय ।  
अथ काम्यकर्माणि ।

वक्ष्यामि काम्यकर्माणि साधकानां हिताय वै ।  
शास्त्रोक्तेनैव मन्त्रेण संक्षेपान्न तु विस्तरात् ॥

अब साधक लोगोंके हितार्थ काम्य कर्म कहेजाते हैं,  
शास्त्रोक्त मंत्रहीसे संक्षेपपूर्वक कर्म करे विस्तरपूर्वक नहीं ।

अथ दिव्यज्ञानादिलाभः ।

स्वहृत्पद्मे गणेशानं कुन्देन्दुध्वलप्रभम् ।  
शुच्छालंकारस्त्वपन्नं भावयेद्यो निरन्तरम् ॥  
भारती तस्य वक्त्रावजे शास्त्रज्ञा वहुसुन्दरी ।  
नित्यं प्रकाशते सत्यं दिव्यज्ञानप्रदायिनी ।

अब दिव्य ज्ञानादि लाभ प्रकार कहाजाता है । जो मनुष्य  
निरंतर निज हृदयकमलमें कुन्देन्दु ध्वल कांतिवाले और श्वेत  
आभूषणोंसे सुशोभित श्रीगणेशजी महाराजज्ञा ध्यान करते हैं  
उन मनुष्योंकी रसना (जीध) के ऊपर मनोहर रूप धारण  
करनेवाली और अनेक शास्त्रोंके ज्ञानसे प्रकाशवाली सरस्वतीजी  
वास करती हैं ।

(४८)

क्रियोहीशः ।

अथ वशीकरणम् ।

न विनश्येद् गणेशानं सिन्दूरसहशप्रभम् ।  
पाशांकुशधरं ध्यात्वा योजपेन्मंत्रिसत्तमः ॥  
अनंगवशस्थपन्ना तमस्येति वर्णगना ।

अथ वशीकरणम् । सिन्दूरके समान है कांति जिनकी ऐसे पाश और अंकुशधारण करनेवाले गणेशजी महाराजका जो साधकलोग ध्यानकर पूजन करते हैं और मंत्रका जप करते हैं ऐसे साधकोंके सर्वीप अवश्य काममोहित सुन्दरी अंगना स्वयं सेवार्थ आती है ।

प्रकारान्तरं-पाशांकुशवशभीतिं हिष्कुन्देन्दु-  
मलिभस् । दिग्ब्रह्मं चन्द्रवर्णाभं सुखस्माणिवय-  
मण्डलम् ॥ यः त्वरेत्तस्य वशगा ह्यवश्यापि  
वरांगना ।

प्रकरांतर कहाजाता है । पाश, अंकुश, वर, अभय धारण करनेवाले, कुन्दके फूलके सदृश कांतिवाल, चन्द्रके तुल्य कांति-वाले, सुखन मणियोंके मण्डलसे सुशोभित ऐसे दिग्भवर सदा-जिवका ध्यान करनेमें जो नहीं प्राप्त हो सकती है अवश्य ऐसी मनोहारिणी प्रिया स्वयं आ अपनेहो प्रदान करे । अर्थात् वशम् होंग ।

अथ सुखस्तम्भनम्—विवादेषु गणेशानं ज्वल-  
दग्धिसमप्रभम् । प्रतिवाद्विमुखे ध्यायन्प्रजपेन्म-  
नसा मनुष् । तन्मुखं स्तंभयेदाग्नु वादी हीनोऽपि  
नान्यथा ।

अथ सुखस्तम्भन कहाजाता है । जलती हुई आगिके तुर्लय  
कांतिवाले गणेशजीका ध्यान कर यदि विवादविपयमें वादीके  
सम्मुख मंत्राजका जप करे तो अवश्य वादीके सुखका स्तम्भन  
हो और वादी दीनवत् व्यवहार करे ।

अथ सर्वरोगहरणम् । अंगुष्ठमानं हृत्पद्मे शुद्ध-  
स्फटिकसन्निभम् । चिन्तयित्वा गणेशानं चिदबर-  
सुधारसम् । अभिषिद्य सुरश्रेष्ठं सततं धरणीतले ।  
सर्वरोगविनिर्भुत्तश्चिरकालं स जीवति ।

अब सर्वरोग हरण प्रकार कहाजाता है । शुद्धस्फटिकके तुर्लय  
उज्ज्वल, चेतना स्वरूप, अमृत रसपूर्ण, अंगुष्ठमात्र देहधारी  
श्रीगणेशजीका जो मनुष्य निज हृदयकमलमें ध्यान कर निरन्तर  
पृथिवीतलमें अभिषेक करते हैं वह लोग सर्व प्रकारके रोगोंसे  
मुक्ति भी करते हैं । और चिरकालंतक जीवनसुख भोगते हैं ।

( ५० )

क्रियोङ्गीशः ।

अथ विषहरणम् । शुक्लवर्णं गणेशानं दशबाहुं  
मदोत्कटम् । शुक्लवरधरं सौभ्यं चिंच्छशांकासृत-  
प्लुतम् ॥ भावयेद्वद्याम्भोजे नित्यं निर्मलमानसः ।  
मंत्री गरुडवत् सद्यास्त्रिविधं हरते विपष् ॥

अब त्रिविध विषहरण प्रकार कहाजाता है । शुक्लवर्ण, दश-  
भुज, मदोत्कट, शुक्लवर्ष धारण करनेवाले, सौभ्य, चन्द्र असृ-  
तसे प्लुत ऐसे गणेशजीकों जो मंत्रीलोग शुद्धचित्तसे निज  
हृदयकमलमें ध्यान करते हैं वह मंत्री लोग तीन प्रकारका विष-  
हरण करनेमें गरुडवत् समर्थ होते हैं ।

अथ नानाविधकार्याणि-धनार्थी सधुना नित्यं  
वशार्थी पायसैर्हुनेत् । वृत्तेन लक्ष्मीसंप्राप्त्यै हुनेत्  
शर्करया तथा ॥ आयुषे चार्थसंपत्तौ दध्ना च ऊहुया-  
त्तथा । अन्नेन चान्नसंपत्त्यै द्रव्याप्त्यै तिलतण्डुलैः ॥  
लवणैरप्यनावृष्टयै वृष्टिकामस्तु वित्यकैः । सौभा-  
ग्यार्थी तथा लाजैः कुसुर्मैश्चापि सोदृनैः ॥

अब नानाविध कार्य विधान कहा जाता है । धनार्थीं सहस्रे हवन करे, वद्यार्थीं पायस ( स्वीर ) से हवन करे, लक्ष्मीप्राप्ति के अर्थ घृत शर्करासे हवन करे, आयु अथवा अर्धसम्पत्ति के लिये दधिसे हवन करे, अन्न प्राप्ति के लिये अन्नसे हवन करे, द्रव्य प्राप्ति के लिये तिल और तफ्तुलसे हवन करे, अनावृष्टि के अर्थ लवणसे हवन करे, वृष्टिकामना के अर्थ वेलसे हवन करे, सौभाग्यवृद्धिके लिये लाजा होम करे अथवा ओदन ( भात ) मिश्रित फूलोंसे हवन करे ।

अथ विविधवशीकरण ॥ नि—वाश्निने जुहुयात् पद्मै  
राजानं वज्ञमानयेत् । अङ्गवत्योदुंबसपुक्षन्यग्रोधस-  
मिधो हुनेत् ॥ विप्रक्षत्रियविद्गृहाः सद्यो वद्या  
भवन्ति वै ।

अब विविधवशीकरण प्रकार कहा जाता है । वद्य कर्ममें कम-  
लदलसे हवन करे इस प्रकार हवन करनेसे राजाभी वश्य हो सकता  
है । वश्वत्य, उदुम्बर, पिलखन, न्यग्रोधकी समिधाओंसे हवन  
करनेसे त्राण, क्षत्री, वैद्य, शूद्र सबही वश हो सकते हैं ।

अथ स्त्रीवशीकरणम्—स्त्रीणां प्रतिकृते कूतवा  
पिण्डेन प्रतिवासस्म् । साज्याहुतित्रयन्तस्य वज्ञमा-  
यान्ति नान्यथा ।

( ५२.)

क्रियोहुीशः ।

अब स्त्री वशीकरण प्रयोग कहाजाता है । प्रतिदिन पिष्ट ( पिट्ठी ) से स्त्रीके आकारकी प्रतिमा बनाये और तीन आज्य ( घृत ) की आहुति प्रदान करे तो अवश्य वशमें होंगे ।

प्रकारान्तरम् । मन्त्रराजं जपित्वा तु यथाविधि  
महोदरम् । दशांशे जुहुयान्मन्त्री राजिकालवणेन च ॥  
तद्भूम वायहस्तेन गृहीत्वा ताडयेत् स्त्रियम् ।  
समागच्छति सा नारी मदनानलविहृला ।

अब प्रकारान्तर कहाजाता है । मन्त्री यथाविधान श्रीमहाराज गणेशजीके महामन्त्रराजका जप कर राई और निमकसे दशांश हवन करे । तत्पश्चात् हवनकी भस्मको वाय हस्तमें लेकर साध्य स्त्रीके ऊपर प्रक्षेप करे, इस प्रयोगके करनेसे अवश्य साध्य स्त्री कामदेवसे विहृल होकर साधकके समीप आवेगी ।

अथ रिपुस्तम्भनम्—तद्वच्च प्रजपेदेनं पीतपुष्पैश्च  
मन्त्रवित् । स्तम्भयेद्विपुस्तैन्यं च रामात्यबलवाह-  
नम् ॥ प्रतिवादी भवेन्मूको मन्त्रस्यास्थ प्रभावतः ॥

स्तम्भयेत् पञ्चद्रव्याणि नात्र कार्या विचारणा ।

अब रिपुस्तम्भन प्रयोग कहाजाता है । पूर्व प्रकारानुसार मन्त्रराजका जप कर पीत पुष्पोंसे इवनकरें । इस प्रयोगके करनेसे मंत्री सहित शत्रुके बल ( फौज ) का स्तम्भन होता है । इस मन्त्रराजके प्रतापसे वार्द्धका सुख बन्ट होजाता है वर्धात् जिहासे कहनेको समर्थ नहीं होसकता । इसमें किसी प्रकारका मन्देह नहीं कि इस प्रयोगके करनेसे पञ्चद्रव्योंका स्तम्भन होजाता है ।

अथ शत्रुचाटनम्—विभीतिकसमिद्धिस्तु नियतं जुहुयात्तथा । सम्यगुच्छाटयेच्छत्रून् स्वस्थानानु विशेषतः ॥ सेरुमण्डलतुल्यो वा स देवो-द्विमानसः । ग्रामयुद्धे पुरे वापि इमं स्तुत्वा तु होमयेत् । उच्चाटयति वेगेन मानुषेषु च का कथा ।

अब शत्रुचाटन प्रयोग कहाजाता है । शत्रु उच्चाटन प्रयोगमें वहेडेकी समिधाओंसे हवन बरं तो अवश्य शत्रुका उच्चाटन हो, विशेष क्या एकवारको मेरु पर्वतके तुल्य स्थिरचित्त पुरुषकाभी

उच्चाटन हो सकता है, ग्रामयुद्ध अथवा पुरयुद्धमें मन्त्रराजेका जप कर दर्शाऊ हवनकरे । इस प्रयोगके करनेसे जड़ पदार्थका भी उच्चाटन हो सकता है मनुष्योंका तो कहनाही क्या है ।

**अथ मारणम्—मानुषास्थि समानीय तत्त्व-  
गष्टांगुलीमितय् । सृतकेशैरत्तु संवेष्ट्य सहस्रा-  
ङ्गाभिमन्त्रितय् ॥ कुलिकोदयवेलायां शत्रुद्वारे खने-  
द्धुवि । सताहामरणं तत्त्वं भविष्यति न  
संशय ॥**

अब मारण प्रयोग कहाजाता है । आठ अंगुल प्रमाण मनु-  
ष्यकी अस्थिके कीलेको सृतक पुरुषके शिरके बालोंसे लपेटकर  
एक हजार आठ बार ( १००८ ) मन्त्रसे अभिमन्त्रितकर कुलिक  
योगके उदयमें शत्रुके द्वारपर पृथिवी खोदकर दाढ़वे तो अब-  
त्त्व शत्रु व्यक्तिका एक सप्ताहके मध्यमें मरण होय ।

**अथ गणेशयन्त्रम्—अतः परं यन्त्रराजं शूण-  
देवि गणेशितुः । सुतमे धूतले शुद्धे गजाद्यैः सुप-  
रिष्कृते ॥ काषकोधाचिनिर्मुक्तः पूर्ववृद्धासांख्यतः ।**

संपूज्य देवदेवेशं गणेशं शंकरात्मजम् ॥ भूर्जे  
 क्षौष्ये तस्योपरि यन्त्रराजं समुद्धरेत् । कस्तुरी-  
 रोचनायन्त्रकाइमीरं चल्दनं रसय् ॥ गोशकृदसंयु-  
 क्त्तमातंगमदमित्रितैः । सर्वेश शुसमैरोभिः  
 प्राणमापूर्य संलिखेत् ॥ लेखन्या हेमशूच्या वा  
 जातिकाष्ठेन दूर्वया । पट्टविशत्कोणमप्यारं  
 द्वादशारं ततः परम् ॥ कदर्गादीनि गायत्र्या वर्णा-  
 न्यपि लिखेद्वहिः । महाभूमण्डलं कुर्याद्जापक-  
 विभूषितम् ॥ तद्वाद्यं वारुणं कूर्ममण्डलञ्च नतं  
 शुभय् । कार्णिकायां लिखेन्मन्त्री हक्षौ प्रणववे-  
 षितौ ॥ अंगानि चापकोणेषु लक्ष्मीमनुदलं लिखेत् ।  
 द्वादशारे लिखेच्छक्तिं दिना नपुंसकस्वरम् ॥ स्वरपञ्च  
 कलापत्रे ततश्चाष्टदलाष्टुजे । कादिमन्ताक्षसञ्चापि  
 सर्वं पूर्वादितो लिखेत् ॥ उनः पार्श्वककोणेषु वादि  
 सान्तं समालिखेत् । एतन्मन्त्रं समाख्यातं न देयं

(५६)

क्रियोहुङ्गीशः ।

## यस्य कर्त्याचित् ॥ अणिमाद्यष्टमन्त्रेण चाष्टबाहुं प्रपूजयेत् ।

अब गणेश यन्त्र कहा जाता है । हे देवि ! अब श्रीगणेशी महाराजके यन्त्रको सुनो । गजादिकोंसे अच्छी तरह परिष्कृत, शुद्ध समान भाग पृथिवी तलमें, काम क्रोधको छोड़कर पूर्ववत् न्यासकरके देवदेवेश गणेशजीका पूजन करके, कैसे गणेशजीका शिवजीके पुत्र ऐसे, भूर्जपत्र अथवा रेशमीन वस्त्रके ऊपर कस्तूरी, गोरोचन, केशर, रक्तचंदन, मातंग (हाथीका) मद इत्यादि सुगंधित द्रव्योंको एकत्र कर गणेशजीका यन्त्र खींचे लेखनी स्वर्ण, चांदी अथवा जातिकाष वा दूर्वा हो, यन्त्रराज ३६ कोण, अष्ट अरा निर्मित तथा द्वादश अरा निर्मित हो, उसके बाहिर्भागमें गायत्रीके कवर्गादिकोंको बाहिर्भागमें लिखे, पिर गजाएकसे सुशोभित महाभूमंडलको सुशोभित कर भूषित करे । महा भूमंडलके बाहिर्भागमें नत वरुण देवके कूर्म-मण्डलको लिखे । साधकको योग्य है कि कमलदलकी कार्णि-काओंमें हकार क्षकार इन दो वर्णोंको लिखे, अष्टकोणमें अंग और लक्ष्मी मन्त्र दलोंमें लिखे, द्वादशार कमलमें शक्तिविजि लिखै नसुंसक स्वरके विना, कलापत्रमें स्वरपत्र लिखै । “पुनः” अष्टदल मध्यमें ककार आदि क्षकारांत वर्णोंको क्रमानुसार लिखै किर पार्श्वके कोणोंमें वकार आदि सकारांत वर्णोंको लिखै । यह इसप्रकार वर्णन कियाहुआ यन्त्रराज साध-

भाषादीक्षासमेतः । ( ५७ )

केके विना अन्यको देना उचित नहीं है । अणिमादि आठ मंत्रोंसे अष्टवाहुका पूजन करे ।

ॐ अणिमायै नमः स्वाहा । लं लक्ष्म्यै नमः ।  
घं व्याप्त्यै । प्रं प्राकाम्यायै । मं सहिमायै । हं  
ईशित्वायै । वं वशित्वायै । कं कामावशा॒यित्वायै  
नमः स्वाहा ।

यह अणिमादि अष्ट मंत्र हैं ।

एवं संपूर्ज्य विधिवन्मन्त्री मुनिगणान्यजेत् ।  
भोजयित्वा विधानेन नानामिष्टफलादिभिः ॥ दिव्य-  
गन्धयुतैः पुष्पैर्दिव्यगन्धप्रलेपनैः । मूषिकं पूज-  
यामास नानामिष्टफलादिभिः ॥ अँ समूषिकाय  
गणाधिपवाहनाय धर्मराजाय स्वाहा । इत्यन्तेव  
मन्त्रेण मूषिकं पूजयेत्ततः । एकदन्ताय विद्वहे  
बङ्गतुण्डाय धीमहि तन्मो दान्तिः प्रचोदयात् ।

मन्त्री इस प्रकार पूजनकर मुनियोंका पूजन करे और नाना-  
प्रकारके मिष्टान्न तथा फलादि द्वारा ब्राह्मणोंको भोजन करावै ।

( ६८ )

क्रियोडीशः ।

पुनः दिव्य गंध, पुष्प और दिव्य प्रकारके प्रलेपनादिकोंसे गणेशजीके धाहन सूषकराजका पूजन कर मिष्ठान्न और फला-दिकोंसे तृप्ति करे । यह मंत्र है । “ॐ समूषिकाय गणाधिपदा-हनाय धर्मराजाय स्वाहा” इसही मंत्रसे सूषिकराजका पूजन करे । यह सूषिक गायत्री मंत्र है । एकदंताय विज्ञहे वक्रतुं-डाय धीमहि तत्त्वो दंतिः प्रचोदयात् ।  
इति क्रियोडीशे महातंत्रराजे शिवगौरीसंवादे एकादशः पटलः ॥

अथ वशीकरणम्—पलार्द्धस्वर्णेन रजतेन वा साध्यस्य प्रतिमां कृत्वा सार्थहस्तं गते कृत्वा हरि-तालहरिद्राच्वर्णकं पलार्द्धं तत्र निःक्षिप्य रक्तासने तत्रोपविश्य चतुर्दिशु पताकां निवेश्य तिलपूर्णघट-मधः कृत्वा संस्थाप्य प्राणप्रतिष्ठां कृत्वा पूर्वस्यः प्रवालमालया दृश्याहस्तजपेन प्रयोगहीं भवेत् ।

अब वशीकरण प्रयोग कहाजाता है । प्रथम पलार्द्ध ( आधापल ) स्वर्ण अथवा चांदीकी साध्य ( जिसके ऊपर प्रयोग कियाजाय ) उसकी प्रतिमा बनावे । पुनः १ हाथ महरा पृथिवीमें गडडा खोदे उसमें महीन पिसाहुआ हलदी और छरतालका चर्ज बिछावे । साधक रक्त आसनके ऊपर बैठकर

चारों दिशा और धन्डा ( झंडी ) स्थापन कर तिलपूर्ण घटकी प्रणालीकर स्थापन करे और प्रवाल ( गुंगा ) मालासे मुशोभित करे । पुनः साधक पूर्वाभिमुख दशहजार जषकरे तब प्रयोगके योग्य हो ।

अथ सन्त्रम्-प्रणवं पूर्वमुच्चार्थं मायावीजं द्वितीयकम् । कात्वं त्वच्छाक्षिनीयुक्तं वामकर्णेन्दुभूषितम् । ततो मनुपदं दूयाच्चामुण्डे तदनन्तरम् । साध्यनाम ततो न्यस्य वज्ञमानय तत्परम् । वाह्निजायावधिर्भवं जपेदशंसहस्रकम् । अथात्यत् । चामुण्डे मोहय मोहय अमुकं वशमानय स्वाहा । प्रातः स्नात्वा हाविष्याशी जितेन्द्रियः शुचिर्भूत्वा प्रातःकालमारभ्य यध्यन्दिनावधिजपसमाप्तेदशांशादिकमेण होमादीश्वकारयेत् । जातीमुष्पैहौमेन वशयेन्नात्र संशयः । कामतुल्यश्च नारीणां रिपूर्णा शमनोपयः । यावज्जीवनपर्यन्तं स्मरणं च प्रजायते ।

प्रथम प्रणवका उचारण करे । द्वितीय बार मायावीजका ।

तीसरी बार 'कात्वं त्वलाकिनी' युक्त वाम कणी और इन्दुभूषित मत्तपदका उचारण करे । तत्पश्चात् चामुण्डे इस पदको मिश्रित कर साध्य व्यक्तिके नामकी भी योजना कर और वशमानय स्वाहा यह अन्तमें मिलादे । इस प्रकार दश हजार मंत्र जपे । दूसरा प्रकार । चामुण्डे मोहन्य मोहन्य अमुकं वशमानय स्वाहा । अथवा इस मंत्रका जापकरे प्रातःकाल स्नान कर, हविष्यान्नका भोजन करनेवाली जितेन्द्रिय साधक व्यक्ति शुद्धता और पवित्रतापूर्वक प्रातःकालसे लेकर मध्याह्नतक जापकर जापक्रमानुसार दशांश हवनादि करे । जातिपुष्ट्योंसे हवन करनेसे अवश्य साध्य व्यक्ति वश्य हो जायगी । और कामदेवके तुल्य मनोहर द्वियोंको प्यारी यमके समान असह्य शत्रुवर्गको जीवनं पर्यंत साधक व्यक्ति प्रतीत होगी ।

अन्यज्ञ । श्वेतापराजितासूलं पैषयेद्वोचनाषु-  
तम् । शतेन मन्त्रितं कृत्वा तिलकं कारयेत्ततः ।  
वशयेन्नात्र संदेहः ।

सफेद अपराजिताकी जड़को पीसकर और गोरोचन मिलाकर सौ बार मंत्रसे अभिमंत्रित कर निज मस्तकके ऊपर तिलक बरे तिलककी ओर देखने मात्रहीसे साध्यव्यक्ति अवश्य वश्य होगी ।

अथ राजवशीकरणम् । रक्तपुष्पेण चामुण्डा-  
पूजा । ध्यानम् । दंप्राकोटिविशंकटा सुवदना  
सान्द्रा कूकारे स्थिता सदांगासिनिगृहदाक्षिणकरा  
वामेन पाशाङुक्षा ॥ इयामा पिंगलमूर्द्धजा भय-  
करी शार्दूलचर्माङुता चामुण्डा शववाहिनी  
जपविधौ ध्येया सदा साधकैः । जप्त्वा किञ्चुककु-  
सुमैर्हुत्वा फलप्राप्तिः । आद्यन्ते महती पूजा । पञ्च-  
दिनप्रयोगेण राजानं वशमानयेत् ।

अब राजवशीकरण प्रयोग कहाजाता है । रक्तपुष्पोंसे चामुण्डा-  
का पूजन करे । यह ध्यान है दंप्राकोटिते विशंकट, मनोहर  
मुखसे सुशोभित, दक्षिण हस्तमें तरयार धारण करनेवाली वाम-  
हस्तमें पाश और अंकुश लिये, इयामवर्णवाली पिंगल चर्णवाले  
केशोंसे विभूषित शिरोभाग जिसका शब्द वर्गको भय देनेवाली  
शार्दूल चर्मसे आच्छादित शरीरवाली, शववाहिनी चामुण्डाका  
ध्यान करते हैं और इसी प्रकार जप कर्ममें सदा साधकोंको  
चामुण्डाका ध्यान बरना चाहिये । देस्तके फलोंसे कियाहुआ  
आवाहन फल प्रदान करनेमें समर्थ होता है । आदि अन्तमें

( ६२ ) कियोहुइः ।

वृहत् पूजा करनी चाहिये । पांच दिनके प्रयोगसे राजा वश्य होता है ।

प्रकारान्तरेण वशीकरणम्—मृगशीर्षे तु संग्राह्यं  
सुरक्तकर्वीरकम् । नवागुलं कीलकं तत्  
सप्तवाराभिमन्त्रितम् । यद्य नाम्ना खनेद्धूमो स  
वश्यो भवति ध्रुवम् । मन्त्रम् । ओं हुं हुं  
स्वाहा । तत्तत्त्वथाने यथासंख्यमनुके त्वयुतं  
जपेत् ।

अब प्रकारान्तरसे वशीकरण प्रयोग कहाजाता है । मृग-  
शिर नक्षत्रमें रक्त करवीरके काष्ठको लेकर उसमेंसे नौ अंगुल  
प्रमाण एक कील बनाकर सातवार मंत्रसे अभिमन्त्रित कर साध्य  
व्यक्तिका नाम उच्चारण कर पृथिवीमें खोदकर दाढ़ दे अवश्य  
साध्य व्यक्ति वश्य होगा । यह मंत्र है । ओं हुं हुं स्वाहा ।  
जिस प्रयोगमें जितना जप कहागया है उतनाही होना चाहिये ।  
जहाँ कुछभी नहीं कहा है वहाँ है दश हजार जाप करे ।

इति कियोहुइक्षे महातंत्रराजे गौरीधरसंवादे द्वादशःपदलः ॥

अथ विद्वेषणम्—गृहीत्वा शङ्खकीकण्ठं निखने-  
द्धूविदास्तः । कलहो जायते नित्यं शत्रोर्गेहे न  
संशयः । मन्त्रः । अँ नमोनारायणाय अमुकामु-  
केन सह विद्वेषं कुरुकुरु स्वाहा ।

अब विद्वेषण प्रयोग कहाजाता है । साहीके कांटेको जगाडी  
कहे हुए मंत्रसे अभिमंथित कर भूमिमें गाडदे अवश्य द्वैप भाव  
प्रकट होकर शत्रुओंमें कलह हो । यह मंत्र है । आँ नमो नारा-  
यणाय अमुकामुकेन सह विद्वेषं कुरु कुरु स्वाहा ।

अथान्यत्—परस्परं रिषेवैरं मित्रेण सह  
निश्चितम् । महिषाशुरीषाभ्यां गोमूत्रेण  
समालिखेत् । घयोर्नाम तयोः शीघ्रं विद्वेषश्च  
परस्परम् ॥

विद्वेषका दूसरा प्रकार कहाजाताहै । महिष, अथ इन  
दोनोंके पुरीपक्षों गोमूत्रसे मिथित कर जिनका परस्परमें भारी  
मेलबाले मित्रोंका नाम लिखे तो बहुत शीघ्र उन बहुत दिनोंके  
मिलनेवालोंका अवश्य आपसमें विद्वेष भाव होजावे ।

( ६६ )

क्रियोङ्गीशः ।

आकाशके तुल्य नीलवर्णवाली, महाचण्डा, सुर और असु-  
रोंको विमर्दन करनेवाली, तीन नेत्रवाली, महाशब्द करनेवाली  
सर्व आभूषणोंसे भूषित, कपाल और कर्तृका हाथमें लिये चन्द्र  
स्तर्यके ऊपर स्थित शर समृद्ध धारण करनेवाली प्रेत तथा भैर-  
वसे वेष्टित, पिण्डकाननमें वास करनेवाली, समस्त सिद्धियाँ देने-  
वाली, ऐसी कालिका देवीकी तृप्तिके अर्थ विविध पुण्य, छाग-  
वालि इत्यादिसे हवन करे और भक्तियुक्त चित्तसे महेशानीका  
पूजन करे । पुनः हवनकी भस्मको मन्त्रसे अभिमांत्रितकर छला-  
हमें धारण करे अवश्य शत्रुका विद्वेषभाव उत्पन्न हो ।

बन्त्र-ओं द्रीं विद्वेषिणि असुकासुक्षयोः परत्पर-  
योविद्वेषणे दुरुदुरु रुपाहा ।

यही विद्वेषण मन्त्र है ।

अथोच्चाटनम् । सौरारयोर्दिने ग्राह्यं नरास्थि  
चतुर्गुलम् । निशावसाने संलिख्य प्रधान-  
भवनं क्षिपेत् ॥ सप्ताहाऽभ्यन्तरे शत्रोराश्च

चोच्चाटनस्थवेत् ॥ द्रूं असुकस्योच्चाटनं कुरुकुरु  
स्वाहा । द्रूं असुकं हनहन स्वाहा ।

जनि वा मंगलवारको चार अंगुल प्रमाण मनुष्यके अस्थिके  
ऊपर मन्त्र लिखकर रात्रिके अन्तमें शब्दके स्थानमें मध्यमे फेंक  
दे तो अवश्य एक सप्ताहके बीच शत्रुका उच्चाटन हो । द्रूं असु-  
कस्योच्चाटनं कुरु कुरु स्वाहा । द्रूं असुकं हनहन स्वाहा । यह  
मंत्र है ।

अथ स्तम्भनम्—असुकस्य स्नः स्तम्भयस्तम्भय  
द्रुं फट् ।

यह स्तम्भन मन्त्र है ।

अथ शान्तिः—शान्तिः सर्वाभिचारस्य पञ्चविंशते  
जाथते । काम्यप्रयोगे सर्वेष नियमोऽयुतसंख्यकः ॥  
ह्योमसंख्या १०००० ॥

अब अभिचार प्रयोगोंकी शान्ति कही जाती है । समस्त  
अभिचार प्रयोगोंकी शान्ति पञ्चविंशति होती है । समस्त  
काम्य प्रयोगोंमें दश हजार जपकरे ऐसा नियम है ।

अथ मारणम्—महाकृत्याप्रयोगः—अतःपरं महे-  
शानि मारणं शृणु पार्वति । वेन विज्ञातमात्रेण

सु साध्यं भुवनत्रये ॥ हङ्गजाया महापोगिन्यतोगौरी  
पदं वदेत् । भुवनधर्यंकरीति पदं वर्मास्त्रमुच्चरेन्सनुम् ॥  
अथवा प्रथमं न्यासमथातो ब्रह्मण पदम् । यदीर्ध-  
युत्तरबज्जेन चांगमन्त्रेण योजना ॥ स्त्रदयं च ततोऽ-  
द्वेन धर्माह्लेण शिरः क्रमात् । शिखाकवचनेत्राह्ल-  
देवन्यासकाः स्मृतः ॥ अंगिराश्च क्राणपिदैवि गाय-  
त्रीच्छन्दू द्वैरितम् । सिंहवक्रा च भूतानां भयंकरि-  
ततः परम् ॥ महाकृत्या देवता च इत्युक्त्वा न्यास-  
माचरेत् ।

अब मारण प्रयोग कहाजाता है । यह महाकृत्यांका प्रयोग  
है । हे पार्वति ! अब मारण प्रयोग कहाजाता है सुनो । इस  
प्रयोगके यथार्थ करनेसे सिद्धि प्राप्त होती है । इसके' अगाड़ी  
न्यास क्रम है बुद्धिमान् जन स्वर्यं जानलेंगे । सिंहवक्रा, भूतानां  
भयंकरि, महाकृत्या, देवता इन नामोंको उच्चारणकर न्यास  
करे । इसका क्राणपि जंगिरा और छन्द गायत्री है ।

अथ ध्यानम्—सिंहाननां कृष्णमुखीं लम्ब-  
गावपयोधराम् । दंशाकराळवदनां चिनेत्रां सर्वं  
प्रोज्ज्वलाम् ॥ कृष्णकांचीसमायुक्तां विधूमाग्नि-  
समप्रभाष् । चिशुलचक्रमुशलखद्वाग्लरपंक  
जाम् ॥ लेलिहानमहजिह्वां विद्युत्पुञ्ज  
सुभीषणाम् । ध्यात्वा कृत्यां विधानेन  
पूजयेत्यन्त्रवित्तमः ॥ ध्यात्वा कृत्यामर्चयेद्वै  
रक्तैः पुष्पैश्च वश्यक्ते ॥ कृष्णमारणकृत्येषु  
मांसरक्तासवैः स्तुताम् ।

अब ध्यान कहाजाता है । सिंहके मुखके तुल्य मुखवाली  
कृष्णमुखी, स्थूल कुचवाली, बृहत् दंशायांसे भयङ्कर मुखवाली,  
चिनेत्रा अर्थात् तीन नेत्रवाली, उड्डज्वल वर्णवाली, कृष्णकाशी  
( तागडी ) से सुशोभित, प्रज्वलित अग्निके तुल्य कान्तिवाली,  
चिशुल, चक्र, मुशल पद्मकों चारों हस्तमें धारण करनेवाली,  
जिहासे होटांकों चाटती हुई विद्युत, ( विजली ) पुञ्जके तुल्य  
भयंकर शब्दवाली ऐसी कृत्या देवोंका यथाविधान ध्यानकर  
पूजन करें परन्तु वश्य कर्ममें रक्त पुष्पोंसे पूजन करना चाहिये ।  
मारण प्रयोगमें कृष्णपुष्प, मांस तथा रक्तासवसे स्तुतिकर  
पूजन करें ।

( ७० )

क्रियोङ्गीकाः ।

कृत्याच्च यदनां कुमार्यश्चच्छादिनीं तथा ।  
 अधिषणां श्रीमतीं चैव प्रतिष्ठाच्च ततः परम् ॥  
 विद्यामृश्यर्चयैदपेष्टेषुहि ( क्रमशः ) सुलो-  
 चनाम् । पूर्वे तु शांकरीं नाम शुक्लवर्णीं वरा-  
 न्विताम् ॥ द्वितीजां सौम्यवदनां पाण्डांकुश-  
 धरीं शिवाम् । दक्षिणे अधिषिकां नाम छम्ब-  
 जिह्वां सुधासुखीय् ॥ कृष्णवर्णीं रक्तसुखीं  
 रक्तमालालुलेपनाम् । चतुर्भुजां सिंहनार्दा-  
 महाघोषां कृपालिनीय् ॥ खड्गद्वृतां शिरो-  
 मालां रवीभरणभूषिताम् ॥ पथिमे वारुणीं  
 नाम रश्णवर्णीं हसन्मुखीय् । सुरद्रमालिकां  
 शुभ्रदंशामधयदां सदा । उत्तरे भीमिकां नाम  
 चतुर्हस्तां भयंकरीम् ।

मदना, कुमार्यश्चच्छादिनी, भीषणा, श्रीमती ऐसी कृत्या  
 देवीकी प्रतिष्ठाकर अष्टदल कमलमें सुलोचना विद्यारूप श्रीबृत्या  
 देवीका पूजन करे । पूर्वोदिशामें शांकरी, शुक्लवर्णी, वरान्विता,

द्विभुजा, सौम्यवदना, पाशाङ्कुशधरा, शिवा इन नामोंसे पूजन करे दक्षिणभागमें भीमिका, लम्बजिह्वा, सुधामुखी, कृष्णवर्णी, रक्तमुखी रक्तमालानुलेपना, चतुर्भुजा सिंहनादा, महायोपा, कपालिनी, खड्डहस्ता, शिरोमाला, सर्वाभिरणभृपिता इन नामोंसे पूजन कर पथिम मागमें वारुणी, स्वर्णवर्णी, हसन्मुखी, सुरुद्रमालिका, शुभ्र दंष्ट्रा, अभयदा इन नामोंसे पूजन करे । उत्तर भागमें भीमिका चतुर्भुजा, भयङ्करी इन नामोंमें पूजन करे ।

पूजयित्वा जपेऽसन्त्रं नित्यमष्टोत्तरं शतम् ।  
 अवाप्य विनियोगस्तु कर्तव्यो मंत्रिणा सदा ॥  
 काळं विद्वित्वा प्रतिमां मधूच्छिष्ठेन कारयेत् ।  
 ऋदशांगुलकं शत्रोर्नस्त्वामसमन्वितम् ॥  
 हृदये नामधेयस्त्रं फटक्कास्त्रं समर्मके । अस्य  
 प्राणान् प्रतिष्ठाप्य मस्तिष्ठैर्लैपयेत्ततः ॥ चूत-  
 ब्राह्मणचाणडालकेशाभ्यां पादयोः पृथक्  
 बद्धा करे करमये तोरणे चाप्यधोमुखम् ॥  
 तस्याधो मेखलायुक्तं चिकोणं तत्र कुण्डकम् ॥  
 तत्र शारं विधायामि परिस्तीर्थं शरैस्तृणैः ॥

विभीतकं पश्चिमाय कल्पवेद्यस्य सारणम् ।  
 जुहुया श्विष्वतैलौकैः काकोलूकस्य पुच्छकैः ॥  
 दासयैनं शोपयैनं मारयेत्याभिधाय च ।  
 अष्टोत्तरश्चतैनैव मनुना विधिना ततः ॥ होमान्ते  
 विधिवत् कृत्वा बाह्ये अयेश्च सन्निधौ । यो  
 वे द्वेषि जनः कश्चिद्वूरस्थो धान्तिकेऽपि च ॥  
 पिब कृत्येऽसुकं तस्य हुमित्युक्त्वा लिवेद-  
 येत् ॥ संरक्षयाग्निं विधानेन नवशत्रं समा-  
 चरेत् ॥ हुनेद्यावत्तावदस्य भवेदेव रिपो-  
 कृतिः । अर्कक्षीरे च मरिचं पिङ्गा सिद्धार्थ-  
 येव च ॥ जले संलोडय मंत्रेण रिपुं ध्यात्वा  
 निरुद्धवक् । कृष्णास्वरोत्तरीयायपादेनाक्षम्य  
 तद्रिपुम् । वज्रशूलमिति ध्यात्वा तस्योपरि  
 तु निक्षिपेत् । नवशत्रात् परे शत्रुर्णियते  
 नाम संशयः ।

कृत्या देवीका पूजन कर नित्यप्रति अष्टोत्तर शतमंत्र जपे । मंत्रीको सदा विनियोग करना चाहिये । पुरश्चरणके कालको जान कर मोमसे प्रतिमा बनावै परन्तु शत्रुकी प्रतिमा १२अगुल प्रमाण हो और उसके नख लोमभी अवश्य हों “प्रतिमा विषय में नख लोम कृत्रिम होते हैं” प्रतिमाके हृदयमें शत्रुका नाम और मर्मस्थानमें फट्कार लिखे । शत्रु प्रतिमाकी प्राणप्रतिष्ठा करके मिरचोंको पीसकर सर्वांग लेपकरे, पुनः सृतक ब्राह्मण तथा सृतक चाण्डालके केशोंसे प्रतिमाके हाथ पांव बांधकर अधोमुख तारणमें लटकाओ और उसी प्रतिमाके नीचे मेखलायुक्त त्रिकोण कुण्ड स्थापन अर्थात् निर्माण करे उस कुण्डमें अग्नि स्थापनकर तृण और शरसे अग्निको आच्छादित करे । वैहेकी माला पहनकर काक, उल्लू इन दोनोंकी पूँछको निम्बपत्र ( नीमके पत्ते ) और कड़आ तेल मिला हवनकरे, हवनके समय दारय, शोपय, मारय इन तीन शब्दोंका उच्चारण करताजाय । विधानपूर्वक १०८ बार मंत्र द्वारा हवन करे, पुनः अग्निके निकट हो कहे हे कृत्ये । दूर देशमें रहने वाला अथवा समीप रहनेवाला जोभी कोई मेरा शत्रु हो उसका रक्त पानकर पेसा कह मंत्रके अन्तमें हुं धीज मिश्रितकर आहुति प्रदान करे । विधानपूर्वक अग्निकी रक्षा कर नवरात्रितक अथवा जवतक शत्रुका मरण न हो तबतक नियमपूर्वक हवन करता रहे । आकके दूधमें मिर्चोंको पीसकर और मन्त्रोद्धारणपूर्वक

( ७४ ) कियोङ्गीशः ।

जल मिलाकर नेत्र मूदकर शत्रुका ध्यान कर काले वस्त्रोंसे बोधित  
उस शत्रु प्रतिमाको चरणके अंगृठेसे स्पर्शकर और वज्र शूलका  
ध्यानकर उक्त मरीच जलको शत्रु प्रतिमाके शरीरके ऊपर  
छिड़कदे तो नवरात्रिके पश्चात् अवश्य शत्रुका मरण होगा इसमें  
किसी प्रकारका संदेह नहीं है ।

अथ बटुकभैरवप्रयोगः—अतः परं महेशानि  
शृणुष्य कर्मसिद्धिदम् । बटुकं विषलाङ्गारुद्धं-  
पूजयेत् पद्मु कर्मसु ॥ ( आचम्य रुद्धित  
वाचनस्तुतं पठित्वा ) अभ्यन्तर्य च शिरःपद्मे  
श्रीगुरुं करुणामयम् ।

अब बटुकभैरवका प्रयोग कहाजाता है । हे महेशानि ।  
कर्ममें सिद्धि देनेवाले बटुकभैरवका प्रयोग सुनो । विमल है  
अङ्ग जिनका ऐसे श्रीबटुकभैरवजीका पूजन छहों कर्ममें करे ।  
आचमनकर स्वस्तिवाचन सूक्तको पढ़कर निज शिरपद्ममें करु-  
णामय श्रीगुरुजीका पूजन करे ।

संकल्पः—अद्येत्याद्यसुकणोत्रान्तलामग्रहावि-  
शिष्टोपश्चामनपूर्वकारोग्याणुवृद्धिकामो गणेशादि-  
पूजा पूर्वकबटुकधार्थिवशिवपूजनमहं करिष्ये ।

युरु पूजनके पश्चात् यह संकल्प करना योग्य है ।

शान्तिकादौ-रति च पूजयेदादौ क्षेत्रपालं  
ततः पुनः । रुद्रं च पूजयेदेवि ध्यानं शृणु महामते ।

व्रातिकादिमें प्रथम रतिका पूजन करे तत्पश्चात् क्षेत्रपालका । हे  
देवि ! रुद्रकाभी पूजन करे मैं अब ध्यानकाभी कहता हूँ मुनो ।

प्रणवाद्यं ध्यानम्-शूलहस्तं महारौद्रं सर्व-  
विश्वानिपूदनम् । पूर्णचन्द्रतमाभासं रुद्रं वृष-  
भवाहनम् ॥ एवं ध्यात्वा महाक्षालीं पूजये-  
हुद्रदेवतम् ॥ प्रणवाद्यं रुद्राय नमः इति ।  
भक्तियोगतः शततोलक्षपरिमितलिंगमानीय  
कँस्यपावे लिङं संस्थाप्य । सायान्या-  
धीं ततः छृत्वा भूतशुद्धिं महेश्वरि । प्राणाया-  
समंगन्यासं पीठन्यातं रामाचरेत् ।

प्रणव आदिमें कहकर ध्यान ० । त्रिशूल है हाथमें जिनके,  
महागैद्र स्वरूप, समस्त विव नाश करनेवाले, पूर्ण चन्द्रमण्डलके  
तुल्य कांतिवाले, वृषभवाहन श्रीरुद्र ( शिव ) जीका ध्यान  
करते हैं । इस प्रकार रुद्रजीका ध्यान करके रुद्र देवका श्रीमहा-

( ७६ )

क्रियोहीशः ।

कार्लीका पूजन करे । प्रणवाद्य श्रीरुद्रजीको नमस्कार हैं भक्तिपूर्वक सौ १०० तोले प्रमाण शिवलिंगको लाकर कौशीके पात्रमें स्थापनकर तदनंतर सामान्य अष्टप्रदानकर भूतशुद्धि, प्राणायाम, अंगन्यास, पीठन्यास करे ।

ततः ऋष्यादिन्यासः । ततो देहन्यासः । यथा  
सूर्धि ऊँ भैरवाय नमः । एवं ललाटे भीम-  
दर्शनाय नमः । नेत्रयोः भूताश्रयाय नमः ।  
मुखे तीक्ष्णदर्शनाय नमः । कर्णयोः क्षेत्र-  
पाय नमः । हृदि क्षेत्रपालाय नमः । नाभि-  
देशो क्षेत्राख्याय नमः । कटचां सर्वाघनाश-  
नाय नमः । ऊर्वोख्तिनेत्राय नमः । जंघयोः रक्त-  
पाणिकाय नमः । पादयोः देवदेवेशाय । सर्वांग  
बटुकाय ।

तदनंतर । ऋष्यादि न्यास करे । तत्पृथ्यात् देहन्यास करे । जैसे सूर्धि भैरवाय नमः इस मंत्रसे यस्तक स्पर्श करे । एवं ललाटादि, सर्वांगका स्पर्श करे । ललाटे भीमदर्शनाय नमः । नेत्रयोः भूताश्रयाय नमः । मुखे तीक्ष्णदर्शनाय नमः । कर्णयोः क्षेत्रपाय नमः ।

हादि क्षत्रपालाय नमः । नाभिदेशं क्षेत्रार्ल्याय नमः । केऽन्धां  
सर्वावनाथानाय नमः । उर्वाः ग्रिनेत्राय नमः । जंघयोः गत्पा-  
णिकाय नमः । पाद्योः देवदेवेशाय नमः । सर्वाणि वटुकाय  
नमः । इस प्रकार अंगन्यास करे ।

अथ करांगन्यासः । अँ ह्रीं वाँ अंगुष्ठाभ्यां नमः  
इत्यादि । अँ ह्रीं वाँ हृदयाय नम इत्यादि ततो  
मूलेन व्यापकं कृत्वा ध्यायेत् । अँ वन्दे वालमि-  
त्यादि संपूज्य । द्वाविंशदक्षरञ्चैवं जपेद्गृहसहस्रकम् ।  
अभिषेकं तर्पणञ्च यथाविधि समाचरेत् । एपा  
शात्तिर्महाशांतिः क्रथिता तव श्रद्धया ।

अब करांगन्यास कहाजाना है । अँ ह्रीं वाँ लंगुष्ठाभ्यां  
नमः इस मंत्रसे दोनों हाथोंके अंगृहींका स्पर्श करे अँ ह्रीं वाँ  
हृदयाय नमः । इस मंत्रसे हृदयका स्पर्श करे । फिर मूलसे  
व्यापक कर ध्यान करे । अँ वन्दे वालमित्यादि दूप ध्यान  
मंत्रसे ध्यानकरे । पूजनकर ३२ अधर्मके गंगदा ११ हजार  
जप करे । यथाविधान अभिषेक और तर्पण करे । ते देवि ।  
यह महाशांति हुम्हारी श्रद्धाते वर्गन् फरी नहीं है ।

(७८) क्रियोहुीशः ।

अथ वशीकरणम्—पूर्ववत् संकल्प्य । राजसध्या-  
लेन त्ये उद्घास्त्वादि ध्यात्वा ।

अब वशीकरण प्रयोग कहाजाता है । :पूर्ववत् संकल्प करके  
उद्घास्त्वादि इस राजस ध्यानसे ध्यान करे ।

अथ स्तम्भनम्—अतः परं महादेवि पूजनं क्रूर-  
कर्मणि । पूर्ववत् संकल्प्य । विद्वेषणोच्चाटनादिषु च  
क्रूरकर्मसु ध्यानम्—यथा ध्यायेन्नलिङ्गादिकान्ताभि-  
त्यादि ध्यात्वा संपूज्यादिवसद्वसंख्याकसुत्तं शोषे  
असुकं वशमानय स्वाहा इति. मन्त्रजपकर्माहं  
कृषिष्य ।

अब स्तम्भन प्रयोग कहाजाता है । हे महादेवि ! क्रूरकर्ममें  
पूजन विधान कहाजाता है । पूर्ववत् संकल्प करके कर्म आरंभ  
करे । विद्वेषण उच्चाटन आदि क्रूर कर्मोंमें ध्यान यथा ध्यायेन्न-  
लिङ्गादिकान्तम्० इस क्लोकद्वारा ध्यान करे । ध्यानकर पूजन-  
करे । जप संख्या ॥ ११००० ॥

यन्त्रे पूजाक्रमः—पुनर्ध्यात्वा यन्त्रे पुष्पं  
निधय आयाहनादिकं कुर्यात् । यथा । तत्र

ऋगः । मूलादि सद्योजातमन्त्रेणावाहनम् । यथा  
मूलं ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमः ।  
भवेऽभवेऽनातिभवेभजस्व मां भवोद्भवाय वै नमः ।  
पिनाकधृगिहागच्छ इहागच्छ । पुनर्मूलमुच्चार्यं ॐ  
वामदेवाय नमः एवं ज्येष्ठाय रुद्राय कालाय कल-  
विकरणाय वलाय वलविकरणाय वलप्रस्थनाय  
सर्वभूतदमनाय नमो नमः । उन्मनाय नमः  
इह तिष्ठ इह तिष्ठ मूलं इह सत्रिष्ठेहि ।

अब यन्त्रमें पूजन विधान कहाजाता है । फिर ध्यान कर  
यन्त्रमें पुष्प स्थापन कर आवहनादि करे । जैसे मृत्तादि सद्यो-  
जातं मंत्रसे आवहन करे आवहन मन्त्र यथा । ॐ सद्योजातं  
प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमः । भवेऽभवेऽनातिभवेभजस्व मां  
भवोद्भवाय वै नमः पिनाकधृग इहागच्छ इहागच्छ पिर मूलका  
उद्घारण कर इन नाममन्त्रों द्वारा आवहन करे ।

ॐ वामदेवाय नमः । ॐ ज्येष्ठाय नमः ।  
ॐ रुद्राय नमः । ॐ कालाय नमः । ॐ कल-

(८०)

क्रियोड्डीशः ।

विकरणाय नमः । ॐ ललाय नमः । ॐ बल-  
विकरणाय नमः । ॐ बलप्रभथनाय नमः ।  
ॐ सर्वभूतदमनाय नमोनमः । ॐ उन्मनाय  
नमः । इह तिष्ठ इह तिष्ठ मूलं इह सन्निधेहि ।  
इस प्रकार आवाहन कर पूजन करे ।

अघोरेण सन्निरोधनम् । पुनर्मूलं ॐ अघो-  
रेभ्योऽथ घोरेभ्य घोरघोरतेभ्यः ॥ सर्वेभ्यः  
सर्वह्यर्वेभ्यो नवोऽस्तुते रुद्ररुपेभ्यः । इह  
सन्निरुद्धस्व ।

घोर मंत्रसे सन्निरोधन करे । यही उपरोक्त घोर मंत्र है ।  
तत्पुरुषेण योनिसुद्राप्रदर्शनम् । पुनर्मूलम् ।  
ॐ तत्पुरुषाय विज्ञहे महादेवाय धीमहि  
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् । इति योनिसुद्रां  
प्रदर्शयेत् ।

तत्पुरुषेण इस मंत्रसे सुद्रा दिखावे । फिर मूल मंत्रका जप  
करे ॐ तत्पुरुषाय विज्ञहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचो-  
दयात् इस विष्वायनी मंत्रसे सुद्रा दिखावे ।

ईशानेन वन्दनमिति । पुनर्मूलम् । अौं ईशा-  
नः सर्वविद्यानमीक्षरः सर्वभूतानां ब्रह्मणोऽ-  
धिपतिर्ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्माशिवोमेऽस्तु सदाशिव  
ॐ । शिवं वन्दयामि नमः । ततः प्राण-  
प्रतिष्ठा । अौं द्वां कां हंसः वटुकायनमः पशु-  
पतेः शूलपाणेः प्राणाः इह प्राणाः जीव इह  
स्थितः । सर्वोन्द्रियाणि । चक्षुः थ्रोवद्राण-  
प्राणाः इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ।  
- हुं इत्यवगुण्ठच । वमिति घेनुमुद्रयासृतीकृत्य  
छोटिकाभिर्दिग्बंधनं कृत्वा पड़ंगानि संपूज्य  
देवं पूजयेत् ।

“ईशान” इस मन्त्रसे वन्दना करे । किर मूलज० । उ०  
ईशानः सर्वविद्यानमीक्षरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्माशिवोऽ-  
स्तु सदाशिवः ॐ शिवं वन्दयामि नमः । इन मन्त्रोंसे शिवजाती  
र्वदना करे । किर प्राणप्रतिष्ठा करे । अौं द्वां कां हंसः वटुकाय  
नमः । पशुपतेः शूलपाणेः प्राणाः इह प्राणाः । जीव इह स्थितः ।  
सर्वोन्द्रियाणि चक्षुः थ्रोवद्राणप्राणाः इहागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु

(८२)

क्रियोहीनः ।

स्वाहा इन मन्त्रांद्वारा उक्त प्रतिमामें प्राणप्रतिष्ठा करे । हुं इस वीजका अवगुण्ठन द्वारा 'वम्' इस वीजद्वारा धेनुमुद्रा दिखावे और अमृतीकरण करे छोटिका (ताली) द्वारा दिग्बन्धन और पड़ंग पूजनकर देवदेव श्रीशिवजीका पूजन करे ।

मूलमुञ्चार्थं एतत् पाद्यम् । अँ स्वाहादेवाय सोम-  
यूर्तषे बटुकात्मने पशुपतये शिवाय नमः । एवं  
क्रमेणार्थ्याचमनयादिकं दद्यात् । रुचाने तु  
विशेषः । यथा । अद्येत्यादि अमुकस्याऽ-  
शेपाशुभनिवृत्तिपूर्वकग्रहारिष्टोषशमनारोग्याशु-  
र्वाद्विकामनया शततोलक्षपरिवितदुर्धेन बटुका-  
त्मकपशुपतेर्लिङ्गं रुचापयामि । अँ स्वाहोजातं  
प्रपद्यामि इत्यादिना रुचापयेत् । ततो जलेन  
रुचापयित्वा । मूलम् । एष मन्थः । अँ स्वाहा-  
देवाय सोमयूर्तषे नमः पुष्पे तु अद्येत्यादि  
उत्तरत कामनया बटुकात्मकपशुपतये शिवा-  
याष्टोत्तरशतद्व्यापुष्पाण्यहं रंशदहै । मूल

शुच्चार्थं उँ महादेवाय सोमसूर्तये नमः । इति  
मन्त्रेण एकम् एकं कृत्वा दद्यात् । एवं विलवपत्रम् ।  
षधुपकं धूपदीपे तु गन्धवत् । नैवेद्यम् । अद्येत्या-  
दिस्त्वानीयवत् काष्ठनया एतत् सोपक्षरणश्चात्तोल-  
कपरिमितात्पत्तण्डुलनैवेद्यं बटुकात्मकपशुपत्रये  
शिवाय तु भूमहं संपद्दे उँ महादेवाय सोमसूर्तये  
नमः । शततोलकपरिमितसंविदा चूर्णं पानीयं तांबूलं  
च पूर्ववत् संकल्प्य दद्यात् । इति ।

मूल मन्त्र उच्चारण करै । उँ महादेवाय सोमसूर्तये बटुकात्मने  
पशुपतये शिवाय नमः । इस मन्त्रसे शिवजीको पाद्यप्रदान करै ।  
इसी प्रकार अर्घ आचमन आदि प्रदान करे । परन्तु स्नानमें कुछ  
विशेषता है । यथा । प्रथम संकल्पकरे । संकल्प यह है ।  
अद्येत्यादि अमुकस्याशेषाऽशुभनिवृत्तिपूर्वकग्रहारिष्ठोपशगनाऽरो-  
ग्यायुर्वृद्धिकामनया शततोलकपरिमितदुर्घेन बटुकात्मकपशुप-  
त्रयतेलिङ्गं स्नापयामि । उँ सद्योजातं प्रपद्यामि इत्यादिना स्नाप-  
येत् । इस मन्त्रसे शिवको स्नान करावे किर जलसे स्नान करावे  
और मूल मन्त्रका जप करे । महा देवाय सोमसूर्तये नमः । इस

( ८४ )

कियोहुशीशः ।

मंत्रसे गन्ध प्रदान करे पुष्पभी संकलपपूर्वक चढाने योग्य हैं । यह सकल्प है । अद्येत्यादि अमुकस्याशेषाऽशुभनिवृत्तिपूर्वक ग्रहारिष्टोपशमनाऽरोग्यायुर्वृद्धिकामनया बटुकात्मकपशुपतये शिवायाषोत्तरशतद्रोणपुष्पाण्यहं सम्प्रददे । तत्पश्चात् मूलमंत्र उच्चारण करञ्जमहादेवाय सोममूर्तये नमः इस मंत्रसे एक २ पुष्प शिव प्रतिमाके ऊपर चढावे । इसी प्रकार विल्वपत्रभी चढाना मधुपर्क धूप, दीप, गन्धके तुल्य चढाना संकलपपूर्वक नैवेद्यभी अर्पण करै यह संकल्प है । अद्येत्यादि अमुकस्याऽशेषाऽशुभनिवृत्तिपूर्वकग्रहाऽरिष्टोपशमनाऽरोग्यायुर्वृद्धिकामनया एतत् सोपकरणशततोलकपरिमितातपत्पण्डुलैवेद्यं बटुकात्मकपशुपतये शिवाय तुभ्यमहं सम्प्रददे । इस प्रकार नैवेद्य प्रदानकर तांबूल पूर्णीफल आदि भी संकल्प द्वारा अर्पण करे । संकल्प पूर्ववत् जानना ।

वशीक्षणस्त्वे । भूलभुजार्थं ओं अवाय जलसूर्तये बटुकात्मने शिवाय नमः । एवं क्रमेण पूजयेत् । एवमध्याद्यसनीयं दद्यात् । इनाने तु अद्येत्यादि-अमुकस्यामुकवशीकरणार्थं शततोलकपरिमितघृतेन स्फुना वा बटुकात्मकपाशुपतशीवलिंगं इनाप-

यामि । मूलसुचार्य । एष गन्धः ॐ भवाय जलमूर्तये  
 पृष्ठे तु अद्येत्यादि असुकस्थासुकवशीकरणार्थम्  
 अष्टोत्तरशतद्वेणपुष्पं बटुकात्मने पशुपतिशिवायाऽ  
 हं सम्प्रददे । मूलसुचार्य एतत् द्वेणपुष्पं ॐ भवाय  
 जलमूर्तये नमः इति प्रत्येकम् । एवं विख्यपत्रम् ।  
 धूपदीपे तु ॐ भवाय जलमूर्तये नमः नैवेद्यं तु  
 अद्येत्यादि असुकस्थासुकवशीकरणार्थशततोलक-  
 परिमितसोपकरणनैवेद्यं ॐ बटुकात्मकपशुपतिशि-  
 वायाऽहं सम्प्रददे मूलसुचार्य एतत् सोपकरणशत-  
 तोलकपरिमितनैवेद्यं साम्बिदाचूर्णञ्च ॐ भवाय  
 जलमूर्तये नमः । ततः पानार्थोदकम् आचमनीयं  
 ताम्बूलं च दद्यात् ।

बब वशीकरण मन्त्रका विधान कहाजाता है मूल मंत्रका  
 उचारण करे । ॐ भवाय जलमूर्तये बटुकात्मने शिवाय नमः  
 इस क्रमानुसार पूजन करे । इसही क्रमानुसार वर्ध, आचमन

( ८६ )

क्रियोङ्गीशः ।

आदि प्रदान करे । ज्ञानविषयमें संकल्प करे । यह संकल्प है । अद्येत्यादि असुक्लस्याऽसुक्लवशीकरणार्थं शततोलकपरिमितशृतेन मधुना वा बटुकात्मकपशुपतिशिवालिंगं स्नापयामि । मूलमंत्रके उच्चारण कर औं भवाय जलमृतये नमः इस मंत्रसे गंध प्रदान करे । पुष्प संकल्प द्वारा प्रदान करे । संकल्प यह है अद्येत्यादि असुक्लस्यासुक्लवशीकरणार्थम् अष्टोत्तरशतद्वौणपुष्पं बटुकात्मगने पशुपतिशिवायाऽहं सम्प्रददे । मूलमंत्र उच्चारण कर औं, भवाय जलमृतये नमः इस मन्त्रसे पृथक् पृथक् द्रोण(दोहना) पुष्प चढावे इसी प्रकार विल्वपत्रभी चढावे । औं भवाय जलमृतये नमः । इस मंत्रसे धूप दीप प्रदान करे । नैवेद्य संकल्पपूर्वक प्रदान करे । संकल्प यह है अद्येत्यादि असुक्लस्यासुक्लवशीकरणार्थ शततोलकपरिमितसोपकरणनैवेद्यं औं बटुकात्मकपशुपतिशिवाय संप्रददे । मूल मंत्रको उच्चारण कर औं भवाय जलमृतये नमः इम गंत्रद्वारा नैवेद्य जल तांबूलं पृगीफलं आदि प्रदान करे ।

ततः अष्टावद्यां पूजयेत् । ततोऽसूतिं पूजयेत् । ततो सूलन् पुष्पाऽलिङ्गं दत्त्वा संकल्प्य शिवसहस्रं श्रस्रस्याकं तन्यन्तं जपेत् । शान्तिकादी शूरकर्मण्यपि । ततो शुक्लादिना जपं समाप्तं स्तोत्रादिकं पठेत् ।

तदनन्तर अष्टावरण पूजन करे । फिर अष्टमृतिका पूजन करे । पुनः मूलमंत्रसे तीन एष्पाङ्गालि प्रदानकर ११ हजार द्विंश मंत्रका जप करे । शांतिकादि क्रूर कर्ममें भी तदनन्तर गुह्यादिसे मंत्र जपको समाप्त कर स्तोत्रादिका पाठ करे ।

ततो वलिदानम्—यथा मूलमुच्चार्य वटुकभैरवाय एप वलिनमः । भैरवपरिवारगणैः सह मम शब्दन् सरुधिरं पिव पिव इसं बलिं गृह्ण गृह्ण स्वाहा । अँ शब्दुपक्षस्य रुधिरं पिशितं च दिने दिने । भक्षय स्वगणैः साद्वं सारमेयसमन्वितम् ॥ ततो विहित-द्रुट्यैः अष्टोत्तरशतं सहस्रं वा होययेत् ।

अब वलिदान प्रकार कहाजानहै । मूल मंत्रको उचारण कर वटुकभैरवाय एप वलिनमः । इस मंत्रसे वलिप्रदान करे । भैरवपरिवारगणैः सह मम शब्दन् सरुधिरं पिव पिव इसं बलि गृह्ण गृह्ण स्वाहा । वलिप्रदानके समय इस मंत्रका उचारण करे । अँ शब्दुपक्षस्य रुधिरं पिशितं च दिने दिने । भक्षयस्व-गणैः साद्वं सारमेयसमन्वितम् । यह समरन मंत्र वलिप्रदानके समय उचारण करने तत्पद्यात् पीछे कहेहुये कर्मानुसार द्रव्यांसे १०८ वथवा १००० आहुति प्रदान कर हवन थे ।

( ८८ )

क्रियोहुशः ।

वशीकरणे तु धृतात्कराजिका भिरषोत्तराहस्त-  
होमः । शान्त्यर्थे दूर्वादिकम् । कूरकर्मणि विल्वप-  
त्रम् । उच्चाटने तु अँ हीं श्रीं हुं शिवाय स्वाहा ।  
इति विशेषः । दक्षिणां वटुकात्मकपञ्चपतये शिवाय  
तुभ्यमहं सम्प्रददे । इवेतसर्षेषां लबणायिति ।

वशीकरण प्रयोगमें धृत मिश्रित राईसे १००८ वार हवन  
करे शांतिके लिये दूर्वादिकसे हवन करे । कूर कर्ममें विल्वपत्रसे  
हवन करे । उच्चाटन प्रयोगमें अँ हीं श्रीं हुं शिवाय स्वाहा  
मंत्रमें इतनी विशेषता है संकल्प द्वारा दक्षिणा प्रदान करे ऐसे  
सरसों अथवा लबणसे हवन करे ।

इति क्रियोहुशे महातंत्रराजे उमामहेश्वरसंवादे  
त्रयोदशः पटलः ॥ १३ ॥

अथ पट्कर्मणां कवचं शत्रुमर्दनम् ।

श्रीदेव्युवाच । श्रुतं वटुकमाहात्म्यं पूर्णविस्मय-  
यकारकम् । इदानीं श्रोतुमिच्छाग्नि कवचं वै पट्कर्मणाम् ॥

अब शत्रु विनाशकारक पट्कर्म कवच कहाजाता है । श्रीदेवीजी कहने लगीं । हे भगवन् ! आपके प्रसादसे महाविसमय-कारक वटुकमाहात्म्य श्रवण किया अब मेरी पट्कर्म कवच श्रवण करनेकी इच्छा है कृपापूर्वक वर्णन कीजिये ।

श्रीईश्वर उवाच । शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मा  
त्वं परिपृच्छसि । श्रवणात् पठनाद्वापि शत्रुनाशाय  
तत्क्षणात् ।

श्रीवजी कहनेलगे । हे देवि ! श्रवण करो तुम्हारी प्रीतिके अर्थ में पट्कर्म कवच वर्णन करताहूँ इस कवचके पाठ करनेरो शत्रुका नाश होता है ।

श्रीदेव्युवाच । त्रेलोक्यमोहनार्थंतु कवचं मे  
प्रकाशय । त्रेलोक्यशत्रुसंहतुं नाशितुं यत्क्षमं  
भवेत् ॥ एवमुक्तो महादेवः कुद्धो भूत्वा जगत्पतिः ।  
देवीं प्रवोधयामासं वाक्येनामृतवर्षिणा ।

देवीजी कहनेलगीं । भगवन् तीनों लोकोंके मोहनार्थ मेरे प्रति कवचका वर्णन करो । जिस कवचके पाठमात्रहीसे तीनों

( ९० )

क्रियौष्णीशः ।

लोकोंके शब्दोंका समुदाय मात्र नाश हो । इस प्रकार श्रीशिवजी महाराज देवीजीकी बाणी अवणकर महाकोध हो देवीजीसे कहने लगे ।

**श्रीमहादेव उवाच ।**

**परानिष्टे महादेवि कुतस्ते जायते मतिः ।**

हे महादेवि ! पराये अनिष्टको जो चिंतन करती हो न जाने ऐसी विपरीत बुद्धि तुमको कहाँसे उत्पन्नहुई है ।

**श्रीदेवयुवाच । जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन  
ब्रह्महा खेत । ये यथा मां प्रपद्यन्ते श्रुतिरस्ति पुरा-  
तनी । यदि ते वर्तते देव दया हि कृथ्यतां यथि ।  
शब्दूणां प्राणनाशार्थमुच्चाटनवशीकृतौ । तेषां हि बल-  
नाशार्थं सर्वदा प्रयत्ना नराः ।**

श्रीदेवीजी कहने लगी । भगवन् यह पुरानी श्रुति है कि मारनेवालेको अवश्य मारे उसके मारनेसे ब्रह्महत्या दोष नहीं लगता । हे देव ! यदि आपकी कृपा भेरे ऊपर है तो दया कर शब्दुके प्राणनाश करनेवाले उच्चाटन तथा वश्य आएं प्रयोगोंको कहिये क्योंकि सर्वकालमें मनुष्य निज शब्दुके नाशके लिये थल किय ही करते हैं ।

ईश्वर उवाच । शृणु देवि यहाभागे कालामि-  
प्राणवल्लभे । यत्थ धारणमात्रेण शून्यां  
नाशानं भवेत् ॥ धृत्वा तु पादमूलेन स्पृष्टा  
दात्र इवाकरोत् । हरणामतश्चात्मन्तु नाशितुं  
नैव शक्यते ॥ शृणु देवि यहाभागे सावधा-  
नावधार्य । शून्यां प्राणनाशार्थं कुपितः काल  
एव सः ।

श्रीशिवजी कहनेलगे । हे कालमिप्राणवल्लभे ! महादेवि  
श्रवण करो कि जिस कवचराजके धारण करनेमात्रहीसे शून्य  
नाश होताहै । इस कवचराजको पादमूलमें धारण कर शून्यका  
स्पर्श करे तो शून्य दात्रकी नाई आज्ञा पालन करनेमें प्रवृत्तहो  
फिर क्या जरूरत है उसके प्राण नाश करनेकी क्योंकि शरणा-  
यतके प्राणनाश करनेमें प्रायश्चित्त है । हे देवि ! हे महाभागे !  
सावधान हो श्रवण करो कि यह कवचराज शून्यके प्राण नाश  
करनेमें कुपित कालके तुल्य है ।

दशवक्ता दशसुला दशपादाज्जनप्रभा । कोटि  
सूर्यप्रभा काली मय शून्य विनाशय । नाश-  
प्रित्वा क्षणं देवि अन्यशून्यं विनाशय । कीं

(९२) कियोहुशः ।

क्रीं क्रीं उग्रप्रभे विकटदंष्ट्रे परपक्षं मोहय  
मोहय पच पच मध मथ दृढ़ दृढ़ हन हन मारय  
मारय ये मां हिंसितुमुद्यता योगिनीचक्रैस्तान्  
वारय वारय छिन्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि करा-  
लिनि गृहगृह ओं क्रींक्रीं क्रींक्रीं स्फूरस्फूर पूरपूर  
पूनपून चूल्यचूल्य धक्खधक्ख धमधम मारय मारय  
सर्वजगद्वशमानय ओं नमः स्वाहा ।

यह भद्रकालीका कवच कहाजाता है । दशमुखवाली, दश-  
पाद, दशभुजा, अञ्जनपर्वतके तुल्य कृष्णवर्णवाली, करोड़ों  
सूर्यकान्तिसे शोभित, महाकाली क्षणमात्रमें मेरे भूत भविष्य  
वर्तमान शत्रुओंका नाश करे । यह कवच्चहै क्रीं क्रीं क्रीं उग्रप्रभे ।  
विकट दंष्ट्रे परपक्षं मोहयमोहय, पचपच, मथमथ, दहदह, हनहन,  
मारयमारय, ये मां हिंसितुमुद्यता योगिनीचक्रैस्तान् वारय वारय  
छिन्धिछिन्धि, भिन्धिभिन्धि, करालिनि गृहगृह, ओं क्रीं क्रीं  
क्रीं क्रीं स्फूरस्फूर, पूरपूर, पूनपून चूल्यचूल्य, धक्खधक्ख, धमधम  
मारयमारय, सर्वजगद्वशमानय ओं नमः स्वाहा ।

इति ते कवचं देवि भद्रकाल्याः प्रचोदितम् ।  
 भूर्जे विलिखितश्चैतत् स्वर्णस्थं धारयेद्यदि ।  
 शिखायां दक्षिणे बाहौ कण्ठे वा धारयेद्यदि ।  
 ब्रैलोक्यं मोहयेत् क्रोधात् ब्रैलोक्यं चूर्णयेत्  
 क्षणात् ॥ पुत्रवान्धनवान्धीमात् नानाविद्या-  
 निधिर्भवेत् । ग्रहास्त्रादीनि शस्त्राणि तद्रावस्प-  
 हर्षनात्ततः ॥ शब्दो नाशमायान्ति रजतेन  
 प्रधारितम् । मासमात्रेण शस्त्राणां महाविपद्  
 कारणम् ॥ यंयं शान्तुं स्मरन्मत्यः कवचं पठति  
 ध्रुवम् । तंतं नाशयते सद्यस्तथ्यं ते तद्रदा-  
 म्यहम् । धारणे भजते शान्तुः कण्ठशोपं सदा  
 भवेत् । हृत्कम्पो जायते तावद्यावत्स्व छृषा-  
 न चेत् ॥

हे देवि ! इस प्रकार श्रीभद्रकालीजीका कवच तुम्हारे प्राप्ति  
 वर्णन किया यदि इस कवचराजेंको गोरोचन आदि द्रव्योंसे  
 भोजपत्रके ऊपर लिखकर सुवर्णके तावीजमें बन्दकर शिखा,

( ९४ )

क्रियोहुषाः ।

दक्षिण वाहु, अथवा कण्ठमें धारण करे तो क्रोधपूर्वक तीन लोकोंको मोहितकर तत्क्षणस्वाधीन करनेमें समर्थ हो, और पुत्रार्थी पुत्रको प्राप्त होय, धनार्थी धनको, ३ विद्यार्थी नाना प्रकारकी विद्याओंको प्राप्त हो इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं है । यदि इस यंत्रगाजको उक्त विद्यानालुसार लिखकर चाँदीके ताचीजमें बन्दकर उक्त स्थानोंमें धारणकरे तो अवश्य धारण करनेवालेके शरीरके स्पर्श मात्रहीसे ब्रह्मादि अद्वा शब्द शब्दका नाश करनेमें समर्थ होय । इस प्रयोगके अनुष्टान करनेसे एक मासके भीतर २ शत्रुओंको महा विपत्ति प्राप्त होजाती है । प्रयोगकर्ता जिस व्यक्तिका चिन्तवन कर इस प्रयोगका आरम्भ करेगा, अवश्य उस व्यक्तिका नाम होगा । शब्दका ध्यानकर यदि यह कवचराज निज कण्ठदेशमें धारण कियाजाय तो शब्दका कण्ठ सखने लगे और शरीर कांपने लगे, जबतक भद्रकालीकी कृपा न हो कांपाही करे ॥ इति कवचम् ॥

अथ रिपुनाशकवचम् ।

ईश्वर उवाच ॥ विक्लालं गोपितं देवि कालिं  
काले प्रकाशितम् । न वक्तव्यं न द्रष्टव्यं तव  
हनेहात् प्रकाशयते ॥ काली दिग्घरी देवि  
जगन्मोहनगारिणी । तच्छृणुष्व महादेवि त्रैलो-  
क्यमोहनन्तिदम् ।

श्रीशिवजी कहनेलगे । हे देवि । यह क्वचराज सत्ययुगादि  
तीनों कालोंमें गुप्त रहा परन्तु अब इस काल कालिकालके सम-  
यमें यह क्वचराज प्रकाशित हुआ है इसमें तुम्हारा प्रेमही  
कारण है अन्यथा यह देवताओंको भी अलभ्य क्वचराज प्रका-  
शके योग्य न था, “अच्छा” अब तुम यह क्वचराज न तो  
किसीको देना और न किसीको दिखाना । हे प्रिये । जगत्को  
मोह करनेवाली काली दिग्म्बराके प्रयोगको वर्णन करता हूं  
मुनों । हे महादेवि ! यह महाप्रयोग तीनों लोकोंको मोहित  
करनेवाला है ।

अस्य महाकालभैरवऋषिः । अतुपृष्ठन्दः ।  
इमश्चानकालिका देवता सर्वसोहने विनियोगः ।  
ऐं क्रीं कूं क्रः स्वाहा विवादे पातु मां सदा । क्लीं  
दक्षिणकालिकादेवतायै सभासध्ये जयप्रदा ॥ क्रीं  
क्रीं श्वामीगिन्यै शशुं मार मारय । हीं क्रीं क्रीं क्लीं  
ब्रलोक्यं वशमानय । हीं श्रीं क्रीं मां रक्ष रक्ष  
विवादे राजगोचरे द्वाधिशत्यक्षरी ब्रह्म सर्वत्र रक्ष

वां सदा ॥ कवचे वर्जितं यथ तत्र वां पातु क्षा-  
 लिका । सर्वत्र रक्ष मां देवि इयाया तूथस्यरू-  
 पिणी ॥ एतेषां परमं मोहं अवज्ञाणे प्रकाशि-  
 तम् । सदा यस्तु पठेद्वापि त्रैलोक्यं वज्रामानयेत् ॥  
 इदं कवचमन्नात्वा पूजयेद्वोररूपिणीम् । सर्वदा  
 स यद्वाव्याधिपीडितो नात्र संशयः ॥ अत्यपायुः  
 स भवेद्वोगी क्षायितं तव नारद् । धारणं कवच-  
 स्यास्य भूर्जपत्रे विशेषतः । स यन्त्रं कवचं धृत्वा  
 इच्छासिद्धिः प्रजायते । शुच्छाप्तस्यां लिखेन्द्रियी  
 धारयेत् स्वर्णपत्रके ॥ कवचस्यास्य माङ्गात्म्यं  
 नाहं वकुं महात्मने । शिखायां धारयेद्योगी  
 फलार्थी दक्षिणे भुजे ॥ इदं कलपद्रुषं देवि तव  
 स्नेहात् प्रकाश्यते । गोपनीयं प्रदत्तेन पठनीयं  
 महामुने ।

इस कवचका महाकालमैरव श्रद्धिपि, अनुष्टुप् छंड, इमशान कालिका देवता है । और सर्व मोहनार्थ यह विनियोग है । ऐं कीं क्रूं कः स्वाहा विवादे पातु मां सदा । ह्रीं दक्षिणकालिका-देवतायै सभामध्ये जयप्रदा । कीं कीं श्यामांगिन्यै शत्रुं मारय-मारय हीं क्रीं ह्रीं त्रैलोक्यं वशमानय हीं श्रीं कीं मां रक्षरक्ष विवादे राजगोचरे द्वार्विंशत्यक्षणि ब्रह्म सर्वत्र रक्ष मां सदा ( यह कवच मन्त्र है इनकी भाषाकी कोई ऐसी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती अतः नहीं लिखी ) रक्षा रहित स्थानमें कालिका देवी मेरी रक्षा करें उग्र स्वरूपिणी श्यामा सदा सर्व स्थानमें मेरी रक्षा करें । यह परम मोहन कवच है । है प्रिये ! तुम्हारे भार्यार्थ प्रकाशित किया गया है । जो मनुष्य सदा इस कवचका पाठ करते हैं तीनों लोक उनके वशमें हैं विना इस कवचके जाने जो मनुष्य घोररूपिणी कालिकाका पूजन करेंगे अवश्य सर्वदा वह मनुष्य महाव्याधियोंसे पीडित रहेंगे । वह मनुष्य अल्पायु और सदा रोगी रहेंगे । है नारद ! यह बात सत्य जानों । विशेषकर भोजपत्रके ऊपर लिखकर इस यन्त्रको धारण करे । यत्नपूर्वक इस कवचके धारण करनेसे इच्छासिद्धि होती है । शुक्रपक्षकी अष्टमीको भोजपत्रके ऊपर लिख कर धारण करे स्वर्णपत्रमें बंद करके है महात्मन् । इस कवचके माहात्म्यको वर्णन करनेक लिये मैं समर्थ नहीं हूँ । योगी शिं

( ९८ )

क्रियोहुर्णिशः ।

खामें धारण करे, फलाथीं दक्षिण भुजामें धारण करे हे देवि ।  
यह कल्पद्रुम तुम्हारे स्नेहसे प्रकाशित किया है । परन्तु सर्वथा  
यह कल्पद्रुम गुप्त रखने योग्य है ।

**श्रीविष्णुरुवाच—इत्येवं कवचं नित्यं महालक्ष्मि  
प्रपठचताम् । अवश्यं वशमायाति त्रैलोक्यं  
सचराचरम् । शिवेन काथितं पूर्वं नारदे कल-  
हास्पदे । तत्पाठान्नारदेनापि मोहितं सचराचरम् ।**

श्रीविष्णुभगवान् कहने लगे हे महालक्ष्मि ! इस प्रकार यह  
शत्रुमर्दन कवच पढ़ना योग्य है अवश्य तीनों लोक वशमें  
आजाते हैं । शत्रुर्वासे विद्वल नारदजीके प्रति श्रीशिवजी महा-  
राजने यह कवचराज वर्णन किया था इसके पाठ करनेसे नार-  
दजीने भी सचर तथा अचर जीवमात्रको मोहित करालिया ॥  
इति कवच समाप्त ॥

इति श्रीक्रियोहुर्णिशे महातंत्रराजे देवीश्वरसंवादे चतुर्दशः पट्टः १४

अथ सर्वरक्षाकरं कवचम् ।

**श्रीदेव्युवाच—भगवन्देवदेवेशा सर्वाऽमायप्र-  
पूजित । सर्वं भे काथितं देवं कवचं न प्रका-**

शितम् ॥ प्राप्तादाख्यस्य मंत्रस्य कवचं मे  
प्रकाशय । सर्वरक्षाकरं देव यदि एनेहोऽस्ति  
सम्प्रति ।

श्रीदेवीजी कहनेलग्नीं । हे भगवन् ! हे देवदेवेश ! हे सर्वा-  
म्नायपूर्णि त ! देव ! सब छुछ आपने मेरे सन्मुख दर्णन किया  
परन्तु कवचका वर्णन नहीं किया सो अब कृपापूर्वक प्राप्ता-  
दाख्य मंत्रका कवच वर्णन कीजिये जो कि सर्व रक्षाओंका  
करनेव ला है ।

श्रीभगवान्नुवाच—प्राप्तादमन्त्रकवचस्य वामदेव-  
ऋषिः । पंत्तिद्दण्डः । सदाशिवो देवता । साध-  
काभीष्टसिद्धये विनियोगः प्रकीर्तिः । शिरो मे  
सर्वदा पातु प्राप्तादाख्यः सदाशिवः । षडक्षरस्व-  
रूपो मे वदनं च महेश्वरः ॥ पंचाश्रात्मा भग-  
वान् भुजौ मे परिरक्षतु । मृत्युञ्जयस्त्रिवीजात्मा  
आयु रक्षतु मे सदा ॥ वटसूलस्त्रासीनो दक्षि-  
णामूर्तिस्खययः । सदा मां सर्वतः पातु पद्मिनिश्च-

र्णरूपधूक् ॥ द्वाविंशार्णात्मको रुद्रः कुशौ मे  
परिरक्षतु । त्रिवर्णात्मा नलिकण्ठः कण्ठं रक्षतु  
सर्वदा ॥ चिन्तामणिर्बीजरूपे सर्वनारीश्वरो हरः ।  
सदा रक्षतु मे शुद्धं सर्वसम्पत्प्रदायकः ॥ एका-  
क्षरस्वरूपात्मा कूटरूपी महेश्वरः । मार्त्तिर्डभै-  
रवो नित्यं पादौ मे परिरक्षतु ॥ ओमित्याख्यो  
महाबीजस्वरूपस्त्रिपुरान्तकः । सदा मा रण-  
धूमौ तु रक्षतु त्रिदशाधिपः ॥ ऊर्ध्वमूर्द्धनिमी-  
शानो यम रक्षतु सर्वदा । दक्षिणस्यां तत्पुरुषो  
अव्यान्मे गिरिनायकः ॥ अघोराख्यो महादेवः  
पूर्वस्यां परिरक्षतु । वामदेवः पश्चिमस्यां सदा  
मे परिरक्षतु ॥ उत्तरस्यां सदा पातु सद्योजात-  
स्वरूपधूक् ॥

श्रीविष्णुभगवान् कहनेलगे । प्रासादमंत्रं कवचका वामदेव  
ऋषि पांक्षिङ्गंद, सदाशिव देवता है साधक भीषणिद्विके अर्थ  
विनियोग है । प्रासादाख्य सदाशिव मेरे शिरोभागकी "रक्षा

## मापाठीकासमेतः ।

करें, पड़क्षर स्वरूप महेश्वर, मेरे मुखकी रक्षा करें । पंचाक्षरात्मा भगवान् शिव मेरी दोनों भुजाओंकी रक्षा करें । त्रिवी-जात्मा मृत्युंजय सदा मेरी आयुकी रक्षा करें । वटवृक्षकी मूलमें स्थित अव्यय दक्षिणामूर्ति, पद्मविशत् ( ३६ ) अर्ण-रूप धारण करनेवाले सदाशिव सर्वदा समस्त स्थानोंमें मेरी रक्षा करें । द्वार्विशवर्णात्मक सूदर्देव मेरी दोनों कुक्षियोंकी रक्षा करें । त्रिवर्णात्मक नीलकंठ मेरे कंठिकी रक्षा करें । चिंतामणि, सर्व नाडियोंमें वीजरूप ईश्वर हर सदा मेरे गुह्य देशकी रक्षा करें । सर्वसम्पत्तदाता एकाक्षर स्वरूपात्मा, कुटरूपी महेश्वर, मार्त्तिङ्ग, भैरव, नित्य मेरे पादकी रक्षा करें औँ इस आत्मा ( नाम ) को धारण करनेवाले, महावीजस्वरूप त्रिपुरांतक, त्रिदशाधिष, सदा संग्रामभूमिमें मेरी रक्षा करें । ईशान ऊर्ध्व-भागमें मेरी रक्षा करें । गिरिनायक तत्पुरुष दक्षिण दिशामें मेरी रक्षा करें । अधोराख्य महादेव पूर्वदिशामें मेरी रक्षा करें । वामदेव पश्चिम दिशामें मेरी रक्षा करें । सद्योजात स्वरूपधृक् उत्तर दिशामें मेरी रक्षा करें ।

इत्थं रक्षाकरं देवि कवचं देवद्वुर्लभम् । प्रातः-  
काले पठेद्यस्तु सोऽभीष्टफलमाप्नुयात् ॥ पूजा-  
काले पठेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे । देवा-

मनुष्या गन्धर्वा वश्यास्तस्य न संशयः । कवचं  
यस्तु शिरसि धारयेद्यादि सानवः ॥ करस्था-  
स्तस्य देवेशि अणिमाद्यप्रसिद्धयः । स्वर्णपत्रे  
त्विमां विद्यां शुद्धपट्टेन वेष्टिताम् ॥ राजतोदरसं-  
विष्टां कृत्वा च धारयेत्सुधीः । संप्राप्य महतीं  
लङ्घमीमन्त्रं च शिवरूपधृक् । यस्मै कर्म्मै न  
दातव्यं न प्रकाशयं कदाचन ॥ शिष्याय भक्ति-  
युक्ताय साधकाय प्रकाशयेत् । अन्यथा सिद्धि-  
हानिः स्यात् सत्यमेतत्मनोरमे ॥ तब स्नेहान्म-  
हादेवि कथितं कवचं शुभम् । न देयं कस्य  
चिद्दद्वे यदीच्छेदात्मनो हितम् ॥ योऽर्चयेद्गूढन्ध-  
घुप्पाद्यैः कवचं मन्मुखोदितम् । तेनार्चिता  
दहादेवि सर्वे देवा न संशयः ॥

हे देवि ! इसप्रकार देवताओंको दुर्लभ इस कवचराजका जो  
मनुष्य प्रातःकालके समय पाठ करते हैं उनको वांछासिद्धि प्राप्त

मापादीकासमैतः । ( १०५ )

होती है । जो साधक लोग पूजन समय इस कवचराजको दक्षिण  
भुजामें रख पाठ करते हैं उनके बड़य ( आधीन ) देव, मनुष्य,  
गन्धर्व रहते हैं, इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है । जो मनुष्य  
कवचको शिरमें धारण करते हैं, हे देवि उन साधकोंके हाथमें  
ही अणिमादि घटसिद्धियाँ वास करती हैं । इस कवचको स्वर्णफ  
पत्र ( तावीज ) में बंदकर शेत पट्टवस्त्रसे बेष्टित करे । अथवा  
चांदीके तावीजमें बंद कर सफेद रेतमें सुत्रसंपंचर भुजा या  
कंठदेशमें धारण करे तो महालक्ष्मीकी प्राप्ति ही और अंतकालमें  
शिवरूप होके कैलासमें वास करे परन्तु खीको वाम भुजा और  
पुरुषको दक्षिण भुजामें यह यंत्र राज धारण करना चाहिये ।  
साधकके बिना अन्य किसी धूर्त पुरुषको यह यंत्रराज न देना  
और न प्रकाश करना भक्तियुक्त शिष्यके निकट प्रकाश करना  
अन्यथा व्यवहार करनेसे सिद्धि हानि होती है, हे महादेवि ।  
यह कवच तुम्हारे स्नेहसे कहागया है, हे भद्र ! अपने शुभकी  
दृच्छा करनेवाला साधक यह कवचराज जिस किसीको न दे ।  
हे महादेवि ! जो साधक मेरे मुखसे निकले इस कवचराजका  
गंध पुष्पादिसे पूजन करते हैं मानो उन्होंने समस्त दंवताधंको  
पूजन कर लिया इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं ।

इति क्रियोदीये महातन्त्रराजेन्द्रेवीश्वरसंवादे पंचदशः पटलः । १५।

( १०४ )

कियोद्वीक्षः ।

अथ ऋग्वकमृत्युज्ञयमन्त्रः ।

श्रीदेव्युपाच—इदानीं श्रोतुमिच्छा॥मि पूर्वसुक्तं च  
ऋग्वकम् । प्रभेदे कथितं देव शान्ति मृतसंजी-  
वनीय ॥

श्रीदेवीजी कहनेलगा । हे देव ! अब ऋग्वक प्रयोगके श्रवण  
करनेका इच्छा है ।

ईश्वर उवाच । शृणु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वं  
परिपृच्छासि ॥ सातृणां तिसृणामस्व गर्भजातो  
यतो हरः ॥ अतस्त्वयम्बक इत्युक्तं मम नाम  
महेश्वरि । वशिष्ठोऽस्य ऋषिः प्रोक्तश्छन्दोऽनुष्टु-  
पुद्वाहृतः । देवताऽस्य समुद्दिष्टस्त्वयम्बकः पार्वती-  
पतिः । विभक्त्तर्मन्त्रवर्णेण्थ पद्मंगानां च कल्प-  
नाम् ॥ ततश्च वाहिनीजेन समन्ताजलधारया ।  
प्राचीरं चिन्तनं कुर्यात्तः संकल्पमाचरेत् ॥  
पुनः पंकल्पं देवेशि भूतशुद्धयादिकं च यत् ।  
ततः पश्चात् करन्यासं कुर्याच्च मम सुन्दरि ।

श्रीशिवजी कहनेलगे । दे देवि ! सुनो, जो तुम मुझसे वृक्षती हों, मैं हर तीन मात्रिकाओंके गर्भसे उत्पन्न हूँ । हे महेश्वरि ! इसी कारण मेरा नाम व्यम्बक है । इसका वंसिष्ठऋषि, छंद अनुप्रृष्ठ है पार्वतीपानि सदाशिव इसके देवता हैं, विमत्त मंत्र वर्णोंसे पड़ंगकल्पना करनी । फिर वद्विवीजसे जलधारा प्रक्षेप करे । प्राचीर चिन्नवन कर संकल्प करे । तत्पथ्यात् भूतशुद्धि करन्यास करे ।

व्यम्बकं अंगुष्ठाभ्यां नमः । यजामहे तर्जनीभ्यां स्वाहा । सुगंधिं पुष्टिवर्धनं सध्यमाभ्यां वषट् । उर्वारुकमिव वन्धनादनामिकाभ्या हुम् । मृत्योर्मुक्षीय कनिष्ठाभ्यां वौपद् । मासृतात् करतलपृष्ठाभ्यां फट् । एवं हृदादिषु ।

अब न्यास कहे जाते हैं । व्यम्बकं अंगुष्ठाभ्यां नमः । दोनों हाथोंके अंगृठोंको दोनों हाथोंकी तर्जनी अंगुलियोंसे स्पर्श करे । यजामहे तर्जनीभ्यां स्वाहा । इस मंत्रसे दोनों हाथोंकी तर्जनी-अंगुलियोंको दोनों हाथोंके अंगुठोंसे स्पर्श करे । एवं पांचों अंगुलियोंके और करतलपृष्ठको उक्त मन्त्रों द्वारा स्पर्श करता-जाय इसी प्रकार हृदयादिन्यास करे ।

( १०६ )

क्रियोहीशः ।

ततो द्वाविशन्मन्त्रवर्णन्यसेत् । पूर्वपञ्चमया-  
म्योत्तरेषु वक्रेषु ४ । उर्सोगलोद्वार्ण्ये ३ । पुन-  
र्नाभिहृतपृष्ठकुक्षिषु ४ । लिंगपायूरुमूलान्तेद् ।  
जानुयुग्मे २ । गुल्फयोर्युग्मे २ । स्तनयोः २ ।  
पाद्वर्णयोः २ । पादयोः २ । पाणयोः २ । नासि-  
कयोः २ । शीर्षे १ । मन्त्रवर्णन्यसेत्क्रमात्  
पुनस्ततः पादाद्येकादशस्थानेषु न्यसेत् ।  
शिरो १ भूयुगला १ क्षिषु १ वक्रे १ गण्डयुगे  
१ भुजयोः २ हृदये १ जठरे १ पुनः गुह्यो १  
रु १ जानु १ पादेषु १ न्यासमेवं समाचरेत् ।

तत्पश्चात् २२ वर्णोद्धारा न्यास करे । पूर्व, पश्चिम, दक्षिण,  
उत्तर मुखमें ४ । वक्षस्थल, गलप्रदेश, अर्धमुखमें न्यास करे ३ ।  
फिर नाभि, हृदय, पीठ, कुक्षियोंमें न्यास करे ४ । पुंसचिह्न  
गुदप्रदेश, जंघामूलांतमें न्यास करे ६ । दोनों जानुओंमें न्या०  
२ । दोनों गुल्फोंमें न्या० २ । दोनों स्तनोंमें न्यास करे २ ।  
दोनों पाश्चोंमें न्या० २ । दोनों चरणोंमें न्या० २ । दोनों  
हाथोंमें न्यास करे २ ।

दोनों नासिकाके छिद्रोंमें न्या० २ । शिरमें न्यास ३ । फिर पादादि ११ स्थानोंमें न्यास करे । शिर दोनों भौं, दोनों नेत्र, मुख, दोनों कनपटी, दोनों भुजा, हृदय, उदय, इन स्थानोंमें न्यास करे । फिर गुद्य, ऊरु, जानु, पादमें न्यास करे ।

तत् उक्तध्यानेन ध्यात्वा मानसोपचारैः संपूज्य  
विशेषाध्यै संस्थाप्य शैवोक्त्पूजावाहनादिकं  
पञ्चपुष्पाञ्जलीन्दत्त्वा वरुणं पूजयेत् । अयम्बकं  
हृदयाय नमः । इत्यादि घडङ्गानि पूजयेत् ।  
ततोऽष्टपत्रेषु ॐ अर्काय नमः । एवमिन्दवे वसु-  
धायै जलाय वह्नये वायवे व्योम्ने यजमानाय  
तद्वाह्ये पूर्वोदितः ॐ रामाय नमः । ॐ राक्षायै  
नमः । ॐ प्रभायै नमः । ॐ ज्योत्स्नायै नमः ।  
ॐ पूर्णायै नमः । ॐ उपसे नमः । ॐ पूर्णायै  
नमः । ॐ स्वधायै नमः । ॐ विश्वायै नमः । ॐ  
विद्यायै नमः । ॐ सितायै नमः । ॐ कृत्यै नमः ।  
ॐ श्रद्धायै नमः । ॐ सारायै नमः । ॐ सन्ध्यायै

( १०८ )

कियोह्नीशः ।

नमः । अँ दिवायै नमः । अँ निशायै नमः ।  
 तद्वाह्ये अँ आर्यायै नमः । अँ आर्द्धायै नमः ।  
 अँ प्रज्ञायै नमः । अँ मेधायै नमः । अँ कान्त्यै  
 नमः । अँ ज्ञान्त्यै नमः । अँ पुष्ट्यै नमः । अँ  
 बुद्ध्यै नमः । अँ धृत्यै नमः । अँ मत्यै नमः ।  
 ततो धूपादिविसर्जनान्तं कर्म समापयेत् ।

तत्पथात् उक्त ध्यानसे ध्यानकर मानसिक पूजनकर, विशेष  
 अर्ध्य स्थापन कर, शैवोक्त पूजन तथा आवाहनादि करके पंच  
 पुष्पांजलि प्रदानकर वरण पूजन करे । इयम्बकं हृदयाय नमः  
 इत्यादि पड़ंग पूजन करे । फिर अष्टदल कमलके मध्यमें इन  
 नाम मन्त्रोऽहारा पूजन करे । अर्काय नमः । इन्द्रवे नमः । धंसु-  
 धायै नमः । जलाय नमः । वहन्ये नमः । वायवे नमः । व्योम्ने  
 नमः । वजमानाय नमः । कमलदलके बाहिर भागमें पूर्वादि  
 क्रमानुसार पूजन करे । ओं रामाय नमः । ओं राकायै नमः ।  
 ओं प्रभायै नमः । ओं ज्योत्स्नायै नमः । ओं पूर्णायै नमः ।  
 ओं उपसे नमः । ओं पूपायै नमः । ओं स्वधायै नमः । ओं  
 विश्वायै नमः । ओं विद्यायै नमः । ओं सितायै नमः । ओं

कृत्यै नमः । ओं श्रद्धायै नमः । ओं सारायै नमः । ओं संध्यायै नमः । ओं दिवायै नमः । ओं निशायै नमः । वहिर्भागमें ओं आर्यायै नमः । ओं आर्द्धायै नमः । ओं प्रज्ञायै नमः । ओं मेधायै नमः । ओं छान्त्यै नमः । ओं शांत्यै नमः । ओं पुष्ट्यै नमः । ओं बुद्ध्यै नमः । ओं धृत्यै नमः । ओं मत्यै नमः । तदनन्तर धूप आदि विसर्जनान्त कर्म समाप्त करें ।

प्रयोगस्तु शनैश्चरे कुजे वा अश्वत्थमूलं स्पृष्टा  
सहस्रं जपेत् । पुरथरणविधानेन सर्वं कुर्यान्महे-  
श्वरि । साक्षात्मृत्योर्विमुच्येत् किमन्याः क्षुद्रिकाः  
क्रियाः । प्रत्यहं जुहुयान्मन्त्री चतुःस्थिण्डलविधा-  
नतः । द्विसहस्रं द्वौर्वावटजवाभिः कर्खीरकैः ।  
विल्वपत्रं पलाशश्च तथा कृष्णापराजिता । वट  
बृक्षस्य समिधं जुहुयादयुतावधि ॥ धनधात्यस-  
मृष्टिः स्यात्सत्यं सत्यं महेश्वरि ।

इसका प्रयोग शनिवार अथवा मंगलके दिन करे और अश्वत्थ ( पीपल ) बृक्षको स्पर्शकर एक हजार मंत्र जप करे । हे महेश्वरि ! पुरथरणविधानसे समस्त प्रयोग करो । इस प्रयोगके करनेसे साक्षात्

( ११० )

क्रियोद्गीशः ।

मृत्युसे मुक्ति प्राप्त होती है तो अन्य भुद्र क्रियाओंका तो कहे नाही क्या है । मन्त्रीको योग्य है कि प्रतिदिन चतुर्थंडिल विधानपूर्वक ध्वन करे । दो हजार द्वचकं नाल, जवा, कंनरके पुण्य, बिल्वपत्र, हाककी समिधा, कृष्ण वपराजिता, वटबृक्षकी समिधा इन सब वस्तुओंसे दशहजार ध्वन करे तो अवश्य धन धान्यकी वृद्धि होवे । हे देवि ! यह बात सत्य जानो ।

मृतसञ्जीविनी विद्या ।

अतः परं देवि शृणु मृतसंजीविनीं तथा ॥  
 आदौ प्राप्ताद्वीजं तद्गु मृतिहरं तारकं व्याहृतिं  
 च प्रोचार्य व्यम्बकं यो जपति च सततं संपुटं  
 चानुलोमम् । व्यम्बकमिति मृत्युंजयमंत्रस्य  
 जपात् सर्वसिद्धिर्भवति । एतन्मंत्रं जपेदाशु  
 व्याधिमुक्तो भवेदध्रुवम् ।

अब मृतसंजीविनी विद्या कहीजाती है हे देवि ! तुम श्रवण करो । प्रथम प्राप्ताद्वीजका उच्चारण करे तत्पश्चात् मृतिहर वीजका नारक नथा व्याहृतिको उच्चारण करे जो साधक लोग निरन्तर संपुट नथा अनुलोम व्यम्बक मंत्रका जाप करते हैं उनको

मापादीकासमेतः । ( १११ )

मृत्युंजय व्यम्बक मंत्रके प्रसादसे सर्वासिद्धि प्राप्त होती है । इस मंत्रके जापसे शीघ्रव्याधि दूर होती है ।

ध्यानं शूणु महादेवि । स्वच्छं स्वच्छारविन्दुं  
स्थितसुभयकरे संस्थितौ पूर्णकुंभौ पाण्यो-  
हैलाक्षमाले निजकरकमले द्वौ घटौ नित्य-  
पूर्णौ । द्वाभ्यां तौ च स्वन्तौ शिरसि शशि-  
कला चासृतैः पूर्वयन्तीं देहं देवो दंधाने  
विदिशात् विशदा कल्पजालां श्रियं नः ॥ एवं  
ध्यात्वा व्यंवकाय महारुद्राय नमः ॥ महा-  
घोरं यदि तदा पूजयेत्परमेश्वरम् । ततः सुर-  
मुन्दरीत्यादियोगिनीसाधनम् । ततो भूति-  
नीसाधनम् ।

हे महादेवि! अब ध्यान सुनो । दो हाथोंमें स्वच्छ कमलदलके भारण करनेवाले दो हाथोंमें पूर्णकुम्भ धारण करनेवाले, दो हाथोंमें हेलार्थ अक्षमाला धारण करनेवाले, दो हाथोंमें पूर्ण और साक्षी घट धारण करनेवाले शिरोभागमें असृतस्त्राविणी शशिदला धारण करनेवाले, ऐसे देवदेव श्रीसदाशिव कल्पकल्पांततक

( ११२ )

क्रियोङ्गीवाः ।

हम लोगोंको उत्तम लक्ष्मीप्रदान करे । इस प्रकार ध्यान करे व्यव्हक और महारुद्रका यदि महाघोर मंत्रका जप करे तो परमेश्वर सदाशिवका ध्यान करे । तत्पश्चात् सुरसुन्दरी आदि योगिनी साधन करे प्रथम भूतिनीसाधन ।

अथ भूतिनीसाधनम् ।

श्रीदेव्युवाच । योगिनीसाधनं ज्ञातं भूतिनीसा-  
धनोत्तमम् । तद्वदस्य महादेव कृपास्ति यदि  
मां प्रति ।

श्रीदेवीजी कहनेलगीं । हे देव ! योगिनीसाधन तो जाना अब यदि आपकी पूर्ण कृपा हो तो भूतिनीसाधनको भी सुनाइये ।

श्रीईश्वर उवाच । आद्या विभूषिणी देवी  
परा कुण्डलधारिणी । हारिणी सिंहिनी चैव  
हांसिनी च ततो नटी । कामेश्वरी तथा प्रोक्ता  
रतिदेवी ततः प्रिया । इत्यष्टौ नायिकाः प्रोक्ताः  
साधकानां सुखावहाः ।

श्रीशिवजी कहनेलगे । हे प्रिये ! आठ नायिकाः साधकर्ग-  
को सुख देनेवाली है उनके पृथक् २ नाम सुनों । आद्या विभू-  
षिणी १, परा कुण्डलधारिणी २, हारिणी ३, सिंहिनी

मापादीकासमेतः । ( ११३ )

४ । हस्तिनी ६ । नटी ६ ।, कामेश्वरी ७ ।, प्रिया रतिदेवी ८ ।  
यह आठ नाथिका साधकोंके सुखार्थ कही हैं ।

अथ आद्याविभूषिणीसाधनम् ।

यथा मंत्रं महेशानि आद्या विभूषिणी तथा ।  
मंत्रः । हूं फट् फट् हीं भूतिनीं हूं हूं हूं । क्रोधा-  
स्त्रद्वयं मायते भूतिनी च त्रिकूर्चतः ।  
अथवा शूणु देवोशि उँ हीं हीं फट् फट्  
विभूषिणी हूं हूं । तारं लज्जाद्यास्त्रद्वयं विभूषि-  
णीक्रोधद्वयम् ।

हे देवि ! यथामंत्र आद्याविभूषिणीका साधन करना योग्य  
है । यह मंत्र है । हूं फट् फट् हीं भूतिनी हूं हूं हूं । क्रोधास्त्रद्वय,  
मायान्त्रमें भूतिनी बीज, त्रिकूर्च मिश्रित करे । हे देवोशि ! और  
भी सुनो उँ हीं हीं फट् फट् विभूषिणी हूं हूं हूं । तार, लज्जा-  
द्यास्त्रद्वयविभूषिणी क्रोधद्वयमिश्रित करे ।

अथ ध्यानम् ।

दक्षे कर्त्तरिकां परेऽसिलतिकां हस्ताब्जके  
बिन्नती हुचुंगस्तनशोभिवक्षसि चलैहरा-  
दिभिः शोभिता । दन्तान्तर्गतमासशोणितवसा-

( ११४ )

कियोङ्गीशः ।

**सिंकार्ति यस्यास्तनूः कालश्यामलवर्णिकाम्र-  
गभुजंगेवेष्टिता रक्षतु ।**

अब ध्यान कहाजाता है। एक हाथमें कर्ती और दूसरे हाथमें तलवार धारण करनेवाली ऊंचे कुम्भ तुल्य स्तनवाली, हृदयमें आभृपण धारण करनेवाली, दाँतोंके अप्रभागसे हुएष्टोंके मांस शोणितको तथा चर्वीको चावकर पीनेसे जिसका देह भीग गया है और कालके तुल्य इयामवर्णवाली, रसालवृक्षके आश्रित व्यालवर्गसे सुशोभित पृष्ठदेशवाली ऐसी पर्वतवासिनी देवी रक्षा करे ।

स्थानं वृक्षतले तत्र यामिन्यां दिवसत्रयम् ।  
जपेदप्तसहस्रं तु ध्यायेदेकाग्रमानसः । जपान्ते  
च महापूजा पुनर्धूपं निवेदयेत् । चन्दनोदक्षमि-  
श्रेण हृत्त्वाध्यै तुप्यति ध्रुवम् । माता वा भयिनी  
भार्या हृष्टा भवति कामिता । करामलकर्ता  
कृत्वा माता भूत्वा जगत्त्रयम् । शताष्परिवारस्य  
ददात्यंजनभूषणम् । भयिनी चेन्द्रहाभागा सह-  
स्रयोजनादपि ।

ददाति स्त्रियमानीय दिव्यं रसं रसायनम् ।  
 भार्या चेत्पृष्ठमारोप्य रवर्गं प्रयाति नित्यह्नाः ।  
 दीनाशाणां सहस्रन्तु रसं चैव रसायनम् । सर्वाशाँ  
 पूरथत्येव सदा देवी विभूषिणी ।

तीन रात्रिक अश्वत्थ वृक्षके नीचे वासकर आठ हजार मंत्र जपे और एकांग्रमनसे ध्यान करे जपान्तमें महापूजा करे और फिर धूप प्रदान करे । चन्दनमिश्रित अर्घप्रदान करनेसे देवता विशेष प्रसन्न होती है । कामनार्थ माता, भागिनी, भार्या इस प्रकार इन स्वरूपोंका ध्यानकर पूजन करे तो देवता अत्यन्त प्रसन्न हो अभीष्ट प्रदान करे । मातारूप देवता प्रसन्न हो दिव्य दृष्टि होती है । भागिनीरूप देवता प्रसन्न हो सहस्रयोजन ४००० ( कोस ) दूरमें स्थित दिव्यरस और रसायन तथा खीको क्षणभरमें ला सामने उपस्थित करदेती है । भार्यारूप देवता रस, रसायन, तथा असर्कियोंको अपनी पृष्ठमें लादकर कुर्वेके भण्डारसे लाकर सामने उपस्थित करदेती है । विशेष क्या खीरूपसे ध्यान करी हुई आद्य विभूषिणी देवी खीके तुल्य समस्त आशा पूर्ण कर नेमे समर्थ होती है ।

अथ परकुण्डलिनीसाधनम् ।

परकुण्डलिनीध्यानं शृणु देवि महेश्वरि । क्वर्णे  
 कुण्डलधारिणी शशिमुखी लीलावती सस्मित

( ११६ )

क्रियोहुीशः ।

शैलश्रोणिविलम्बिकाञ्चित्ताव्यामुग्धलोकत्रया।  
शुक्लाहारमरीचिकान्तिविलसत्प्रोचुंगकुम्भस्तनी  
पायात्कुण्डलधारिणी विजगतामानन्दसन्दोहभूः।

हे देवि पराकुण्डलधारिणीका ध्यान सुनो । कानोंमें कुण्ड-  
लोंसे सुशोभित, चन्द्रमाके तुल्य मुखवाली, लीलावती, मन्द-  
मन्द मुसकान करनेवाली, पर्वतस्थ प्रोणितटमें विततकांची  
धारण करनेवाली, तीनों लोकोंको मुग्ध करनेवाली, मोतियोंके  
हारकी कान्तिसे विभूषित, उच्चत कुम्भके तुल्य स्तनोवाली,  
तीनों लोकोंको आनन्द देनेवाली पृथिवीस्वरूपा कुण्डलधारिणी  
योगिनी हमारी रक्षा करे ।

इमशाने पूजयेदेतामयुतं जपमाचिरेत् । आ-  
याति तत्क्षणादेवी ततः कुण्डलधारिणी । साध-  
केनापि रक्ताधैर्यं देयं तुष्टा वदत्यपि । किं कर्तव्यं  
मया वत्स मातरुत्वेति साधकः । पञ्चाशतञ्च  
षट्निरारान्देहि बैलोक्यदायिनि ।

यह प्रयोग इमशानमें करने योग्य है, और १०००० जप  
करे । तत्क्षणमें प्रसन्न हुई कुण्डलधारिणी देवी साधकके सम्मुख

भाषादीकासमेतः । ( ११७ )

आ उपास्थित होती है । प्रसन्नचित्त साधक रक्त अर्थं प्रदानकरे  
तो देवता प्रसन्न हो कहे कि हे वत्स ! अब मुक्तको क्या कर्तव्य  
है, आज्ञादे, तब साधक कह हे मातः ! तुम बैलोक्यदाता हो,  
अतः पचाश असर्कीं मुक्तको भी दो ।

अथ सिन्दूरहारणीसाधनम् ।

अतः परन्तु चार्विंशि सिन्दूरहारणीमित्रुः ॥  
क्रोधद्वयेन्दुसंयुक्तः सिन्दूरहारणीपदम् । कूर्चवी-  
जत्रयं चास्त्रं सम्प्रोक्तं विविधं तथा ।

अब सिन्दूरहारणी योगिनीका साधनप्रकार कहाजाता है ।  
हे चार्विंशि ! सिन्दूरहारणी योगिनीका मन्त्र श्रवण करो । इन्दु  
संयुक्त क्रोधद्वय कूर्चवीजत्रय अस्त्र इनको मिश्रितकर हारणी  
योगिनीका मन्त्रोद्धार होता है ।

ध्यानम् । सिन्दूराकृतिहारणी चलद्लव्या-  
लोळ शाखास्वरा सोत्कण्ठीकृतगात्रयष्टिशुभगा-  
शुभ्रांशुचन्द्रस्मिता । अन्तः सन्ततदंतकांतिम-  
मलिना बैलोक्यशोभाकरी पायादुन्नतवाहुयुग्म-  
लतिका सिन्दूरहारण्यसौ ।

( ११८ )

क्रियोहीशः ।

सिन्दूरके तुल्य आकृतिवाली, शशुभर्गको हरणकरनेवाली  
सकम्पस्वग, उत्कण्टायुक्त देहसे शोभित, उज्ज्वलहास्यपूर्ण  
मलिनदन्तकान्ति, तीनों लोकोंकी शोभा करनेवाली, दीर्घवाहु-  
युक्त सिन्दूरहारिणी योगिनी हमारी रक्षा करे ।

ज्ञान्ये देवालये गत्वा निर्जने निश्चि साधकः ।

तत्त्वसंख्यदिनं यावज्पत्तत्त्व-( २६ ) सह-

स्थकः ॥ तदन्ते यहतीं पूजां वस्त्रालंकारभूपणैः।

कुर्यात्साधकवर्यस्तु भार्या भवति कामिता ॥

वरं वरय शीघ्रं त्वं प्रोक्ता सिन्दूरहारिणी । रक्षति

द्वादशदिनं देवी सिन्दूरहारिणी ।

साधक २६ दिनतक निर्जन देवस्थानमें रात्रिके समय २६  
हजार जप करे तदनन्तर महापूजा कर वस्त्र और भूपणादिसे  
देवताको अलंकृत करे तो कामिता भार्या होय; और उसी  
समय सिन्दूरहारिणी सम्मुख आकर कहेगी है साधक ! वर  
मांग और द्वादश ( १२ ) दिनतक देवी सिन्दूरहारिणी रक्षा  
करनेमें समर्थ होगी ।

अथ सिंहनीसाधनम् ।

अतः घरं देवि शृणु सिंहन्याश्च महाक्षत्रम् ।

मायादीकासमेतः । ( ११९ )

मायाद्वयं क्रोधद्वयं सिंहिनीति पदन्ततः ॥ पुनः  
क्रोधं तदन्ते च सिंहिनी च महामनुः ॥ हीं हीं  
फट् फट् सिंहिनी हूं हूं फट् । शैलाये निर्जने  
वापि सिंहिन्याः पूजनं तथा ।

अब सिंहिनी साधन कहाजाता है । हे देवि । सिंहिनीके  
महामन्त्रको मुनो । दो मायावीज ( हीं हीं ) दो क्रोधवीज  
( फट् फट् सिंहिनी पद फिर क्रोधवीज ( हूं हूं फट् )के मिश्रित  
करनेसे सिंहिनीका मन्त्र होता है, यथा “हीं हीं फट् फट् सिंहिनी  
हूं हूं फट्” । सिंहिनी देवीका पूजन पर्यन्त अथवा निर्जन  
स्थानमें करे ।

ध्यानम्—शैलायकमदुर्गमन्तु अटवीदुर्गस्तु  
देत्याहते केशायस्थसमस्तविष्णुचरणं प्रभ्रष्टसं-  
सिंहिनी । यावन्तो बलदण्डवारणवलात् प्रक्षु क्ष-  
सिद्धांगना शंपं पातु समस्तमन्तककुलव्याकल्प-  
मानाकला ।

यह सिंहिनी योगिनीका ध्यानमंत्र है । यह ध्यानमंत्र पूजन  
समय उच्चारण करना योग्य है ।

( १२० )

क्षियोऽहीशः ।

गत्वैकलिंगं यामिन्यां प्रजपेदयुतं मनुम् । ततो  
हष्टातिवरदा सिहिनी चेति पूजिता ॥ किं करोऽसि  
वदत्येव शार्या भवति कासिता । दिनावसाने  
यामिन्यां सिहिन्यायाति राति च । वस्त्रयुग्मं इस-  
मयं साधकाय दिनं दिने ।

शिवमंडिगमें गत्वि समय जाकर १०००० मंत्र जप करें ।  
इम प्रकार मंत्रके जप और पूजनके घरनमें चम्दा सिहिनी देवी  
प्रसन्नहो नाथकरे करेंगी कि हो नाथक ! आजाकर अब मेंग  
रण कर्जव्य है । सिहिनी देवी दिनावसान ( मायकाल ) में  
नाथकको यममुख स्थित हो नाथकको वस्त्रयुग्म और इसमव  
पदार्थ प्रतिदिन प्रदान करेंगी ।

हंसिनीसाधनम् ।

अतः परं शृणु चार्येणि हंसिनीसाधनक्षमम् ।  
उँ हूं हूं हूं फहं हंसिनी । प्रणवञ्च चित्रचांस्त्रहं  
सिनी कपितो मनुः ।

अब हंसिनीसाधन प्रकार कहाजाना है । हे चार्येणि ! अब  
हंसिनी योगिनीके नाथन प्रकारको मुनो । उँ है हूं हूं फहं  
हंसिनी । यद हंसिनीके साधन प्रकारका मंत्र है ।

ध्यानम्—शुद्धा शुद्ध्रेसरोजतुल्यनयना सायुगम-  
वाणान्विता शूश्रृपाकुलमुधसाध्यवनिता संसेविता  
सादरम् । किञ्चित्तिर्थगपांगलोलवालितव्यामुग्ध-  
स्थेशनना दिव्या काञ्चनरत्नहारलालिता श्रीहि-  
सिनी पातु नः ।

भेतवर्ण, शतकमलदलके तुल्य नेत्रवाली, युग्म ( दो ) घरसे  
व्याप्त, सेवाम तत्पर, मृद माध्य वधूगणसे आदरपूर्वक सेवित कुछ  
एक अपाङ्ग भागको तिरचा तिरचाकर मधुर हास्य करनेवाली  
मनोहर सुर्योर्णकी याला धारण करनेवाली देवी हंसिनी हमारी  
रक्षाकरे ।

वत्रपाणिर्गृहं गत्वा प्रतिसां शोभनां लिखेत् ।  
अवधानेन संपूज्य जपेदयुतसंख्यकम् ॥ याव-  
दर्ढनिशा देवि ! हंसिन्यायाति निश्चितम् । चंद-  
नार्थप्रदानेन हृषा भवाति हंसिनी ॥ किं मया ते  
प्रकर्तव्यं शीश्रं तद्वद् साधक । वस्त्रालंकारभो-  
ज्यानि दिव्यार्थं संप्रयच्छाति । अवशेषव्ययाभा-  
वान्न ददाति प्रकृप्यते ।

( १२२ )

किंत्योङ्गिः ।

दृस्तमें वज्रको लेकर गृहमें प्रवेश करे और जीभाषमान हंसि-  
नीकी प्रतिमाको लिखे । सावधान होकर १००००। दशहजार  
मंत्रका जप करना योग्य है । हे देवि ! अर्द्धरात्रिके समय हंसिनी  
देवी साधकके सम्मुख आकर स्वयं उपस्थित होगी उस समय  
साधकको योग्य है कि चन्दनादि पूजाद्रव्यद्वारा देवीका पूजन  
आनन्दपूर्वक करे यही देवताको प्रसन्न करनेका महोपाय है । इस  
विधानके अनन्तर देवी साधकसंकरेंगी कि हे साधक ! इस समय  
मुझको क्या करना चाहिये आज्ञा कर ऐसा कह साधकको वस्त्र  
अलंकार, भोज्य आदि पदार्थ देती है तब साधकको योग्य है कि  
उक्त लक्ष्य पदार्थोंको अपने व्यवसें अधिक अपने पास न रखें  
किन्तु दीन दुःखियोंको दान करदे अन्यथा देवी कोध करती है ।

अथ नटीसाधनम् ।

इतः परं महामाये शृणु मे नटीसाधनम् । “ॐ  
हूँ हूँ फट फट नटी हूँ हूँ हूँ ” ॥ तारं कूर्चको-  
धात्तद्वयतो नटीति पदमुछरेत् । कूर्चत्रयन्तु  
मन्त्रोऽयं काथितो नतैकीमनुः ।

हे महामाये ! अब नटी योगिनीका साधन सुनो । प्रथम नटी  
मन्त्र कहाजाताहै बीजोंद्वारानुसार ॐ हूँ हूँ फट फट नटी हूँ हूँ हूँ ।

ध्यानम्—फुलेन्दीवरसुन्दरोदरमुखी प्रोत्तुङ्गकुम्भ-  
स्तनी सृगयुग्मनयना सानन्दाह्लादस्मिता क्षीरा-  
म्भोनिधित्प्रभवा विलसिता मानुपवैरविनाशिनी  
वीणासंगीतशालिनी मणिमयकुण्डले कर्णे धार-  
णतत्परा व्याहारवाक्चातुरी ।

अब ध्यान कहाजाताहै । प्रफुल्लितकमलदलके सदृश मुख  
तथा उदगवाली उच्च कलशके तुल्य स्तनवाली, मीनके तुल्य  
चंचल द्वे नेत्रोंको धारण करनेवाली, आनन्दपूर्वक मंद २ हास्य  
करनेवाली, क्षीरसागरसे उत्पन्न हुई, भक्तोंके शशुओंको नाश  
करनेवाली, वीणायुक्त मनोहर गान करनेवाली, मणि जटित  
कुण्डलोंवाली कानमें धारण करनेवाली, मनोहरवाणी बोलनेवाली  
नदी योगिनीका हम ध्यान करते हैं ।

नीचपाशं गमं गत्वा सप्ताहजपूजने । नदी सुसिद्धा  
भवति धूपं दद्यान्मुहुर्सुर्हुः ॥ चन्दनेनाधर्थं देयन्तु  
नेवेद्यञ्च मनोहरम् । सदा कामभोगदात्री भार्या  
भवति नर्तकी ॥ सुवर्णफलमेकन्तु व्ययं त्यक्त्वा-  
नुगच्छति । दिने दिने नदी देवी स्थायिनी भवति  
धूपम् ।

( १२४ )

## कियोङ्गुणिः ।

नीच स्थानमें एक समाह इस प्रयोगको करे और मंत्रज-  
पभी करे । वारम्बार धूपके देनेसे देवी प्रसन्न होती है और  
तत्क्षण सिद्धि प्राप्त होती है । चन्दनमिश्रित अर्ध प्रदान कर  
मनोहर नैवेद्य प्रदान करे तो नर्तकी सर्वदा स्त्रीवत् प्रसन्न हो काम  
भोग प्रदान करेगी । औग प्रतिदिन नटी देवी साधकके सर्वके  
लिये एक सुवर्ण फल प्रदान कर स्थिर रहेगी ।

अथ चेटीसाधनम् ।

अतः परं महादेवि चेट्या आकर्षणं शृणु ।  
मन्त्रो यथा-तारं कूर्जद्वयान्ते च अह्मयुग्मं  
ततः परम् । चेटी क्रोधद्वयश्चोक्तं चेटीमन्त्रोत्त-  
मोक्तमः ।

अब चेटीसाधन प्रकार कहाजातहै । हे देवि । चेटी योगिनीके  
आकर्षण प्रयोगको अवण करो । यह चेटीयोगिनीका मन्त्र है ।  
ॐ हूँ हूँ हूँ हूँ फट् फट् चेटी हूँ हूँ

ध्यानम्-देव्येपाऽमृतभाषिणी शाश्विसुखी  
अष्टोत्तरीयाधरा विज्ञाणा कलशं सरोजम-  
मलं-स्वर्णं च सीमतंके । श्रीखण्डादिविलेपताग-

**लवपुः सौरभ्यसंभाविता किञ्चिद्भूमिसमाहिता पि-  
करवा पायात्प्रभाचोटिक्षा ।**

जमृतभाषिणी, चन्द्रमुखाली, उत्तरीयको धारण 'करनेवाली, मनोहर अधरोष्टवाली, कमलदलवत् सुन्दर कलश धारण करने वाली, सीमन्तभागमें सुवर्ण धारणकरनेवाली, चन्दनादि विलेपसे सुगंधित शरीरवाली, कोकिलके तुल्य मनोहर कण्ठवाली चेटी योगिनी हमारी अथवा तुम्हारी रक्षा करे ।

**अत्रापि भीषणस्थाने नामोच्चारणमात्रतः ।  
ध्रुवं चेटी समागत्य चेटीकर्म करोत्यपि ॥ अ-  
थवा स्वगृहद्वारे व्यहं रात्रौ जपं चरेत् । आगत्य  
नियतं देवी चेटीकर्म करोति च ।**

भीषण स्थानमें नाममात्रके उच्चारण करनेसे निश्चय चेटी देवी आकर कर्म करनेमें समर्थ होती है अथवा निज गृहके द्वार पर तीन दिन और तीन रात्रितक मंत्र जापकरे तो चेटी देवी स्वयं आकर दासवित् कर्म करनेमें समर्थ होय ।

अथ कामेश्वरीसाधनम् ।

**कामेश्वरीप्रयोगः । तारं कूर्चास्त्रयुग्मं कामेश्वरी  
भूतिनी ततः । परं डेन्तं क्रोधवर्यं कामेश्वर्याः  
सञ्चुः स्मृतः ।**

(१२६ )

क्रियोङ्गुदाः ।

अब कामेश्वरीमाधन कहा जाताहै । यह कामेश्वरीका मंत्रोद्धार है । मन्त्र यथा । कामेश्वरी अँ है फट् फट् कामेश्वरी भूतिन्यै हैं हैं ।

ध्यानम्— अँ तालस्कन्थसमागता मधुरता  
कामन्तु पुष्पान्विता गायत्री मधुराधरा स्मित-  
मुखी वीणायुता गायती । रक्ताम्भोजविलोचना  
मधुमदेयुक्ता समन्तादियं पुष्पत्पुष्पयुर्धरामधु-  
मुखी कामश्वरी भूतिनी ॥

तालगृहमें निचाम कर्नेयाली, मधुपानमें आनक्त बहुत फ़ल  
युक्त भक्तकी गदा कर्नेयाली, सुन्दर हाँटोंवाली हँसमुखी, वीणा  
वजाकर गर्नेयाली, लाल वस्त्रके समान नेत्रवाली, गधुरानसे  
बत्त फूलदुए फूलोंका धनुप धारण कर्नेयाली कामश्वरी हमारी  
रक्षा करे ।

तत्र स्थानं समागत्य कृत्वा मांसस्य  
भक्षणम् । मांसादिना वलि दत्त्वा सहस्रं  
जपमाचरेत् ॥ मनुषकीं सहस्रन्तु जपित्वा  
सिद्धिमाप्न्यात् । जपान्निशीथमायाति रक्तनाध्ये

भाषादीकासमैतः । ( ३२७ )

निवेदयेत् । कामेश्वरी भवेन्तुष्टा भार्या भवति  
कामिता । सर्वांशां पूरयत्येव राज्यं यच्छ्राति  
निश्चितम् ।

उस स्थानपर जाय मांसका भक्षण कर तथा मांस आदिसे  
बलिदान कर एक हजार जप करै । इस प्रकार बारह हजार जप  
करनेसे अवश्य सिद्धि होती है, जप करते २ रात्रिमें रक्तका अर्ध  
देना । ऐसा करनेसे कामेश्वरी देवी सन्तुष्ट होजाती है और मन-  
मानी खी होती है संपूर्ण आशाये पूर्णकर राज्यतक देदेती है ।

अथ कुमारीसाधनम् । हूँ हूँ फट् फट् देव्यै हूँ हूँ  
हूँ । क्रोधद्वयास्त्रयुग्मं च देवीति पदमुद्धरेत् ।

डेन्तं क्रोधत्रयं गुप्तं कुमारीमन्त्रसुत्तमम् ।

कुमारीसाधन कहते हैं । ‘हूँ हूँ फट् फट् देव्यै हूँ हूँ हूँ’ यह  
मंत्र जानना । इस मंत्रका उच्छार दिखाते हैं । यथा—क्रोधद्वय  
( हूँहूँ ) तथा—अस्त्रयुग्म ( फट् फट् ) और ‘देव्यै’ ऐसा पद,  
पुनः क्रोधत्रय ( हूँ हूँ हूँ ) इतने अक्षर जिसमें हों वही कुमारी  
देवीका मंत्र है ।

ध्यानम्—दिव्यकार्षुकहेमाभा कुमारी दिव्यरु-  
पिणी । सर्वांकारसंयुक्ता भार्या भवति साधिता ॥

( १९८ ) क्रियालीशः ।

दिव्य धनुषको धारण किये, सोनेकीसी छ अंतिवाली, सम्पूर्णि  
अलंकारोंसे शोभित, दिव्य रूपवाली कुमारी देवि पूर्वोक्त जपादि  
करनेसे भार्या होजाती है ।

रात्रौ देवगृहं गत्वा तत्र शश्या प्रकल्पयेत् ।  
सितवस्त्रं चंदनं च ज्योतिः पुष्पं प्रदापयेत् ॥  
धूपं तु गुग्गुलं दत्त्वाष्टसहस्रं जपेन्द्रबुम् । जपान्ते  
नित्यसायाति चुम्बनालिंगनादिभिः ॥ कामित्ता  
जायते भार्या सत्यं देवी कुमारिका । ददात्यष्टौ  
च दीनारान्दिद्वयवस्त्रयुगं तथा ॥ कामिकं भोजनं  
दिव्यं परिवारस्य दारयाति । अन्याश्रमगृहाद्वय-  
मानीयाङ्गु प्रयच्छति ॥ नित्यं सहस्रं जप्त्वा तु  
सा चायाति कुमारिका । सत्यं सत्यं पुनः सत्यं  
शृणु मे प्राणवल्लभे ॥

रात्रिके समय देवमंदिरमें जाकर वहां शश्याकी रचना करे । -  
सफेद चन्दन तथा सफेद वस्त्र और चमेलीके फूल चढावे । गुंग-  
लकी धूप दे आठ हजार मंत्र जपे इसप्रकार मंत्र जपनेके पश्चात्

चुंबन आलिंगन आदिकों देती हुई छुमारी देवी अवश्य आती है और आकर आठ बजारकियोंको देती है तथा दिव्य वस्त्र, दिव्य भोजन देती है । हे प्राणप्यारी ! मैं सत्यही तुझसे वहनाहूँ कि जो पुरुष प्रति दिन एक हजार जप पूर्योक्त मन्त्रवा करता है उसके पास देवी छुमारी आती है तथा दुसरोंका भी धन लाक उस साधकको देजाती है ।

सुहुर्सुहुर्जपेन्मन्त्रं कोधस्य यन्त्रसुत्तमम् । कोधा-  
धिं व्योमवक्तं वज्रपाणं सुरान्तकम् । एतम्-  
न्त्रमविज्ञाय यो जपेत्सिद्धिकांक्षया । तस्य स्या-  
न्निष्पलं कर्म अन्ते नरकमासुयात् । कलिकर्त्तु-  
तरोर्द्ध्वी भूतिनी सिद्धिरुच्यते ।

उत्तम कोधमन्त्रको वारम्बार जपे । जो साधक लोग विना प्रयोगविधि जानें मन्त्रजप करते हैं । कदापि उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होती किन्तु अन्तमें नरकगामी होते हैं ।

अथ साधनक्रमः—अतः शृणु परं देवि सुन्द-  
रीसिद्धिसाधनम् । सुन्दर्यादिप्रभेदेन प्रत्येकं पू-  
जयेच्छ्वे ॥ प्रातरुत्थाय सुस्नातो नित्यकर्म  
सुमाचरेद् । ततः प्रापादमारुत्पूजास्थानं सु-

( १३० )

कियोहुर्णिशः ।

ज्ञानभवम् ॥ विलवमूले इमशाने वा प्रान्तरे च  
चतुरप्पथे । तत्रस्थः साधयेद्यागी योगिन्यादिं च  
भूतिनीम् ।

हे सुन्दरि ! अब सुन्दरीके सिद्धिसाधन क्रमको सुनो । हे शिवे  
सुंदरी आदि भेदानुसार प्रत्येकका पूजन करे । साधक प्रातःकाल  
शश्यासे उठकर स्नानादि समाप्तकर नित्य कर्म करे । तत्पश्चात्  
गृहमें आकर पूजास्थानमें स्थित हो विलवमूल अथवा इमशानमें  
या चौराहेमें योगिनी आदि भूतिनीका साधन करे ।

अजिनासनगः शुद्धलितलकं सूर्यं कारयेत् ।  
ततो विधिवदाचम्य सूर्याद्यं प्रददेत्ततः ॥ स्व-  
स्थितवाचनिकं कृत्वा शान्तिपाठं पुनः पुनः ॥  
गणेशं बटुकञ्चैव पूजयेद्यन्त्रकोपारि ॥ ततश्चोद-  
इमुखो भूत्वा संकल्पं तत्र कारयेत् । गणेशं  
कोधभैरवं पूजयेत्परमेश्वरि ॥ मूलमंत्रेण प्राणा-  
यामं पड़ंगन्यासमाचरेत् । पूर्ववच्च पुनर्धर्यात्वा  
मानसैः पूजयेत्ततः ॥ कृत्वाद्यं स्थापनं तत्र  
पञ्चमष्टादलं लिखेत् । तन्मध्ये च विनिर्बाय चन्द्र-

नेन विलेपनम् ॥ लज्जाबीजं लिखेत्तत्र पुनर्ध्या-  
त्वा प्रपूजयेत् । निशाधां पूजयेद्विरं दिवार्यां  
पूजयेत्पशुम् ॥ यूलमन्त्रं महादेवि प्राप्तं व्याप्त्य  
जपेत् सुधीः । अद्वंरात्रे ततः पूजां बलिं कृत्वा  
विधानतः ॥ निर्भयः संजपेन्मंत्रं हृदृतं च निव-  
दयेत् ।

मृगचर्मके ऊपर स्थित होकर निज मस्तकमें तिलक करे । पुनः  
आचमन करे । स्वस्तिवाचनपूर्वक सूर्य भगवान्‌को अर्घ प्रदान  
करे । यन्त्रके ऊपर गणेशजी तथा बटुकजीका पूजन करे । फिर  
उत्तमुख हो संकल्प करे । हे परमंश्वर ! गणेश तथा क्रोध  
मैगवजांका पूजन करे । मूलमंत्रसे प्राणायाम तथा षडंगन्यास  
करे फिर उत्तरूपसे ध्यानकर मानसिक पूजन करे । अर्घ स्थापन  
कर अष्टदल कमल लिखे और उस अष्टदलके मध्यमें चन्दनसे  
लेप करे । उक्त दलके मध्यमें लज्जाबीज लिखकर श्रीभगवती-  
का ध्यानकर पूजन करे । रात्रि समय वीरका और दिनके समय  
पशुका पूजन करे । हे महादेवि ! साधकको योग्य है कि एक  
मासपर्यंत मूलमंत्रका जप करे । अर्द्धे रात्रिके समय पूजनकर  
षाङ्खिग्रवान दें और निर्भय हो मंत्रज्ञा लाप करे ।

( ६३२ )

क्षिथोऽहीशः ।

अथ यक्षसाधनम् ।

अतः परं महादेवि यक्षसाधनसुतमय् ।

अब यक्षसाधन कहा जाता है । हे महादेवि ! यक्षसाधन प्रकार सुनो । प्रथम चीस ( २० ) प्रकारके यक्षोंके नाम कहजाते हैं ।

भीमवक्त्र १ महावक्त्र २ सिंहवक्त्र ३ हयानन ४ गर्जभास्य७  
महार्वि८ दि९ वदुवक्त्र ७ गजानन ८ विभ्रम ९ बाहुक १० वीर ११  
सुग्रीव १२ रंजक १३ पिशाचास्य १४ जृम्भक १५ वामक १६  
वर्घद १७ जयद १८ मणिभद्र १९ मनोहर २० ।, यह २० यक्ष साधकों को लिखि देनेवाले हैं ।

अथ यक्षमन्त्रः—गगनो ग्रहणश्चैव युक्तचन्द्रा-  
द्वद्वेष्वरः । एकाक्षरमहामन्त्रो साधकैर्जप्त्यते  
यदि । संख्ययाष्टसहस्राश्च सर्वसिद्धिप्रदायकः ।

इस एकाक्षर यक्षमन्त्रका ८००० हजार जप करे तो साध-  
कों सर्वसिद्धि प्राप्त होय ।

श्रीदंत्युवाच । भीमवक्त्रादियक्षाणां महामन्त्राः  
श्रुता मया ॥ चंद्रद्वेष्वर तद्व्यानं संक्षेपेण वद-  
द्वधो ।

भाषाटीकासमेतः । ( १४३ )

श्रीदेवीजी कहनेलगी । हे चन्द्रवेश ! भीमवक्तादि २० यक्षों  
के महामंत्रको कहो । श्रीशिवजी कहते हैं, हे श्रिये ! नाम मंत्र  
श्रवण करो । यथा—हाँ भीमवक्ताय स्वाहा १ हाँ हाँ महावक्ताय  
स्वाहा २ वं हाँ सिंहवक्ताय स्वाहा ३ हाँ लं कर्माणि साधय  
हयाननाय स्वाहा ४ हाँ कुरु कर्माणि साधय साधय गर्ज्ञभा-  
स्याय स्वाहा ५ हाँ महावरिय स्वाहा ६ हाँ कुरुकुरु वहुवक्ताय  
स्वाहा ७ हाँ महावल्लिने गजाननाय स्वाहा ८ हाँ विभ्रमाय  
स्वाहा ९ हाँ हाँ वाहुकाय स्वाहा १० हाँ एं वीराय स्वाहा ११  
हाँ सुग्रीवाय स्वाहा १२ हाँ रचकाय स्वाहा १३ हाँ सर्वकर्माणि  
साधय पिशाचाय स्वाहा १४ हाँ जृंभकाय स्वाहा १५ हाँ लं  
वामकाय स्वाहा १६ हाँ अर्थदाय स्वाहा १७ हाँ जयप्रदाय  
स्वाहा १८ हाँ माणिभद्राय स्वाहा १९ हाँ मनोहराय स्वाहा २०  
हे महादेवि ! इसके पश्चात् ध्यान सुनो ।

अथ यक्षाणां ध्यानानि ।

भीमवक्तव्यानम् । प्रत्यालिङ्गिपदं कृष्णं खर्व-  
कर्बुरसूर्धंजय् । द्विभुजं दक्षिणे कर्त्त्वं वासे खर्पर-  
धारिणम् । व्याघ्रचर्माल्लखधरं विनेवं भीषणा-  
ननम् ।

( ६६४ )

क्रियोहुत्तिः ।

अब यक्षोंवे ध्यान कहेजाते हैं । प्रथम भीमवक्त्रका ध्यान कहाजाता है । कृष्ण वर्ण, छेदे शरीरवाला, कर्वुर केश दो भुज दक्षिण हाथमें कव्री ( कंची ) और वाम हाथमें खण्ड धारण करनेवाला, वंगेके चर्मको धारण करनेवाला, त्रिनेत्र ऐसे भीप-णाननका ध्यान करते हैं ।

सहावक्रध्यानम् । ध्यायेद्वं महावक्रमभिवर्णं  
त्रिनेत्रकम् । द्विभुजं दक्षिणे खड़ं खेटकं वामह-  
स्तके ॥ कृष्णकेशन्तु कुटिलं विकृतास्यं भया-  
नकम् । साधकाय प्रयच्छन्तमध्यं वरमेव च ।

महावक्रका ध्यान कहाजाता है । आशिके तुल्य वर्णवाले त्रि-  
नेत्र द्विभुज अर्थात् दो भुजावाले, दक्षिण हस्तमें खड़ और वाम  
हस्तमें खेटको धारण करनेवाले, कृष्णवेश और कुटिल, फैले  
मुखवाले भयानक, साधकके अर्थ अभय और वर देनेवाले महा-  
वक्र दंवका हम साधक लोग ध्यान करते हैं ।

सिंहवक्रध्यानम् । ध्यायेद्वं सिंहवक्रं जटाभार-  
समान्वितम् । विकृतास्यं द्विजिहं च चतुर्बैं  
द्विकृष्णकम् । द्विभुजं च गदापाणिं वामे चाऽ-  
भयसंयुनम् ।

भाषाटीकासमेतः । ( २३८ )

सिंहवक्रका ध्यान कहाजाता है । जटाओंके भारसे समन्वित ऐदे सुखवाले, दो जिहावाले, हाथमें गदाधारण करनेवाले, वाम हाथसे अभय प्रदान करनेवाले ऐसे सिंहवक्रजीका हम ध्यान करते हैं ।

अथ हयाननध्यानम् । श्वेतो हयाननः खवीं  
द्विभुजोऽतिभयानकः । दक्षे डमरुकं धत्ते वामे  
चैव त्रिशूलकम् ।

अब हयानन यक्षका ध्यान कहाजाता है । श्वेतवर्ण, छोटे  
शरीरवाला, भयझर स्वरूप, दक्षिण हाथमें डमरु और वाम  
हाथमें त्रिशूल धारण करनेवाला हयानन यक्ष हमारी रक्षाकरे ।

महावीरध्यानम् । ध्यायेदेवं महावीरं द्विकर्णन्तु  
त्रिनेत्रकम् । द्विभुजं हास्यवद्दनं वराऽभयवि-  
धारकम् ।

अब महावीरका ध्यान कहाजाता है । दो कर्णवाले, तीन नेत्र  
पाले, दो भुज और हास्य करनेवाले, दोनों हाथोंमें वर और  
अभय धारण करनेवाले ऐसे महावीरका ध्यान करते हैं, और  
यक्षोंके ध्यान डामरतन्त्रमें विस्तारसे कहेगये हैं ।

इति कियोहुंशे महातंप्रराजे गोरीभरसंवादे  
पोडशः पदलः ॥ १६ ॥

( १३६ ) - नियोगीयः ।

अथ सृत्युज्जयविधानम् ।

देवषुवाच-प्राणनाथ कृपासिंधो वृहि शास्त्रवि-  
शारद । लृत्युज्जयस्य पूजायाः चिं फलं किं  
विधानकम् ।

अब सृत्युज्जय विधान कहा जाता है । हे प्राणनाथ ! हे  
कृपासिंधो ! हे शास्त्रविशारद ! सृत्युज्जय शिवपूजाका क्या  
विधान और क्या फल है कृपा वर कहो ।

श्रीशिव उवाच । वकुन्नाहि द्वन्द्वे गौरि त्वयि  
क्षेहात् प्रकाशितम् । सृत्युज्जयविधानं तु न  
वक्तव्यं वहिर्मुखे । मुखे तु देवि वक्तव्यं यत्नतः  
प्राणवल्लभे । सृत्युज्जयो महादेवः साक्षात्सृत्युद्दृ  
णः । विधानं तस्य संक्षेपाद्वक्तव्यं शृणु छुच्छरि ।  
देवेशि रोगक्षान्त्यर्थं तस्य पूजाविधिर्यथा ॥  
सृत्युज्जयं समापूज्य लिंगं त्रिभुवनेश्वरम् । रोगा-  
तौ छुच्छते रोगाद्वद्वो छुच्छेत वन्धनाद् । यस्तु

माषाटीकासमेतः ।

संपूजयेद्वक्त्या लिंगं मृत्युञ्जयाभिधम् । यसोऽ-  
पि प्रणमेद्वक्त्या किं कारिष्यति पामरः ॥

शिवजी कहने लगे । हे गौरि ! इस प्रयोगको प्रकाश कर-  
नेकी मेरी इच्छा नहीं है तथापि तुम्हारे स्नेहवश प्रकाश करता  
हूँ । यह प्रयोग धर्मविमुख पुरुषके संमुख न कहना । हे प्राण-  
बलमे ! श्रद्धावान् पुरुषके निकट यह प्रयोग प्रकाश करना  
योग्य है । साक्षात् मृत्युञ्जय श्रीशिवजी मृत्युके हरनेवाले हैं ।  
हे सुन्दरि ! अब मैं उनका विधान संक्षेपसे कहता हूँ सुनो ।  
हे देवोशि ! रोगशांतिके अर्थ शिवलिंगका पूजन करे तो रोगी  
रोगसे छूटे । वंदी वंधनसे छूटे । जो लोग शिवलिंगका पूजन  
करते हैं यमराजभी आकर उनको भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं  
अन्य पामर मनुष्योंकी कौन कथा ।

तत्त्वं पूजाविधिं वक्ष्ये शृणु मत्प्राणवच्छमे ।  
जातिभेदैदृमृत्तिकान्तु गृहीत्वाऽज्ञीतितोलकाम् ॥  
निर्बाय पार्थिवं लिंगं कांत्याधारे निवेशयेत् ।  
पौराणिकेन मंत्रेण कुर्याच्च पठनं बुधः ॥ स्नाप-  
येत् पञ्चगव्येन प्रत्येकस्याएतोलकाम् । स्वस्व-  
सन्त्रैश्च धूत्येकद्वयेण स्नापयेत् सुधीः ॥ रोग-

ग्रिहोद्दीप्तः ।

श्येच्छया विद्वान्नामगोत्रादिपूर्वकम् । उपविश्या-  
सने विप्रो धृत्वा धौतं च वाससम् ॥ रुद्राक्ष-  
मालां कण्ठे वै धृत्वा भरमत्रिपुङ्गकम् । उप-  
चाराः पोडश तु देया भक्त्या प्रयत्नतः ।  
सुवर्णस्थापनं देयं तथैवाभरणानि च । वस्त्रयुधं  
प्रदद्यात् परिधेयं यथा भवेत् ॥

हे प्राणवल्लभ ! पूजनविधान करता हूँ मुझो । जातिभेदसे ८० तोले मृत्तिका लेकर शिवलिंग बनावे और उस लिंगको कार्त्तिके पात्रमें स्थापन कर पौराणिक मंत्रांदाग पूजन करे पंचगव्यसे स्नान करावे निज निज मन्त्रमें कहे द्रव्यसे पृथक् २ स्नान करावे । रोगनाशकी इच्छासे नाम और गोत्रको उच्चारण कर स्नान करावे । विप्र धासनपर घेठकर और धौत वस्त्र पहनकर कण्ठमें रुद्राक्षकी माला पहनकर भस्मका त्रिपुङ्ग लगाकर भक्तिपूर्वक पोडशोपचारंसे पूजन करके सुवर्णनिर्मित आसन प्रदान करे और आभृपण, तथा वस्त्रादिक भी प्रदान करे ।

शिवयन्त्रं यथा—पट्टकोणसण्डलं कृत्या तदन्ते  
साध्यनामकम् । प्रसादवीजं हों संलिख्य ततः  
पट्टकोणेषु प्रणवसादितपंचाक्षरवर्णाङ्गि पहुँगम-

भाषादीकासमेतः । ( १३६ )

त्रांश्च विलिख्य तद्वहिः पञ्चदलानि विरच्य  
तद्वलेषु अँ ईशानाय नमः । अँ तत्पुरुषाय  
नमः । अँ अधोराय नमः । अँ सद्योजाताय  
नमः अँ वामदेवाय नमः । इति पंच मंत्रान्  
प्रागादिक्षेण लिखेत् । तद्वहिरष्टदलानि रच-  
यित्वा तद्वलेषु मातृकावर्णाच लिखेत् । तद्वहि-  
वृत्तं व्यस्त्वकेण वेष्टयेत् । एतद्यन्तं जपहोमा-  
दिना संपूज्य धारयेत् । आयुरारोग्यैश्वर्यादि-  
सिद्धिर्भवति ।

अब शिवयंश कहाजाता है । प्रथम पट्कोण यंत्रको लिख-  
कर उसके मध्यमें साध्य व्यक्तिका नाम लिखे और प्रसाद  
चीजोंको लिखकर पट्कोणोंमें प्रणवसहित पंचाक्षरमंत्रके वर्णों  
( लक्षरों ) को लिखे तथा पड़ङ्गमंत्रोंको भी लिखे । उसके  
वहिर्भागमें पंचदल निर्माण कर उसके दलोंमें अँ ईशानाय  
नमः । अँ तत्पुरुषाय नमः । अँ अधोराय नमः । अँ सद्यो-  
जाताय नमः । अँ वामदेवाय नमः । इन पांच मंत्रोंको प्रागादि-  
क्षमसे लिखे । उस यंत्रके वहिर्भागमें अष्टदल निर्माण कर

( १४० , )

कियोहुशः ।

दलोंमें मातृकालोंके वर्णोंको लिखे । अएदलके बहिर्भागको व्यस्वक मंत्रसे विष्ट फरे । इस यंत्रको जप होम आदिसे पूजन कर धारण करे तो आयु जारीगय पैशव्य आदिकी सिद्धि होय ।

**अथ मृत्युञ्जयमन्त्रः—**अथवा शृणु देवेशि यंत्रं  
र्सर्वसुसिद्धिदद्य । मध्ये साध्याक्षरात्म्यं ध्रुवमभि-  
विलिखेन्मध्यमं दिग्दलेषु कोणेष्वन्तं मनोस्तत्  
शितिषुवनमर्थो दिक्षु चन्द्रं विदिक्ष । ढान्तं  
यन्त्रं तदुक्तं सकलभयहरं क्षवेदभूतापमृत्युव्या-  
दिव्यामोहद्वःखप्रक्षमनसुदितं श्रीपदं कार्ति-  
दायि ॥

मृत्युञ्जय यंत्रका चित्र अन्य तत्रोंमें वर्तमान है बुद्धिमान् जन उन ग्रन्थोंकी देखकर अपनी तृप्ति कर सकते हैं । ग्रन्थ विस्तारके भयसे यहां चित्र नहीं बनाया गया है । विना चित्र दिखाये विशेष व्याख्यासे कुछ काग साधारण पुरुषोंका नहीं निकल सकता है इस यंत्रका सांगोपांग पूजन करनेसे श्रीप्राप्ति होती है ।

मधुपर्कं कांस्यपात्रे दद्याह्नोजनयुग्मकम् ।  
विलवपत्रसहस्रन्तु ह्यभग्नं विनिवेदयेत् ॥ एवं

संपूज्य लिंगैकं द्विसहस्रं मनुं जपेत् । सवि-  
 द्विस्तु गुडूच्यारत्तु तत्र होमं समाचरेत् ॥ ददिणा  
 श्रावणे देवि सुवर्णं वस्त्रकं तथा । तदर्थं वा तदर्थं  
 वा यथाविभवमानतः । अंगहीना न कर्तव्या पूजा  
 चाफलदा यतः । एकालिंगं समाराघ्य फलं  
 स्यादन्यके युगे ॥ तत्फलं उभते देवि कलौ  
 संख्या चतुर्गुणा । आप्नपत्रे तु संस्याप्य जल-  
 आशीतितोलक्ष्म ॥ तज्जलेनैव देवेशि कुर्वैः  
 सम्मार्ज्य रोगिणम् । क्षिपेद्विपश्चित्तायां च मन्त्र-  
 मुच्चार्य मानक्षम् ॥ एवं विधिविधानेन पूजये-  
 न्मस लिंगक्षम् । यादग्याद्यू भवेद्रोगो नाश-  
 येति धयोद्वितम् । संगेन पूजयित्वा तु उभते  
 वाङ्छितं फलम् ॥ अंगव्यातिक्रमेणैव वृथा भवति  
 वासता । रोगी प्रसुच्यतं सद्यो भोगीयोज्जित-  
 कंचुकः । यदि सद्वचने भक्तिस्तदा शुल्को भवे-

## दृध्रुवम् । अन्यथा यदि देवैशि सर्वे भवति निष्फलम् ।

अब मधुपर्क कहाजीता है । काँसी के पात्रमें युग्म भोजन प्रदान करे छिद्ररहित १००० विल्वपत्र प्रदान करे । इस प्रकार लिंगका पूजन कर दो हजार मंत्र जप करे । गिलोयकी जड़की सामिधाओंसे हवन करे । हे देवि ! सुवर्ण, तथा वस्त्र ब्राह्मणोंको देवे और शुभ दक्षिणा भा देवे शक्तिके अनुसार आधा अथवा आधिंका आधा जितना होसके भक्तिपूर्वक प्रदान करे । अंगहीन वर्म न करना चाहिये क्योंकि प्रयोग निष्फल होजाता है । एक लिंगका पूजन करनेसे अन्य युग्मोंमें भी फल होता है । हे देवि ! कालियुगमें यदि तंत्रशास्त्रमें कहे विधानसे चौगुना जपादि करे तो फल प्राप्त होता है । आमके पात्रमें ८० तोले जल भर कर रोगीको ऊशाओंसे मार्जन करे । इस विधिके अनुसार शिवलिंगका पूजन करे तो जिस किसी प्रकारका भी रोगीको रोग होगा वह शीघ्रही नाशकी प्राप्त होजायगा । सांगोपाङ्ग पूजनके करनेसे वांछित फलकी प्राप्ति होतीहै । अंगहीन प्रयोगके करनेसे समस्त वासना वृथा होजाती है । इस प्रयोगके करनेसे रोगी इस प्रकार रोगसे मुक्त होजाता है जैसे किंचलीसे रूप सुक्त होजाता है । जिन पुरुषोंकी शिववाक्यमें भक्ति और विश्वास है वोही सहसा रोग

से छूट सकते हैं । हे देवोशि ! जिन पुरुषोंका मेरे ऊपर पूर्णता<sup>८</sup>  
से विश्वास नहीं है उनकी समस्त किया निष्फल होजाती हैं ।

अथ मंत्रपूजाविधानम् । अतः परं देवि शृणु  
यंत्रपूजाविधानकम् ।

अब मंत्रपूजाका विधान कहाजाता है । हे देवि ! अब  
इसके पश्चात् यंत्रपूजनके विधानको सुनो ।

कृतनित्यक्रियो देवि स्वस्तिवाचनपूर्वकम् ।  
संकल्पं च ततः कुर्याद्विधिवाक्यानुसारतः ॥  
अद्येत्यादि अमुकगोत्रः श्रीपूर्वकदेवशर्मा यंत्रा-  
धिष्ठितदेवतायाः पूजार्थमसुक्यंत्रसंस्कारमहं क-  
रिष्ये । हृति संकल्प्य महादेवि गुरोर्खनमाच-  
रेत । पञ्चगव्यं ततः कृत्वा शिवमंत्रेण मंत्रि-  
तम् । तत्र चक्रं क्षिपेन्मंत्री प्रणवेन समाकुलम् ।  
तदुद्घृत्य ततश्चक्रं स्थापयेत्स्वर्णपात्रके ॥  
पञ्चामृतेन दुग्धेन कर्तृशीकुंकुमेन च । पयो-  
दाधिष्ठृतक्षौद्रशर्कराद्यैतुक्तमात् ॥ तोयधृषान्तरैः

( १४४ )

क्रियोहृषिः ।

कुर्यात् पंचामृतमनुत्तमम् । अष्टाभिः कलशे-  
देवीमष्टाभिर्वारिष्टैः ॥ कपायजलस्त्रप्त्वैः का-  
रयत् रुनानमुत्तमम् । रुनानं समाप्त्य तां देवीं  
स्थापयेत् स्वर्णपीठके ॥

स्वास्तिवाचनपूर्वक नित्यक्रियाको करे फिर विधिवाक्यके अनु-  
सार संकल्प करे । अद्यत्यादि यही संकल्प है । पुनः गुरुपूजा  
करे तत्पश्चात् पंचगव्यको निर्माण कर शिवमंत्रसे आभिमंत्रित  
करे । फिर प्रणवयुक्त चक्र निर्माण करे उस चक्रको स्वर्णके  
पात्रमें स्थापन करे । पञ्चामृत, दुध, कस्तूरी, कुंकुम, पथ,  
दाढ़ी, धूत, सहत, शर्करा इत्यादिसे क्रमानुसार यंत्रराजको रुना  
करावे । और धूप दीप आदि प्रदान करे । आठ प्रकारके जलोंसे  
पूरित आठ कलशोंमें सर्वैषाधि आदि सुगंधित पदार्थ स्थापन  
करे और उसी जलसे रुना करे और उसी देवीको सुवर्णके  
सिंहासनमें स्थापन करे ।

गायत्री यथा—यंत्रराजाय विद्वाहै महाशंखाय  
धीमहि तत्त्वो यन्त्रः प्रचोदयात् । रुपुङ्गा यंत्रं  
कुम्हारेण वायव्यशा न्यायिन्यन्ययैत् । अष्टात्तर-

शतं देवि देवताभावसिद्धये ॥ आत्मशुद्धि ततः  
कृत्वा पठ्येदेवता यजेत् । तत्रापाश्च महादेवि  
जीवन्यासञ्च कारयेत् ।

उक्त गायत्रीमंत्रको उचारण कर यंत्रको कुशाग्रभागसे स्पर्श कर अभिमंत्रित करे । हे देवि ! देवताभावकी सिद्धिके वर्य१०८ वार मंत्र जपकरे पुनः आत्मशुद्धि कर पठ्यगढारा देवताका पूजन करे । हे महादेवि ! यंत्रमें देवताका आवाहन कर जीवन्यास करे ।

प्राणप्रतिष्ठा-अस्य प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मा-  
विष्णुयहेश्वरा ऋषयः । ऋग्यजुःसामानि च्छ-  
न्दासि । चैतन्यं लेवता । प्राणप्रतिष्ठायां विनि-  
योगः । उपचारैः पोडशभिर्महासुद्रादिभिरुतथा ।  
फलतार्घूलनैवेद्यैः शिवं तत्र समर्चयेत् ॥ एह-  
रुत्रादिकं द्वयाद्वस्त्रालंकारमेव च । अगुरुं चाग-  
रं घणटा यथायोग्यं यहेश्वरि ॥ सर्वमेतत्प्रयत्नेन  
द्वयादात्महिते रक्तः । ततो जपेत्सहस्रन्तु सकले-

( १४६ )

व्रियोङ्गीशः ।

पितृतसिद्धये ॥ जपस्तमापनं कुर्यादृष्टांगेन नष्ट-  
स्त्वृतम् । अष्टौतरशतं हुत्वा सम्पाताज्यं विनि-  
क्षिपेत् ॥ होमकर्मण्यज्ञात्क्षेद्विगुणं जपमाच-  
रेत् । गुरुवे दक्षिणां दद्यात्ततो देवीं विसर्जयेत् ।

बब प्राणप्रतिष्ठा कही जाती है । प्रथम विनियोग समाप्त  
कर पोड़श उपचार और महामुद्रादि द्वारा पूजन करे । फल  
ताम्बूल नैवेद्य आदि शिवजीको समर्पण करे । रेशमीन वस्त्र,  
तथा घन्य प्रकारके वस्त्र आभूषणाद्विसे शिवजीको प्रसन्नकर  
पूजन करे आग आत्मकामनाके अर्थ घगुरु चामर, धंटा, यथा-  
शक्ति प्रदान करे । फिर सहस्रवार गूल मंत्रका जप करे । जप  
समाप्त कर अष्टांग नमस्कार करे १०८ बार हवन करके धारा-  
बांध अग्निं बृत प्रदान करे । यदि हवन करनेकी शक्ति न हो  
तो दुगुना मंत्र जप करे । और गुरुको दक्षिणा देकर देवताका  
विसर्जन करे ।

अस्य प्रथोगः । कृतनित्यक्रियः स्वस्ति-  
वाचनपूर्वकं संकल्पं कुर्यात् । अद्येत्यादि  
अमुकगोवः श्रीअमुकदेवशर्मा अमुकदेवता  
पूजार्थममुक्तयन्वसंस्कारमहं करिष्ये । ततः

भाषादीकासमेतः । (१४७)

पञ्चगव्यमानीय हौं हति मन्त्रेणाष्टोत्तरशतमाभिमन्त्र्य प्रणवेन यंत्रं तत्र क्षिपेत् । तत उत्थाप्य स्नापयेच्छीतलजलचन्दनगन्धकस्तूरीकुंकुमेः । स्नापयित्वा पञ्चगव्यमानीय हौं हति मन्त्रेणाष्टोत्तरशतमाभिमन्त्र्य प्रणवेन शोधयित्वा स्नापयेत् । तत्र ऋमः । प्रथमं क्षीरेण स्नापयित्वा धूपं दद्यात् । एवं दध्ना घृतेन मधुना शर्करया च । ततोऽष्टाभिः कलशैः स्नापयेत् । कुंकुमगोरैचनया चन्दनमिश्रितैस्तौर्यैः स्नापयेत् । सर्वत्र स्नानं सूलमन्त्रेण ततो यन्त्रषुत्तोल्य कुशाग्रेण तत्सपृष्ठा गायत्र्यष्टोत्तरशताभिमंत्रितं कृत्वा प्राणप्रतिष्ठां कुर्यात् । अस्य प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्माविष्णुमहेश्वरा ऋषयोऽग्न्यजुः सामानि च्छन्दांसि चैतन्यं देवता प्राणप्रतिष्ठायां विनिधोगः । तद्यथा-आँ हौं क्रौं यं वं लं वं क्षं यं सं हौं हंसः ॥

अमुकदेवतापाः प्राणा इह प्राणाः । जीव इह स्थितः । सर्वन्दियाणि वाङ्मयन इत्यादि प्राणान् प्रतिष्ठाप्य तत्र प्रकृतिदेवतामावाह्य पोडशोपचारैः पंचोपचारैर्वा पूजयेत् । तत्र पट्टसूत्रादिकृं दत्त्वा अष्टोत्तरशतं सहस्रं वा जपित्वा शक्तश्चेद्वल्लिद्यात् । ततोऽष्टोत्तरशतं होषं कुर्यात् । होमा भावे द्विगुणो जपः कार्यः । ततो दक्षिणां दत्त्वा छिद्रावधारणं कुर्यात् ।

अब इसका प्रयोग कहाजाता है । नित्य क्रियाको समाप्त कर स्वस्तिवांचनपूर्वक संकल्प करे । अद्यत्यादि यह संकल्प है फिर पंचव्यक्तों लाकर हीं इस मंत्र से १०८ बार अभिमंत्रित कर प्रणवसे यन्त्रको उसमें निषेप करे । फिर उस यन्त्रको उठा फर शीतल जल, चन्दन, गन्ध, कस्तूरी कुंकुमसे स्नान करावे । फिर हीं इस मंत्रको उच्चारण कर प्रणवसे शोधन कर स्नान करावे । यह क्रम है । प्रथम दूधसे स्नान कराकर धूप प्रदान करे इसी प्रकार दही, घृत, सहत, शर्करासे स्नान करा अपूर्ण कलशसे स्नान करावे । कुंकुम, गोरोचन, चन्दन मिश्रित करावे ।

सब जगह मूलमन्त्रसे स्नान करावे । फिर यंत्रको उठाकर कुशाके अग्रभागसे छूकर गायत्री मंत्रसे अभिमंत्रित कर माण प्रतिष्ठा करे । और उत्त विनियोग प्रदान करे जाँ हीं क्रों यঁ বঁ  
লঁ বঁ শঁ যঁ সঁ হোঁ হঁসঁ : अमुक देवतायाः प्राणा इह प्राणा जीव  
इह स्थितः इत्यादि उच्चारणकर देवताका आवाहनकर पंचोप चार तथा पोडशोपचार पूजन करे और रेशमीन बछ आदि  
देकर १०८ बार अथवा १००० मंत्र जप करे यदि शक्ति हो  
तो बलिदान भी करदे । फिर १०८ बार हवन करे । होमामा-  
वमें द्विगुणं जप करे । तदनन्तर दक्षिणा देकर छिद्रावधारण  
करे ।

इति श्रीक्रियोडीशे महातन्त्रराजे देवीश्वरसंवादे

सप्तदशः पटलः ॥ १७ ॥

अथ शिवयंत्रम् ।

तत्रादौ पट्टकोणमण्डलं कृत्वा तदन्ते साध्ये नाम  
छुक्तं प्रसादबीजं विलिख्य पट्टकोणेषु प्रणवहस्ति-  
तपञ्चाक्षरवर्णान् विलिख्य विवरेषु पट्टंगपंत्रात्  
तद्वहिः पंचदलानि विश्चयं तद्वलेषु अँ वामदेवाय

( १५० )

क्रियोङ्गुडीशः ।

नमः । अँ ईशानाय नमः । अँ तत्पुरुषाय नमः ।  
अँ अघोराय नमः । अँ सद्योजाताय नमः । इति  
पंच मंत्रान् प्रागादिकमेण लिखेत् । तद्विरष्टद-  
लानि रचयित्वा तद्वेषु मातृकावर्णान् लिखेत् ।  
तद्विर्वृत्तं श्यम्बक्षेन वेष्टयेत् । तद्यन्ते जपद्वा-  
मादिः कार्यः ।

अब शिव गंत्र कहाजाता है—प्रथम पट्कोण मण्डल निर्माण  
करे और उस मण्डलके बीचमें साध्य व्यक्तिके नामको लिखे  
ज्योर प्रसाद् वीजको भी लिखे । छर्भों कोणमें प्रणवसहित  
पश्चाक्षर मंत्रके वर्णोंको लिखे । विवरोंमें पठंग मंत्रोंको लिखे  
यंत्रेक वहिर्भागमें पंचदल बनावे । दलोंमें नाममन्त्रोंको लिखे  
यह नाममंत्र है । अँ वामदेवाय नमः । अँ ईशानाय नमः । अँ  
तत्पुरुषाय नमः । अँ अघोराय नमः । अँ सद्योजाताय नमः ।  
इस प्रकार इन पांच मंत्रोंको प्रागादि क्रमसे लिखे । पुनः यंत्रके  
वहिर्भागमें अष्टदल निर्माण करे । दलोंमें मातृकाश्रोंके वर्णोंको  
लिखे । दलोंके वहिर्भागको श्यम्बक मंत्रसे बेष्टित करे और  
यंत्रमें जप होमादिक करे ।

अथ मृत्युञ्जयन्वय-मध्ये साध्याक्षराढयं ध्रुव-  
मधिविलिखेन्मध्यमं दिग्बलेषु कोणेष्वन्तं भन  
स्तत्त्वितिभुवनमथो दिक्षु चन्द्रं विदिक्षु । दान्तं  
यन्त्रं तद्वत्तं सकलभयहरं छ्वेडभूतापमृत्युव्या-  
धिव्यामोहदुःखप्रशमनमुदितं श्रीप्रदं कीर्तिदायि ।

इसका अर्थ पिछाडी कहचुक हैं ।

अथ रोगशान्त्यर्थ-ज्यमवकमृतसंजी-

विनीविधानम् ।

स्वच्छं स्वच्छारविन्दस्थितमुभयकरे संस्थितौ  
पूर्णकुर्यामौ द्वाभ्यामेणाक्षमाले निजकरकमले द्वौ  
घटीनित्यपूर्णौ । द्वाभ्यां द्वौ च स्वन्तौ शिरसि  
शशिकलां चामृतैः पुावयन्तं देहं देवो दधानं  
विदिशतु विश्वादां कल्पजालैः श्रियं घः ॥

( १५२ )

कियोहुशः ।

इसका भी भाषार्थ हम पिछाड़ी लिख तुके हैं अतः पिष्टपेषण  
न्यायसे क्या काम ?

आदौ प्रासादबीजं तदनु सृतिहरं तारकं द्याह-  
तिञ्च प्रोच्चार्य व्यम्बकं यो जपति च सततं संपुदं  
चानुलोमम् । गायत्र्याः पूर्वपादं तदनु च शिवदं  
व्यम्बकस्यादिमं तत्प्रोच्चार्ये ध्यानपूर्वं जपति  
हि मननोऽत्वेति सृत्यु ध्रुवं सः ॥ प्रासादबीजं  
हों सृतिहरं व्यक्षरं सृत्युञ्जयमंत्रं अँ जूं सः । तार  
कम् । अँ द्याहतयः भूर्भुवः स्वः । तेन हों ॐ  
जूं सः । अँ भूर्भुवः स्वः तत्तत्त्वम्बक्षमंत्रः पूर्वमं  
त्रेणानुलोमक्षमेण संपुटितः । अस्य जपात् सर्वे  
सिद्धिर्भवति पुनः ॥ ॥ ॥ गायत्र्याः प्रथमपादं  
व्यम्बकस्य गृथमपादयित्यादि च ध्यानं पूर्वसुक्तम् ।

प्रथम प्रासादबीज तत्पश्चात् मृत्युहर तारक तथा व्याहृतिका उच्चारण कर जो मनुष्य निरन्तर संपुट तथा अनुलोम व्यम्बक मंत्रका जप करते हैं उनको सर्वसिद्धि प्राप्त होती हैं । हीं यह प्रासादबीज है । मृत्युहर तीन अक्षरका ओं जूं सः यही व्यंवक मंत्र है । ओं को तारक कहते हैं । भूर्सुवः स्वः इनको व्याहृति कहते हैं । हीं ओं जूं सः ओं भूर्सुवः स्वः । इस अनुलोम ऋग-नुसार संपुटितकर जप करे सिद्धि प्राप्त होगी । फिर गायत्री मंत्रका प्रथम पाद और व्यम्बक मंत्रके प्रथमपादको सम्पुटित कर जप करे ध्यान प्रथम कह चुके हैं ।

इति क्रियोड्हीशो महात्मवराजे देवीश्वरसंवादेऽष्टादशःपठलः॥१८

अथ मृत्युञ्जयकवचम् ।

श्रीदेव्युपाच-भगवन् देवदेवेश देवताभिः प्रपू-  
जित । सर्वे मे काथितं देव ऋचचन्न प्रक्षाशी-  
तम् ॥ मृत्युरक्षकरं देव सर्वाङ्गुभविनाशनम् ।  
कथयस्वाद्य मे नाथ यद्विस्तेहोऽस्ति मां प्रति ।

अब मृत्युञ्जय कवच कहाजाता है । श्रीदेवीजी कहती हैं । हे देवदेवेश ! हे देवताओंसे प्रपूजित ! भगवन् ! आपने मुझसे सब कुछ कहा परन्तु मृत्युहर, सर्व रक्षाकर, अशुभनाशक कवच

( १५४ )

क्रियोऽुल्लिखः ।

नहीं कहा कृपाकर कहिये । हैं भगवन् ! यदि मेरे ऊपर आपका परम स्नेह है तो ॥

इश्वर उवाच—अस्य सृत्युज्यमन्ब्रह्य वामदेव  
 ऋषिर्गायत्रीच्छन्दो सृत्युज्यो देवता साधका-  
 भीषणिद्वयर्थे जपे विनियोगः । शिरो मे सर्वदा  
 पातु सृत्युज्यसदाजिवः । सत्यस्तरस्वरूपो मे  
 वदनं च महेश्वरः । पञ्चाश्रात्मा भगवान् भुजौ  
 मे परिरक्षतु । सृत्युज्यस्त्रिवीजात्मा ह्यात् रक्षतु  
 मे सदा ॥ विलववृथरमासीनो दक्षिणामूर्तिर-  
 व्ययः । सदा मे सर्वतः पातु पद्मिश्रद्वर्णरूप-  
 रूपः ॥ ह्याविंशत्यक्षरो रुद्रः कुक्षी मे परिरक्षतु ।  
 त्रिवर्णात्मा नीलकण्ठः कण्ठं रक्षतु सर्वदा ॥  
 चिन्तामणिर्वीजपूरे ह्यद्वेनाशीश्वरो हरः । सदा  
 रक्षतु मे गुद्यं सर्वसम्पत्प्रदायकः ॥ सत्यस्तरस्व-  
 रूपात्मा कूटरूपी महेश्वरः । मार्तण्डभैरवो नित्यं  
 प्रादौ मे परिरक्षतु ॥ अँ जूं सः महावीजस्वरू-

पस्त्रिपुरान्तकः । उद्दैवूद्धानि चेशानो मम रक्षतु  
 सर्वदा । दक्षिणस्यां महादेवो रक्षेन्मे गिरिना-  
 यकः । अधोराख्यो महादेवः पूर्वस्यां परिरक्षतु ॥  
 वासदेवः पश्चिमस्यां सदा मे परिरक्षतु ॥ उत्तर-  
 स्यां सदा पातु सद्योजातस्त्वरूपधृक् ॥ इत्थं  
 रक्षाकरं देवि कवचं देवदुर्लभय् । प्रातर्मध्याह-  
 काले तु यः पठेच्छित्तसन्निधौ ॥ सोऽभीष्टफल-  
 माप्रोति कवचस्य प्रसादतः । कवचं धारयेदस्तु  
 साधको दक्षिणे भुजे ॥ सर्वसिद्धिकरं पुण्यं सर्वा-  
 रिष्टविनाशनम् । योगिनीभूतवेतालाः प्रेतकृष्णा-  
 ण्डपत्न्नगाः ॥ न तस्य हिंसां कुर्वन्ति पुत्रवत्पा-  
 लयन्ति ते । पठित्वाभ्यर्चयेद्देवि यथाविधि पुरः  
 सरम् ॥ उक्षञ्च मूळमंत्रस्य पुरश्चरणमुच्यते ।  
 तद्वारणे महादेवि मृत्युरोगविनाशनम् ॥ एवं यः  
 कुरुते सत्यं पुण्यां गतिमवाप्नुयात् । हति ज्ञातं

( १५६ )

क्रियोहौशः ।

महादेवि तस्य वक्ते दिथितं सदा ॥ कवचस्य  
प्रसादेन मृत्युमुक्तो भवेन्नरः । अन्धथा सिद्धि-  
हानिः स्यात्सत्यमेतन्मनोरमे ॥ तब स्नेहान्म-  
हादेवि कथितं कवचं शुभम् । न देयं कस्य-  
चिज्ज्ञे यदीच्छेदात्मनो हितम् ॥

श्रीशिवजी कहनेलगे । इस मृत्युंजय मंत्रका वामदेव प्रणिपि  
गायत्री छंद मृत्युंजय देवता है और साधकोंके मनोरथ सिद्धिके  
अर्थ विनियोग कहा है । मृत्युंजय सदाशिव मेरे शिरकी रक्षा  
करें । तीन अक्षरस्वरूप महेश्वर मेरे मुखकी रक्षा करें । पंचव-  
र्णात्मक भगवान् सदाशिव मेरी दोनों भुजाओंकी रक्षा करें ।  
मृत्युंजय मेरी आयुकी रक्षा करें । विलवदृक्षके नीचे वासकर  
नेवाले अव्यय सदाशिव, दक्षिणामूर्ति पट्टिंशत् ( ३६ ) वर्ण  
रूप, धारण करनेवाले सर्व स्थानोंमें मेरी रक्षा करें द्वाविंशति  
रूपात्मक रुद्र मेरी कुक्षिकी रक्षा करें । त्रिवर्णात्मक नीलकण्ठ  
मेरे कण्ठकी रक्षा करें । बीजपूरमें चिन्तामणिके तुल्य अर्द्धना-  
रीश्वर भगवान् सदाशिव मेरे गुह्यभागकी रक्षा करें । त्रिवर्णा-  
त्मक, कूटरूप, महेश्वर, यातीङ भैरव नित्य मेरे पांबकी रक्षा

करें । जों जूँ सः इन बीजोंके हृपको धारण करनेवाले विपुरान्तक मेरे ऊर्ध्वभाग अर्थात् मस्तककी रक्षा करें । गिरिनायक महादेव दक्षिण दिशामें मेरी रक्षा करें । बघोराख्य महादेव पूर्वदिशामें मेरी रक्षा करें । वामदेव पश्चिम दिशामें मेरी रक्षा करें । सच्चोजातस्वल्प धारण करनेवाले उत्तरदिशामें मेरी रक्षा करें । हे देवि ! इस प्रकार देवताओंको भी दुर्लभ ऐसे रक्षाकर कवचका प्रातःकाल आर सायंकाल जो मनुष्य शिव मंदिरमें पाठ करते हैं उनको इस कवचके प्रसादसे बांधित फल प्राप्त होता है । जो साधक इस परम पवित्र कवचको दक्षिण सुजामें धारण करते हैं उनको सम्पूर्ण सम्पत्तियां प्राप्त होती हैं और समस्त रोग उनके नाश होजाते हैं । और योगिनी, भूत, वेताल आदि कडापि उसकी हिंसा नहीं करते किन्तु पुष्पवत् पालन करते हैं । हे देवि ! यथाविधान, इस कवचका पाठ करके शिवपूजन करे लक्ष अर्थात् एक लाख मूलमंत्रके जप करनेसे एक पुरश्चरण होता है । हे देवि ! इस पुरश्चरणके करनेसे मृत्यु और रोगका नाश होता है । इस प्रकार करनेसे पुण्य गति प्राप्त होती है । हे देवि ! इस कवचके ज्ञाता मृत्युसे निर्भय रहते हैं । न करनेसे सिद्धिकी हानि होती है । हे महादेवि ! तुम्हारे सांझे शुभ कवचराज कहा है । हे भद्रे ! जपनी कामना पूर्ण

( १५८ )

क्रियोङ्गीशः ।

होनेकी इच्छा करनेवाला अन्यको यह कवच न दे । मृत्युंजय  
कवच समाप्त । पूर्वमें पूजन विधान कहआये हैं ।

इति क्रियोङ्गीशे महातंत्रगाजे देवीश्वरसंवादे  
एकोनविंशतिमः पटलः ॥१९॥

अथ यन्त्रप्रकरणम् ।

वन्ध्यायन्त्रम्—अतः परं देवि शृणु यन्त्रधारणमु-  
त्तमम् । यन्त्रधारणमात्रेण सर्वाभीष्टफलं लभेत् ॥  
जन्मवन्ध्या च या नारी गुभपुत्रवती भवेत् ।  
तदा गोरोचनाद्येन लिखेद्यःत्रमनुत्तमम् ॥ ब्रृतद्वयं  
समालिख्य पद्मपृष्ठदत्तं लिखेत् । प्रतिपद्मे लिखेन्त्र-  
न्यायावीजं भूपुरकं ततः ॥ भूर्जपद्मे लिखेद्यन्त्र-  
धारयेत्तु महेश्वरि । कुक्षौ धृत्वा महायन्त्रं गुभपु-  
त्रवती भवेत् ॥ प्रयोगान्तरमन्यत्र प्राणसङ्क-  
टतो नहि । दक्षिणां गुरवे दत्त्वा गृहीयाद्यन्त्रमु-  
त्तमम् ॥

अब यन्त्रप्रकरण कहाजाता है । प्रथम वन्ध्यायन्त्र । हे  
देवि ! यन्त्रधारणाविधानको सुनो । यन्त्रके धारणमात्रहीसे  
मास्तु पांचिं पाता मास्त होगाते हैं जन्मयन्ध्या स्त्री शुभ पुरुषको

प्राप्त होजाती है । गोरोचनादि सुगन्धित पदार्थोंसे उत्तम यन्त्रको  
लिखे । दो वृत्त निर्माण कर अष्टदल कमल लिखे । प्रतिपद्ममें  
मायावीज और भूपुर लिखे । हे महेश्वर ! भौजपत्रके ऊपर  
लिखकर इस यन्त्रको धारण करे तो इसके प्रसाद्दंस वंध्या सी भी  
पुत्रवती हो । इस प्रयोगकी समाप्तिमें गुरुजीको दक्षिणा देवे ।

वृत्तं चतुर्दलं पद्मं भूपुरेण समान्वितम् । वृत्तमध्ये  
लिखेद्विं साधकाख्यां विशेषतः ॥ पुत्रवतिपिदं  
पश्चात् भवत्तिविति पदं ततः । प्रणैवः पुष्टिता  
लज्जा त्रिधा पत्रेषु संलिखेत् ॥ पूर्ववत्पूजयेद्विं  
धारयेद्वक्षिणे भुजे । सत्यं सत्यं हि देवोशि  
वन्ध्या पुत्रवती भवेत् ॥ दुर्भगा चेद्ववेन्नारी  
सुभगा सासतो भवेत् ।

वृत्तचतुर्दलपद्म भूपुरयुक्त निर्माण करे । हे देवि ! वृत्तके  
मध्यमें साधकके नामको लिखे और पुत्रवती इस पदको लिखके  
भवतु इस पदको लिखे ( उदाहरण ) रमा पुत्रवती भवतु इस  
उदाहरणके अनुसार लिखे किर प्रणवपुष्टित लज्जावीज तीन  
प्रकार पत्रोंमें लिखे । हे देवि ! पूर्ववत् पूजन करे । और दक्षिण  
भुजामें धारण करे । हे देवि ! यह सत्य बात है कि इसके

( १६० )

क्रियोहुक्षः ।

धारण करनेसे वंच्या पुन्रवती होती है । हुर्भगा स्त्री एक मासके भीतर सौभाग्यवती होजाती है ।

अथ रक्षायन्त्रम् ।

अतः परं प्रवक्ष्यामि महारक्षाकरं परंस्य ।

धारणाद्वानवपतिर्महारक्षाकरो भवेत् ॥ पञ्चदलं

लिखेदेवि ग्लौबीजेनैष लाञ्छितम् । गंपञ्चकं

सर्वमध्ये लिखित्वा धारयेद्यदि ॥ न तस्य पुन्र

भीतिः स्थात्तत्र रक्षाकरो हरः । गोरोचनाङ्कुंकु

माख्यां भूजें संलिख्य धारयेत् ॥ तत्र पूजां महा

देवि गणपत्य समाचरेत् । पूजितं धारितञ्चैव

सर्वैपद्रवनाशनम् ॥ वृत्तमष्टदलं पञ्चं पुनः पञ्चषु

संलिखेत् । गोरोचनाभिः संलिख्य धारयेत्परमे-

श्वरि ॥ उत्तररूपेण छिंगस्य पूजां छृत्वा महेश्वरि ।

धारयेद्यो भवेत्तस्य ह्यपन्त्युपिनाशनम् ॥

अब महारक्षाकर यन्त्र कहाजाता है जिसके धारण करनेसे दैत्येश्वर भी रक्षा करनेवाला हो जाता है । हे देवि ! पञ्चदल कमल लिखकर ग्लौबीजसे अंकित करे । और सर्वदलोंके मध्यमें

मापार्टीकासमेतः । ( १६१ )

गम्भीज लिखकर पूजन कर धारण करे तो पुश्टभव कदापि न हो किन्तु शिवजी महाराज स्वयं आकर रक्षा करेगे । भोजपञ्चके ऊपर गोरोचन और कुंकुमसे लिखकर धारण करे और गणतातिका पूजन कर यंत्र धारण करे तो समस्त उपद्रव नाश हों और पुत्रकी ग्रासि हों । वृत्त अष्टदल कमलके प्रतिदलमें लावीज लिखें । हे परमेश्वरि ! गोरोचनादि सुगंधित पदार्थोंसे लिख धारण करनेसे पुत्रप्राप्ति होतीहै । हे महेश्वरि ! उक्त विधानके अनुसार यंत्रका पूजन करे । हे देवि ! पूजन और यन्त्रके धारण करनेसे अपमृत्यु दोष दूर होता है ।

अथ पुत्रजननयन्त्रम् ।

विन्दुवृत्तं समालिख्य लिखेदपृष्ठदलं ततः । प्रतिपत्रेषु यंवीजं लिखेदय पृथकपृथक् ॥ पूर्ववत्पूज-जयेदेवि धारणान्मृत्युनाशनम् । काकवन्ध्याज-नस्थापि बहुपुत्रकरं परम् ॥ पटकोणं विलिखेदृत्तं ततश्चापृदलं लिखेत् । पटकोणेषु च पट दीर्घांश् विलिखेत्परमेश्वरि ॥ ऐं हीं अँ ऐं हीं फट स्वाहा लिखेदपृदले ततः । सर्वमध्ये लिखेदेवि ततः

( १६२ )

क्रियोहीशः ।

शृणु महेश्वरि ॥ प्रणवस्तु ततो माया साधकास्थं  
 तु डन्तकम् । सुषुप्तश्च समालिख्य उत्पादय पद-  
 न्ततः ॥ विधाय चैवं विधिवद्वारयेवन्त्रमुत्तमम् ।  
 धारणात्सर्वसंपत्तिर्भवेद्विन न संशयः ॥ पूजनं  
 पूर्वेषुक्तम् । देवीं कालीमंत्रेण पूजयेत् ।

अब पुन उत्पन्न करनेवाला यंत्र कहा जाता है । विन्दुवृत्तको  
 लिखकर अष्टदल कमल लिखे, और उक्त कमलदलके प्रतिदलमें  
 पृथक् २ यंवीजको लिखे । हे देवि ! पूर्ववत् पूजनकर धारण  
 करे तो मृत्युसे भय न हो । काकवंध्या द्वी भी बहुपुत्र लाभ करे  
 पटकोण वृत्त लिखकर पुनः अष्टदल लिखे और छहों कोणोंमें  
 बोजमंत्र लिखे । “ऐं हीं औं ऐं हीं फट स्वाहा” इनको अष्ट-  
 दलमें लिखे । यंत्रके मध्यम प्रणव, मायावीज, साधकका नाम  
 सुषुप्तं, उत्पादय इन पदोंकी योजना कर सविभात्तिक लिखे ।  
 विधिपूर्वक इस उत्तम यंत्रको धारण करे । हे देवि ! यंत्र धारण  
 करनेसे समस्त संम्पत्ति प्राप्ति होती है, इसमें किसी प्रकारका  
 संदेह नहीं है । इसका पूजनविधान पिण्डाही कह आये हैं ।  
 वैष्णवीजाला पूजन क्षालीमंत्र भंडारै करे ।

भाषार्थिकासमेतः । ( १६३ )

अथ वशीकरणम् ।

वशीकरणयन्त्रन्तु शृणु मत्प्राणवल्लभे । यस्य  
धारणमात्रेण वशीं कुर्यात् पुनः प्रिये ॥ चतुर्वृत्तं  
समालिख्य लिखेदष्टदलं ततः । अँ शब्दमुखं व-  
न्धयेति प्रातिपद्मदलं लिखेत् ॥ यस्य नामाभि-  
संलिख्य वाहौ सन्धारयेच्छ्वे । पूर्ववत्पूजयंदेवीं  
जपेलक्षं विधानतः ॥' चासुण्डोक्तविधानेन पूज-  
येदेवि साधकः । हुत्वा चैव विधानेन स वशी  
भवति ध्रुवम् ।

हे मत्प्राणवल्लभे ! अब वशीकरण यन्त्र सुनो कि जिसके  
धारण करने मात्रमेही वशीकरण हो सकता है । चतुर्वृत्त लिखकर  
अष्टदल लिखे । " अँ शब्दमुखं वन्धय " प्रानिदलमें लिखे । साध्य  
व्यक्तिके नामको लिखकर वाहुगं धारण करे और पूर्ववत् पूजन  
करे । चासुण्डाके विधानको देशकर पूजन करे और विधानपूर्वक  
हवन करे ।

अथ वन्धमुक्त्यन्त्रम् ।

प्रथमन्तु लिखेद्वृत्तं तद्विस्तु स्वराँलिखेत् । व-  
द्विर्भूद्वयं लिख्य चतुर्दिक्षु च हीं लिखेत् ॥

( १६४ )

क्रियोहुशः ।

वृत्तयुग्माप्तवच्च लिखेद्गोरोचनादिना । श्रीवायां  
कंठदेहो वा शिखायां वापि धारणात् । बन्धमु-  
क्तिर्भवेत्तस्य नवमे दिवसे तथा । पूर्वोक्तविधिना-  
लक्ष्म दुर्गामन्त्रं जपेद्गुधः ।

अब वन्दीमांचन यन्त्र कहाजाता है । वृत्तलिखे और उस  
वृत्तके वहिर्भागमें स्वरांको लिखे । वहिर्भागमें दो बुभूं लिखे  
और चारों दिशाओंमें हिं लिखे दो वृत्त लिखकर गोरोचनादि-  
कसे अष्टदल लिखे । श्रीवा ( गर्दन ) कण्ठ, शिखामें धारण  
करे तो नैवें दिन बन्धनसे मुक्ति हो । पूजन प्रकार पूर्व कह-  
दिया है एक लाख दुर्गामन्त्र जपें ।

अथ डाकिन्यादिभयविनाशनयन्त्रं जीववत्सायन्त्रं च ।  
वृत्तयुग्मं लिखेत्तत्र महावजिचतुष्टयम् । चतुष्पको-  
णद्वयं वाह्ये लिखित्वा धारयेद्यादि ॥ नाशयेत्क्ष-  
णमात्रेण डाकिन्यादिभवं भयम् । सृतवत्सा यदि-  
भवेन्नारी दुःखपरायणा ॥ धारयेत् परमं यंत्रं  
जीववत्सा ततो भवेत् ।

अब डाकिनी आदि भयनाशक तथा जीववत्सायन्त्र कहाजा-  
ता है । दो वृत्त लिखकर चारों कोनोंमें चार महावजि लिखे और

भाषायीकासमेतः । ( १६५ )

पूजन कर धारण करे तो डाकिनी आदि भव नाश हो । अथवा जिस स्त्रीका पुत्र उत्पन्न होकर मरजाता हो और मर्वथा सन्तानसे दुःखित हो यदि वह स्त्री इस यन्त्रराजको मांगोषांग धारण करे तो उसकी संतान जिये और सुख भोगे ।

दीर्घरेखाद्वयं दत्त्वा तद्गांत्रेऽष्टदलं लिखेत् । ॐ  
हीं देवदत्त हीं रेखामध्ये लिखेच्छिवे ॥ रेखागात्र  
दले ॐ हूँ रेखाद्वन्तदले च ॐ ( लिखेत् ) ।  
गोरोचनाकुंकुमेन तथैवालक्तकेन वा ॥ यस्य  
नाम तु संलिख्य स्थापयेत्परमेश्वरि । पंचासृतेषु  
देवेशि जीववत्सा भवेष्ठि सा ॥ तत्सुतस्याकाल-  
मृत्युनान्यथा जायते प्रिये । उक्तरूपे तथा पूजां  
लक्ष्मन्त्रं नपोच्छिवे ॥ १० ॥

दो दीर्घ रेखा लिखकर उनमें अष्टदल कमल लिखे और उक्त रेखाओंके मध्यमें ओं हीं देवदत्त हीं ओं इस मंत्रको लिखे । रेखाके गात्रदलमें ओं हूँ रेखाके अन्तदलमें ओं इन वीजोंको लिखे । हं परमेश्वरि ! गोरोचन, कुंकुम लाख इनसे साध्य व्य-

( १६६ )

क्रियोडुषीशः ।

तिके नामको लिखे और पंचामृतमें स्नान करवे है देवोंशि ! स्त्री अवश्य जीवत्सा हो है शिवे ! इस यन्त्रको धारण करनेवाली स्त्रीका पुत्र कदापि अकाल मृत्युको न प्राप्त होगा । परन्तु उक्त विधिके अनुसार पूजन करे और एक लाख मन्त्र जप करे ॥

इति क्रियोडुषे महातंत्रराजे देवीश्वरसंघादे विशतितमः  
पटलः समाप्तः ॥ २० ॥

अथ विजयानुपानम् ।

दुर्घयोगेन विजया महातेजस्करी रमृता । क्षुद्रो-  
धबलक्षारित्वाच्छुदोपापहारिणी ॥ जलयोगेन  
सा हन्ति ह्यजीर्णादिषदान्त्क्षणात् । घृतेन मेधाज-  
ननी वाग्देवीवशकारिणी ॥ कफदोपानशेषांस्तु  
मधुना सह नाशयेत् । सैन्धवेन युता सा हि जठ-  
राणि विवर्द्धयेत् ॥ सितया लवणेनापि गुडेन सह  
सेविता । अग्निपित्तं तथा शूलं विनाशयति  
तत्क्षणात् ॥

मापादीकसमैतः ।

( ६७ )

बलपुष्टिप्रदा श्रोत्ता सधुरस्वरक्षारिणी ॥ कैवल्य-  
ज्ञानदा चेतनं सर्वसिद्धिप्रदायिनी ।

अब विजया अनुपानका विधान वहाजाता है । यदि विजया ( भंग ) दूधके साथ पीं जाय तो तेजका उदय हो नेत्र आदिका दोप दूर हो । कोई कहते हैं कि विजयाके पान करनेसे चक्र आदि दोप उत्पन्न होजाते हैं । यदि विजयाको वेवल जलमें पीसकर और पानीमें छानकर पिये तो अजीर्ण रोग दूर होजाता है । घृतके योगसे विजयाका सेवन करना वाणीकी चतुराई देता है । सहतके योगसे विजयाका सेवन करना समस्त कफ दोपोंको नाश करता है । सेधेनमकके योगसे विजयाका सेवन करना जटरान्त्रिकों प्रज्वलित करताहै लवण अथवा शर्करा वा गुड़के योगसे विजयाका सेवन करना शुल और अम्लपित्तको नाश करता है । विजयाके सेवन करनेसे बल, पुष्टि प्राप्त होती है और ज्ञान भी प्राप्त होता है । विजया समस्त सिद्धियोंको देनेवाली परमासिद्धि है ।

इति कियोहुशे महानंत्रराजे शिवगोरीसंवादे  
एकार्थंशातितमः पटलः ॥ २१ ॥

( १६८ )

क्रियोङ्गीशः ।

अथ मंगलचण्डीप्रयोगः ।

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूजये देवि मंगलचण्डिके ह्रू ह्रू  
 पद्म स्वाहा । इत्येकविंशतिरुम्भुः । ध्यानं  
 यथा—देवीं घोडहवर्षीया शश्त्रसुस्थिरयौवनाम् ।  
 सर्वरूपगुणाट्यां च कोषलांगीं मनोहराम् ।  
 श्वेतचम्पकवर्णीभाँ चन्द्रकोटिसमप्रभाम् । वाहि-  
 शुद्धां करालां च रत्नभूपणभूषिताम् ॥ वि-  
 श्रीतीं कबरीभारं सच्छिकामालयभूषितम् ॥  
 विम्बोष्ठीं सुदर्तीं शुद्धां श्वेतपद्मानिभाननाम् ।  
 हृष्टाहृष्टप्रसन्नास्यां सुनीलोत्पललोचनाम् ॥  
 जगद्वात्रीञ्च दार्तीं च सर्वेष्यः सर्वसम्पदाम् ।  
 कंसाशसामरे घोरे पोतरूपां वरां भजे ॥

हाति श्रीमद्विन्द्रजिद्विरचितः क्रियो-  
 ङ्गीशः समाप्तः ।

१ गाल्लीमालयभूषितामिति पाठांतरम् ।

अब मंगलचंडीप्रयोग कहा जाता है । अँ ह्रौं श्रीं क्लौं सर्वे पूज्ये देवि मंगलचंडिके ह्रौं ह्रौं फट् स्वाहा । यह २१ अक्षरका मंगलचंडीका मंत्र है । अब ध्यान कहा जाता है । १६ वर्षकी अवस्थावाली, निरंतर युवावस्था पूर्ण, समस्त गुण तथा रूपसे सुशोभित, कोमल अंगवाली, मनको हरनेवाली, श्रेत चम्पाके तुल्य कांतिवाली, चन्द्रकिरणके तुल्य उच्चल, अग्निके तुल्य शुद्ध कराल ( भयंकर ) रवस्प धारण करनेवाली, रत्नोंके भूषणोंसे भृपित, श्वेतवस्त्र धारण करनेवाली चमेलीके फूलोंसे जटित कवरी ( चोटी ) को धारण करनेवाली, कन्दूरीके तुल्य रक्त ओष्ठवाली, श्रेष्ठदांतवाली, श्रेत अर्थात् पवित्र, कमलकी कांतिको धारणकरनेवाली मंद मुसकान करनेवाली, नीलकमलदलके तुल्य नेत्रोंवाली, जगत्को धारण करनेवाली, समस्त सम्पत्ति देनेवाली, इस दुष्पागरसंसारमें नौकाके तुल्य पार लगानेवाली जगज्जननी देवीजीका हम साधक लोक ध्यान करते हैं ।

इति श्रीवैद्यरामनारायणश्चाद्विकृतभापानुवादसमेतं

क्रियोद्वीशतंत्रं समाप्तम् ।

पुस्तक मिलनेका ठिकाना-

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास,	खेमराज श्रीकृष्णदास,
“ दक्षमीष्वेकटेश्वर ” स्टीम् प्रेस,	“ श्रीवैकटेश्वर ” स्टीम् प्रेस,
कल्याण-सुंचई.	खेतवाडी-मुंबई.

## क्रय्यपुस्तकानि- ( मन्त्रशास्त्र-ग्रन्थाः )

नाम.

की. रु. आ.

अनुष्टानप्रकाश-पं०	चतुर्थीलालकृत-नैमित्तिकवर्गमें	
परमोपयोगी है इसमें-अबड मकडचक्र, दीक्षा-		
पुरश्चरण, सूर्यचन्द्रादि व्रहणोंमें पुरश्चरण तथा		
संकल्पादि संग्रही तर्हे और अनेक प्रकारके देवी		
देवताओंके अनुष्टान प्रकाश किये हैं ....	६-०	
आश्चर्ययोगरत्नमालातन्त्र .... .... ....	०-४	
आसुरीकल्प-भाषादीकासमेत । तन्त्रशास्त्रोंके पुस्त-		
कोंमें यह भी एक है .... .... ....	०-२	
बृहत् इन्द्रजाल- ( संस्कृत और भाषा ) मन्त्र, तन्त्र, मोहन,		
उच्चाटन, वशीकरण, प्रयोग और वैद्यक तथा		
समस्तकार्योंके सिद्धकरनेवाले १३८ यन्त्रोंसमेत		
संग्राह्यहै.... .... .... ....	२-०	
इन्द्रजाल-बडा-मथुराका छपा .... .... ....	१-४	
उच्छिष्टगणपतिपञ्चांग .... .... ....	१-०	
उद्धीशतन्त्र-रावणविरचित मूल तथा मुरादावादानि-		
' वासीइयामसुन्दरलाल त्रिपाठीकृत भाषादीकासहित	०-६	

मन्त्रशास्त्र-ग्रन्थः । ( १७१ )

नाम. की. रु. ला.

कार्तवीर्यार्जुनोपासनाध्याय-यह ग्रन्थ कार्तवीर्योपा-				
सकांको तथा सभी लोगोंको अवश्य लेना चाहिये २-०				
कामरत्नतन्त्र-महाराष्ट्र ( मराठी ) भाषासहित-इसमें				
मोहन, वशीकरण इत्यादिके अलावा वैद्यकके भी				
वाजीकरणादिके उत्तम प्रयोग हैं । मराठी जानने-				
वालोंको बहुत उपयोगी है ..... .... .... १-०				
गायत्रीपुरश्चरण ..... .... .... .... ०-२				
गायत्रीपञ्चांग-इसमें-गायत्रीचक्र, कल्पपद्माति, उप-				
निषद्, गायत्रीतन्त्र, गायत्रीकवच, गायत्री स्तव-				
राज, गायत्रीपञ्जरस्तोत्र, गायत्रीसहस्रनाम और				
गायत्रीपटलादि संग्रह हैं ..... .... .... १-०				
गुप्तसाधनतन्त्र-प० वल्देवप्रसादमिश्रकृत मापाठी-				
कासहित इसमें-अनेक प्रकारके योगानुकूल पद-				
कर्म और गर्भ इत्यादिका औपधिप्रयोग है ..... ०-६				
गोपालपञ्चांग-इसमें-( पटल, पद्माति, सहस्रनाम, कवच,				
स्तवराज ) यह पांचों अंग हैं ..... .... ०-१०				
गौतमतन्त्र-महर्षि गौतमप्रणीत । यह वैष्णवोंको परमोप-				
योगी तथा श्रीगोपालोपासकांको परमश्रेयस्फर है १०-८				

नाम	की. स. आ.
गंधोत्तमानिर्णयतंत्र-इसमें मध्यका विवेचन है	.... ०-८
चतुर्विंशतिगायत्री-श्रीमद्विद्यावार्गिधि पं० ज्वालाप्रसा-	
द्वंजी मिश्रकृत-भाषाटीकासहित .... ....	.... ०-४
दसात्रेयतन्त्र-भाषाटीकासमेत । यह औपधिप्रयोग	
इत्यादि २४ पटलोंमें वर्णित है .... ....	.... ०-६
दुर्गासप्तशती-इसमें-प्रतिश्छोक, चीजमन्त्र, प्रयोगविधि	
देवीविच, अर्गला, कीलक, नवार्णविधि, गत्रिसूक्त,	
सप्तशतीन्यास, दुर्गापाठ, उत्तरन्यास, देवीसूक्त, नवा	
र्णवसन्निवेदन, प्राधानिकरहस्य, वैकृतिरहस्य मृति-	
रहस्य समेत ८ पंक्तिकी मोटा अक्षर रेशमी जिल्ड	
गुटका ग्लेज .... .... .... ....	.... १०-१२
" तथा एक कागज रेशमी गुटका .... ....	.... १०-४
दुर्गासप्तशती-संपूर्ण घटनाओंके मृत्तिमान् चित्रोंसहित	
बड़ा अक्षर चित्रभी देखने योग्य है .... ....	.... २०-०
दुर्गासप्तशती-मोटा अक्षर उपरोक्त विषयानुसार	
खुलीसाँची .... .... .... ....	.... १०-४
दुर्गाममशनी-३२ पेजी रेशमी गुटका .... ....	.... ०-१२
" तथा खुलापत्रा .... .... .... ....	.... ०-८
दुर्गासप्तशती-६४ पेजी रेशमी गुटका छोटा अक्षर ....	.... ०-८
दुर्गासप्तशती-छोटा तावीज गुटका .... ....	.... ०-४

नाम.	की. रु. आ.
दुर्गासिसत्तानी-शानन्तनवीटीकासमेत ....	.... ०-१२
दुर्गासिसत्तानी-नागोजीभट्टकूल टीकासमेत ....	.... १-४
दुर्गासिसत्तानी-सातटीकासमेत । इसमें-दुर्गा प्रदीप, गुम- वती, चतुर्धरी, शान्तनवी, नागोजीभट्टी, जगचन्द्रिका दशोद्धारादि समटीकासमेत है ....	.... ४-०
दुर्गासिसत्तानी-भाषाटीकासाहित पं० गमेश्वरभट्टजी अनुवादित ग्लेज कागज ....	.... १-०४
दुर्गासिसत्तानी- पद्यात्मकभाषा-अनन्यकविकृत ....	.... ०-६
दुर्गापासनाकरणहुम-पं० हरिकृष्ण व्यक्टरामसंगृहीत । जिसमें-दुर्गाजीका ६० प्रकरण कईएक शाखासे उद्भृत कर अन्तमें दुर्गापाठभी रखवा गया है । दुर्गाजीके उपासकोंको अवश्य संग्रहोपयोगी है.... ५-०	
धन्वन्तीरतन्त्रशिक्षा-भाषाटीकासाहित । देवादिदेव महा- देवप्रणीत । इस-ग्रन्थमें तन्त्रके विपय बहुत अच्छे हैं, तान्त्रिकोंके व्यवश्य लेने योग्यहै ....	.... १-८
नवरात्राचौपद्धति--नवरात्रमें घटस्थापनादि नित्यपूजा- पद्धति .... .... .... .... .... ०-४	
मूल्यंगिरापचांग-इसमें-पटलपद्धति, कवच, तथा सहस्र नाम स्तोत्रका संग्रह प्रत्यक्ष फलदायकहै .... ०-१४	
पुरश्रणटीपिका-पुरश्रणकर्ममें अति उपयोगी है .... ०-३	

( १७४ ) क्षेत्रपुस्तकाने--

नाम	की. रु. धा.
वटुकभैरवोपासनाध्याय—( वृहज्योतिर्पाणवान्तर्गत )	
जिसमें संपूर्ण भैरवोंकी उपासनाका मन्त्रोद्धार, पुर-	
थरणकवच, पुजासहस्रनामस्तवादिका संग्रह है .... १-८	
महालक्ष्मीपूजापद्धति—भापाटीकासाहित । .... ०-२	
महायक्षिणीसाधन—प० ज्वालाप्रसादमिश्रकृत भापाटीका	
समेत । इसमें—अनेक प्रकारकी यक्षिणी साधनादि-	
विधि समस्त ( २२५ ) विषयहैं .... .... ०-१२	
मन्त्रमहार्णव—मन्त्रशास्त्रका महान् ग्रन्थ संपूर्ण छपके	
लैयार है । ऐसा ग्रन्थ आजतक अन्यत्र कहीं भी	
नहीं छपा । इस वृहद्ग्रन्थका दाम भी थोड़ा	
रक्खाहै .... .... .... .... २०-०	
महानिर्बाणितन्त्र—भापाटीकासमेत । इसमें—तान्त्रिक उपा-	
सना, मूळमन्त्र, कर्मकाण्डादि आध्यात्मिकतत्त्वादि	
विषयहै .... .... .... .... ४-०	
मन्त्रमहोदाधि—सर्वीक ( ९८ ) यन्त्रोंसमेत । इसमें—गणेश	
मन्त्र, कालिकामन्त्र, तारामन्त्र, ब्रह्मोपसिततत्त्व, छिन्न-	
मस्ता, यक्षिणी, वाराही, धूमावती, कर्ण पिशाचिना,	
स्वप्नेश्वरी, चाला, त्रिपुरसुन्दरि, अन्नपूर्णेश्वरी, मंगल-	
पूर्णकशीविद्या, श्रीविद्याका परियार, हत्यगमन्त्र, विष्णु	

की. स. आ.

मन्त्र, रोगदारिव्यवाशकरविमन्त्र, महासृत्युंजयमन्त्र,  
अभीष्टसिद्धिदक्षार्तवीर्यार्जुनमन्त्र, काल्यगात्रि-मन्त्रविधि,  
दूटमन्त्र, सर्वदेवोंके नन्द, नित्यपूजा, नित्यार्चनविधि,  
पवित्रपूजनार्चन, मन्त्रशुद्धि और शान्त्यादि पदकर्म  
इत्यादिमन्त्रोंका उद्घाटनादि उत्तमप्रकारसे वर्णितहै.... ५-०  
मन्त्रमुक्तावली-( मन्त्रमंग्रह ) वैष्णव शैव-शाक्तोंको

सर्वोपयोगी है । .... .... .... ०-३

माहेश्वरीतन्त्र-भाषार्दीकासामेन । इसमें-मारण, मोहन,  
बड़ीकरण, उच्चारणादि विधि भलीप्रकार वर्णितहै.... ०-४

महतन्त्र-तन्त्रोंपर प्राचः लोग यह दोष लगाते हैं कि, वह  
वाममन प्रधान होनेसे वैदिक लोगोंके अनुष्ठानके योग्य  
नहीं किन्तु इस सर्वथ्रैष “मेरुतन्त्र” में अनेक वैदिक-  
प्रयोग ऐसे उत्तम हैं कि, उक्त दोष कभी नहीं रग-  
मत्ते । इसमें-अनेक अपूर्व २ अनुष्ठानहैं जो वैदिक  
तथा तान्त्रिक सभीके उपयोगी हैं । अवश्य लीजिये,  
तत्त्व छपाहे .... .... .... .... ८-०

सांगिनीतन्त्र-५० कन्देयालालमिश्रकृत भाषार्दीकासाहित  
हगमें भगवनीकी उपासना, गन्ध, पुराशरण तथा

( १७६ ) कंग्रपुस्तकानि ।

नाम. की. रु. अ-

अनुष्टानविधि इत्यादि भलीभाँति वर्णित है .... ४-

योगमालातन्त्र-पं० बलदेवप्रसादामिश्रकृत भाषाटीकासमेता।

इसमें—अनेकप्रकारके योगानुकूल पद्धति और ग

इत्यादिका औपाधिप्रयोग है । .... ०

गधाकृष्णपञ्चाङ्ग—इसमें—श्रीराधिका और श्रीकृष्णजीव

युगलरूप पटल, पद्माति, कवच, सहस्रनामस्तो

भक्तिमय उपासना योग्यहै । इसका रेशमी गुटका है

रुद्राक्षधारणविधि—शिवभक्तोंको अवश्य लेना चाहिये .... ०

वर्णवीजप्रकाश—इसमें अकारादि क्रमसे शब्द लिखके उन

वीजवर्ण लिखे हुए हैं और उनवीं स्पष्टताके लि

अमुक २ वर्णोंके अमुक अमुक वर्णोंके एकत्र योग

यह वीज वर्ण बना हुआहै, यहमी लिखागया है, य

ग्रन्थ मन्त्रोद्धार करनेके लिये बहुतही उपकारक है

और आजतक ऐसा कोई दृग्मरा ग्रन्थ नहीं छप,

सुन्दर रेशमी जिल्द बँधाहै .... ०

पुस्तकों मिलनेका ठिकाना-

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास,

“ लक्ष्मीवैकटेश्वर ” छापाखाना

कल्याण—सुंबद्ध

